



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 4
PART I—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 15, 1977/श्रावण 24, 1899
No. 2] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 15, 1977/SRAVANA 24, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय
(थल सेना विभाग)

अधिवृत्ताएँ

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 1977

सं० 10—ई, दिनांक 9 अगस्त, 1977.—राष्ट्रपति सहर्ष स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त 1977) के अवसर पर निम्नलिखित जे सी ओज को सेना विनियमावली, 1962 के पैरा 178 के अधीन अवैतनिक पद प्रदान करते हैं.—

अवैतनिक कैप्टन के रैंक में

8 केवलरी

1 जे सी 12588 रिसालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट मेहंगा सिंह

63 केवलरी

2 जे सी 10736 रिसालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट जवाला सिंह

45 केवलरी

3	जे सी 12228	रिसालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	पी जी नेडूनगाड़ी
---	-------------	------------------------------------	------------------

रेजिमेंट क्वाक ब्राह्मणरी

4	जे सी 15436	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	माफती धगारे
5	जे सी 17312	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	माता श्रीम
6	जे सी 14747	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मुधुसामी
7	जे सी 15849	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	टी बी राघवन
8	जे सी 17350	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	तुकाराम महादिक
9	जे सी 17374	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	उत्तम सिंह, एस एम

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

10	जे सी 16422	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राजिन्द्रम
11	जे सी 11441	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	एस रथिनभ

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

12	जे सी 21348	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	भेषा सिंह
13	जे सी 25243	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	पूरम सिंह

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

14	जे सी 17509	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	लछमन सिंह, बी एस एम
15	जे सी 17502	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मुस्तियास सिंह गिल
16	जे सी 29475	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	शंकर मोरे, एस एम

कोर ब्राक सिगमलस

17	जे सी 20063	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	पी एन केसवन नायर
18	जे सी 20121	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	परमोद सिंह
19	जे सी 20146	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	उत्तम चन्द
20	जे सी 36802	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	ए एफ मथार्ड

ब्रिगेड ब्राक बी गार्ड्स

21	जे सी 16723	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	चरन सिंह
22	जे सी 19270	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	शयो नारायण सिंह

बी पेरशूट रेजिमेंट

23	जे सी 25344	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	पेप सिंह
24	जे सी 20873	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	चन्दन सिंह रांगड

बी पंजाब रेजिमेंट

25	जे सी 24419	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गुरबचन सिंह
26	जे सी 14627	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्यारा सिंह

बी मद्रास रेजिमेंट

27	जे सी 9904	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	आर ए एक्सेवियर
----	------------	-----------------------------------	----------------

बी मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

28	जे सी 17112	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बाबू जाधव
29	जे सी 9760	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	वसंत लक्ष्मण जोशी

बी राजपूताना राईफल्स

30	जे सी 33985	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	फतह सिंह
31	जे सी 14434	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मंगत सिंह

बी राजपूत रेजिमेंट

32	जे सी 22078	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सुमेर सिंह
----	-------------	-----------------------------------	------------

बी जाट रेजिमेंट

33	जे सी 12066	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हरफूल सिंह
----	-------------	-----------------------------------	------------

बी सिख लाइट इन्फैन्ट्री

34	जे सी 26627 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बिशन सिंह
35	जे सी 15725 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मेहर सिंह
36	जे सी 24052 पी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	तेजा सिंह

बी डोगरा रेजिमेंट

37	जे सी 15072	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	घडक सिंह
38	जे सी 12695	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हरनाम सिंह
39	जे सी 12024	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	किशन सिंह
40	जे सी 13886	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मुंशी राम
41	जे सी 21351	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	तरलोक चन्द
42	जे सी 39135	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बगगा राम

बी कुमायूँ रेजिमेंट

43	जे सी 21550	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गम्भीर सिंह
----	-------------	-----------------------------------	-------------

बी आसाम रेजिमेंट

44 जे सी 15779 सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट जाष्टुगा लुशाई

बी महार रेजिमेंट

45 जे सी 19261 सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट माहलि लोन्हे

46 जे सी 14496 सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट साधु सिंह

47 जे सी 12127 सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट सागर चन्द

बी जम्मू एण्ड कश्मीर राईफल

48 जे सी 43887 सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट संसार सिंह

बी लहाख स्काउट्स

49 जे सी 25924 सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट कारगुट छोसपेल

50 जे सी 42481 सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट बन्नी नाथ पटवारी

1 गोरखा राइफल

51 जे सी 25538 सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट राम प्रसाद, बीर चक्र

3 गोरखा राइफल

52 जे सी 22728 सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट तीरथ बहादुर गुरुगं

4 गोरखा राइफल

53 जे सी 27377 सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट ओम बहादुर पुन

8 गोरखा राइफल

54 जे सी 34417 सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट गलबहादुर आले

55 जे सी 23013 सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट नरबहादुर थापा

9 गोरखा राइफल

56 जे सी 15326 सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट अमर बहादुर

ग्रामी सविस फोर (सप्लाई)

57 जे सी 43098 सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट चन्दरहास

ग्रामी सविस फोर (एमीमल) ट्रांसपोर्ट

58 जे सी 14200 रिसालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट हरि सिंह

59 जे सी 13818 रिसालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट सुरेन्द्र सिंह रायत

60 जे सी 15171 रिसालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट तुलसी राम बहिन

आर्मी सर्विस कोर (मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट)

61	जे सी 39903	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जय राम
62	जे सी 36976	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्यारे लाल
63	जे सी 36967	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सुरेश नन्द
64	जे सी 36968	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	तारा चन्द

आर्मी मेडिकल कोर

65	जे सी 41415	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	चैत भान मिश्रा
66	जे सी 53828	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राघवेंद्र प्रसाद

आर्मी आर्टिलरी कोर

67	जे सी 14556	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मलकीत सिंह
68	जे सी 30837	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राजिन्द्र सिंह तलवार
69	जे सी 12493	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	श्यामल कृष्ण मुखर्जी
70	जे सी 30764	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सोहन सिंह

कोर आफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल इन्जीनियरस

71	जे सी 19546	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हिमानसू रन्जन भट्टाचारजी
72	जे सी 18955	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	के एस स्वामीनाथन
73	जे सी 20931	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	कलबन्त राय
74	जे सी 18693	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	एम पुष्पा राजन
75	जे सी 19382	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	नीरन्दर सिंह
76	जे सी 38791	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जगजीत सिंह
77	जे सी 36274	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मलकियत सिंह
78	जे सी 36445	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सरदारा सिंह

आर्मी एजुकेशन कोर

79	जे सी 15953	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्रीतम सिंह
----	-------------	-----------------------------------	-------------

बी इन्टेलीजेन्स कोर

80	जे सी 11153	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राजे सिंह नेगी
----	-------------	-----------------------------------	----------------

डिफेंस सिग्नोरिडी कोर

81	जे सी 4132	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	त्रिलोक नाथ
----	------------	-----------------------------------	-------------

अवैतनिक लैफ्टिनेंट के रैंक में**16 केवलरी**

1	जे सी 42400	रिसालदार	टी सोबारीअप्पन
---	-------------	----------	----------------

17 हसि

2	जे सी 47877	रिसालदार	उमराउ सिंह
---	-------------	----------	------------

9 हसि

3	जे सी 15469	रिसालदार मेजर	रिसाल सिंह, एस एम
4	जे सी 60490	रिसालदार	खाल सिंह

14 हसि

5	जे सी 17608	रिसालदार मेजर	केहर सिंह
6	जे सी 60377	रिसालदार	सुन्धा सिंह

18 केवलरी

7	जे सी 42709	रिसालदार	टेक चन्द
---	-------------	----------	----------

4 हसि

8	जे सी 58183	रिसालदार	सागर सिंह, एस एम
---	-------------	----------	------------------

बी सेम्ट्रल इन्डिया हसि

9	जे सी 51424	रिसालदार	भीम सिंह
---	-------------	----------	----------

63 केवलरी

10	जे सी 45886	रिसालदार	धर्म सिंह
----	-------------	----------	-----------

61 केवलरी

11	जे सी 12604	रिसालदार मेजर	अस्त अली खान
----	-------------	---------------	--------------

65 आर्म्ड रेजिमेंट

12	जे सी 33715	रिसालदार मेजर	रिसाल सिंह
13	जे सी 52374	रिसालदार	जय राम

68 आर्म्ड रेजिमेंट

14	जे सी 16703	रिसालदार मेजर	सुन्दर लाल
----	-------------	---------------	------------

70 आर्म्ड रेजिमेंट

15	जे सी 38379	रिसालदार मेजर	सी राघवन
----	-------------	---------------	----------

71 ग्रामंड रेजिमेंट

16 जे सी 12579 रिसालदार मेजर करण सिंह

75 ग्रामंड रेजिमेंट

17 जे सी 33711 रिसालदार धर्म सिंह

81 ग्रामंड रेजिमेंट

18 जे सी 25854 रिसालदार मेजर श्री राम

रेजिमेंट आफ आर्टिलरी

19	जे सी 17309	सूबेदार मेजर	बालक राम
20	जे सी 15853	सूबेदार मेजर	बालाकृष्णन
21	जे सी 13902	सूबेदार मेजर	बालचरण सिंह
22	जे सी 16835	सूबेदार मेजर	एच अय्याशु
23	जे सी 17329	सूबेदार मेजर	हरभजन सिंह
24	जे सी 24208	सूबेदार मेजर	हरी चन्द
25	जे सी 32834	सूबेदार मेजर	हरफूल
26	जे सी 14355	सूबेदार मेजर	जगजीत सिंह
27	जे सी 17310	सूबेदार मेजर	जय प्रकाश
28	जे सी 15854	सूबेदार मेजर	एम स्टीफन
29	जे सी 25895	सूबेदार मेजर	राम किशन शर्मा
30	जे सी 25896	सूबेदार मेजर	राम सिंह
31	जे सी 15533	सूबेदार मेजर	सदाशिव गुन्डे
32	जे सी 24365	सूबेदार मेजर	सत सिंह मदान
33	जे सी 37893	सूबेदार	बिशन सिंह
34	जे सी 45335	सूबेदार	चरन सिंह
35	जे सी 40173	सूबेदार	फिरो राम, बीर चक्र
36	जे सी 40317	सूबेदार	गौरी शंकर राम
37	जे सी 45583	सूबेदार	जोगिन्दर सिंह
38	जे सी 44290	सूबेदार	के गोविन्दन कुट्टी
39	जे सी 47231	सूबेदार	के बी गोपालन नायर
40	जे सी 34327	सूबेदार	कपिल देव सिंह यादव
41	जे सी 41027	सूबेदार	लाल सिंह
42	जे सी 47163	सूबेदार	मुख्तियार सिंह कुंडलास
43	जे सी 45510	सूबेदार	नवल किशोर पाठक
44	जे सी 41010	सूबेदार	पृथ्वी चन्द
45	जे सी 45574	सूबेदार	राधा मोहन सिंह
46	जे सी 45459	सूबेदार	शेर सिंह

મગ્રાસ ઇન્જીનિયર ઘુપ

47	જે સી 19633	સૂબેદાર મેજર	ગુરુમૂરથી
48	જે સી 16434	સૂબેદાર મેજર	કે બી સુદરાસન
49	જે સી 21102	સૂબેદાર મેજર	આર મનોગરન
50	જે સી 41303	સૂબેદાર	એ મુશ્ફોસન
51	જે સી 41239	સૂબેદાર	એમ દોરાયસામી
52	જે સી 28657	સૂબેદાર	એસ સામરાજ

બંગાલ ઇન્જીનિયર ઘુપ

53	જે સી 34629	સૂબેદાર મેજર	એ આઈ કોશી
54	જે સી 15323	સૂબેદાર મેજર	અલબેલ સિંહ
55	જે સી 14113	સૂબેદાર મેજર	ગુરદયાલ સિંહ
56	જે સી 15895	સૂબેદાર મેજર	હરબસ સિંહ
57	જે સી 15129	સૂબેદાર મેજર	હરી શાકર
58	જે સી 17276	સૂબેદાર મેજર	હરજીત સિંહ, બી એસ એમ
59	જે સી 46767	સૂબેદાર મેજર	ઇન્દ્રપાલ સિંહ ડાહીવાલ
60	જે સી 26144	સૂબેદાર મેજર	જોગિન્દર સિંહ
61	જે સી 14114	સૂબેદાર મેજર	કે ગોપાલન
62	જે સી 15820	સૂબેદાર મેજર	કુલદીપ સિંહ
63	જે સી 24661	સૂબેદાર મેજર	મોહિન્દ્ર સિંહ
64	જે સી 17948	સૂબેદાર મેજર	પ્યારા સિંહ
65	જે સી 21860	સૂબેદાર મેજર	પૂર્ન ચન્દ
66	જે સી 17084	સૂબેદાર મેજર	રાધાકૃષ્ણન્
67	જે સી 33346	સૂબેદાર મેજર	શિવ ચરન
68	જે સી 33338	સૂબેદાર મેજર	સોહન સિંહ
69	જે સી 25244	સૂબેદાર મેજર	સુખવન્ત સિંહ
70	જે સી 23374	સૂબેદાર મેજર	ઠાકુર પ્રસાદ સિંહ
71	જે સી 15817	સૂબેદાર મેજર	વિશ્વા નાથ, બી એસ એમ
72	જે સી 34203	સૂબેદાર	હોરા સિંહ
73	જે સી 38081	સૂબેદાર	નિરજન સિંહ
74	જે સી 43589	સૂબેદાર	સુચ્ચા સિંહ

બોમ્બે ઇન્જીનિયર ઘુપ

75	જે સી 19038	સૂબેદાર મેજર	ગણપત શિંદે, એસ એમ
76	જે સી 19045	સૂબેદાર મેજર	ગુલાબરાવ વેશમુષ
77	જે સી 19028	સૂબેદાર મેજર	ગુલાબરાવ સાવન્ત
78	જે સી 17503	સૂબેદાર મેજર	કરનૈલ સિંહ
79	જે સી 20343	સૂબેદાર મેજર	કિરપાલ સિંહ
80	જે સી 19030	સૂબેદાર મેજર	લક્ષ્મન શિંદે
81	જે સી 24581	સૂબેદાર મેજર	મુહમ્મદ કાદિર
82	જે સી 19032	સૂબેદાર મેજર	સોહન સિંહ

83	जे सी 19034	सूबेदार मेजर	तुकाराम शिंदे
84	जे सी 34484	सूबेदार	चानन सिंह
85	जे सी 41493	सूबेदार	छज्जा मिह, वी एस एम
86	जे सी 43836	सूबेदार	दत्तात्रय गोडसे
87	जे सी 33709	सूबेदार	देवी दयाल
88	जे सी 33701	सूबेदार	केहर सिंह
89	जे सी 43534	सूबेदार	पूरन सिंह

कोर ग्राफ सिगनलस

90	जे सी 27330	सूबेदार मेजर	ए सिंघारमन नायर
91	जे सी 20150	सूबेदार मेजर	आतम प्रकाश सिंह
92	जे सी 8317	सूबेदार मेजर	बिशन दत्त
93	जे सी 20135	सूबेदार मेजर	गुलजार सिंह
94	जे सी 20122	सूबेदार मेजर	गुरमेल सिंह ग्रेवाल
95	जे सी 20130	सूबेदार मेजर	के गोविन्दन नायर
96	जे सी 31047	सूबेदार मेजर	करनैल सिंह, एस एम
97	जे सी 29356	सूबेदार मेजर	एम एम सलवा राजन
98	जे सी 25999	सूबेदार मेजर	एन वाम्बुदेवा पानिकर
99	जे सी 14183	सूबेदार मेजर	पी पी नारायणन नम्बियर
100	जे सी 29366	सूबेदार मेजर	सोहन सिंह
101	जे सी 22405	सूबेदार मेजर	बी ई चाको
102	जे सी 55071	सूबेदार	बकशीश सिंह
103	जे सी 55067	सूबेदार	बसन्त राम
104	जे सी 52864	सूबेदार	हरधुमन सिंह
105	जे सी 55079	सूबेदार	जोगिन्दर सिंह राना
106	जे सी 52764	सूबेदार	के श्रीधरन
107	जे सी 37222	सूबेदार	के ए कुरयाकोस
108	जे सी 55125	सूबेदार	मुक्तयार सिंह
109	जे सी 55135	सूबेदार	भोकार सिंह
110	जे सी 55130	सूबेदार	राम लाल
111	जे सी 52282	सूबेदार	राम नवल मनी त्रिपाठी
112	जे सी 53230	सूबेदार	सनसार सिंह सलाथिया
113	जे सी 55082	सूबेदार	मोम दत्त
114	जे सी 52865	सूबेदार	सुरिन्दर सिंह
115	जे सी 53227	सूबेदार	तेजा सिंह

विशेष ग्राफ वी गार्डस

116	जे सी 58445	सूबेदार	चक्र बहादुर थापा
117	जे सी 46254	सूबेदार	दलपत सिंह
118	जे सी 48172	सूबेदार	खुशी राम नारा
119	जे सी 46151	सूबेदार	लेख राम

बी पैराशूट रेजिमेंट

120	जे सी 36515	सूबेदार मेजर	बिशन दास
121	जे सी 43898	सूबेदार	त्रिलोक सिंह

बि पंजाब रेजिमेंट

122	जे सी 35009	सूबेदार मेजर	अमर नाथ
123	जे सी 59476	सूबेदार	कल्याण सिंह
124	जे सी 37551	सूबेदार	मदन लाल
125	जे सी 35013	सूबेदार	उज्जागर सिंह

बि प्रिन्सिपियर्स

126	जे सी 22050	सूबेदार मेजर	बलबीर सिंह
127	जे सी 22049	सूबेदार मेजर	बलवत सिन जी
128	जे सी 16110	सूबेदार मेजर	दुलीचन्द
129	जे सी 11686	सूबेदार मेजर	ससकर्ण सिंह
130	जे सी 42970	सूबेदार	भगवान सिंह
131	जे सी 27721	सूबेदार	होशियार सिंह
132	जे सी 55520	सूबेदार	जोगिन्दर सिंह
133	जे सी 16788	सूबेदार	प्रताप सिंह
134	जे सी 17843	सूबेदार	फूल सिंह
135	जे सी 53963	सूबेदार	रतन सिंह
136	जे सी 53962	सूबेदार	शम्भूदत्त शर्मा
137	जे सी 37842	सूबेदार	शिव नारायण

बी मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

138	जे सी 16769	सूबेदार मेजर	जागीर सिंह
139	जे सी 16766	सूबेदार मेजर	मारुति जाधव
140	जे सी 18452	सूबेदार मेजर	रमेश टाकलकर
141	जे सी 22113	सूबेदार मेजर	शंकर लछमण
142	जे सी 16327	सूबेदार मेजर	वासुदेव दलवी

बी राजपुताना राईफल्स

143	जे सी 43924	सूबेदार	देवी सिंह
144	जे सी 17938	सूबेदार	फूल चन्द
145	जे सी 43087	सूबेदार	शिव वयाल सिंह

बि राजपूत रेजिमेंट

146	जे सी 28634	सूबेदार मेजर	गोविन्द सिंह
147	जे सी 13085	सूबेदार मेजर	हरग्यान सिंह
148	जे सी 22072	सूबेदार मेजर	शिव चरन
149	जे सी 20566	सूबेदार मेजर	उत्फत सिंह
150	जे सी 47635	सूबेदार	भन्त लाल
151	जे सी 35534	सूबेदार	महिन्द्र प्रताप सिंह

बी जाट रेजिमेंट

152	जे सी 18009	सूबेदार मेजर	मुख्त्यार सिंह
153	जे सी 16451	सूबेदार मेजर	प्रताप सिंह
154	जे सी 17123	सूबेदार मेजर	रणजीत सिंह
155	जे सी 52175	सूबेदार	फोरन सिंह
156	जे सी 42518	सूबेदार	सुभ राम

बी सिख रेजिमेंट

157	जे सी 16977	सूबेदार मेजर	हरदयाल सिंह
158	जे सी 19150	सूबेदार मेजर	सहैल सिंह
159	जे सी 16948	सूबेदार मेजर	बरदीप सिंह
160	जे सी 45919	सूबेदार	गुरुमुख सिंह
161	जे सी 53550	सूबेदार	ईशार सिंह
162	जे सी 41592	सूबेदार	उदय सिंह

बी सिख लाईट इन्फैन्ट्री

163	जे सी 16731 के	सूबेदार मेजर	आनन सिंह
164	जे सी 32197 पी	सूबेदार मेजर	लाल सिंह
165	जे सी 21694 पी	सूबेदार मेजर	लशकर सिंह
166	जे सी 38618 एच	सूबेदार	बसहारा सिंह
167	जे सी 35959 एच	सूबेदार	निरन्जन सिंह
168	जे सी 55237 एक्स	सूबेदार	मुच्छा सिंह
169	जे सी 42492 एल	सूबेदार	तेजा सिंह

बी डोगरा रेजिमेंट

170	जे सी 20420	सूबेदार मेजर	रूप सिंह
171	जे सी 16830	सूबेदार मेजर	सन्त राम
172	जे सी 39493	सूबेदार	भाग सिंह
173	जे सी 40610	सूबेदार	चैन सिंह
174	जे सी 39382	सूबेदार	देवी सिंह

175	जे सी 50877	सूबेदार	हरनाम सिंह वर्मा
176	जे सी 36672	सूबेदार	जगन नाथ
177	जे सी 39380	सूबेदार	मिलखी राम
178	जे सी 44239	सूबेदार	परकाश चन्द
179	जे सी 40608	सूबेदार	प्रताप सिंह
180	जे सी 30958	सूबेदार	तरलोक सिंह

बी गढ़वाल राईफल्स

181	जे सी 32898	सूबेदार मेजर	धुरत सिंह थापा
182	जे सी 35377	सूबेदार	खुशाल सिंह नेगी
183	जे सी 39169	सूबेदार	पिरत सिंह पुन्डीर
184	जे सी 44856	सूबेदार	सुजान सिंह नेगी, वीर बफ

बी कुमाऊं रेजिमेंट

185	जे सी 17720	सूबेदार मेजर	नारायण सिंह
186	जे सी 14286	सूबेदार मेजर	शंकर सिंह
187	जे सी 27533	सूबेदार मेजर	शिव चरन सिंह
188	जे सी 39464	सूबेदार	बहाबुर सिंह
189	जे सी 30672	सूबेदार	दलीप सिंह
190	जे सी 39458	सूबेदार	गम्भीर चन्द
191	जे सी 42255	सूबेदार	लखपत सिंह
192	जे सी 48561	सूबेदार	शिद्योताज सिंह

बी असम रेजिमेंट

193	जे सी 52174	सूबेदार	मनहरी दास
-----	-------------	---------	-----------

बी बिहार रेजिमेंट

194	जे सी 30519	सूबेदार }	महानन्द सिंह तरुण
195	जे सी 35652	सूबेदार	राम चन्द्र सिंह

बी महार रेजिमेंट

196	जे सी 18549	सूबेदार मेजर	मारुति मोर
197	जे सी 37505	सूबेदार	हरदयाल सिंह हीरा
198	जे सी 39156	सूबेदार	मोहिन्दर सिंह

बी जम्मू एन्ड कश्मीर राईफल्स

199	जे सी 20791	सूबेदार मेजर	आलम सिंह
200	जे सी 25151	सूबेदार मेजर	जगदेव सिंह
201	जे सी 41680	सूबेदार	बसी लाल

बी नागा रेजिमेंट

202 जे सी 18506 सूबेदार मेजर गोपाल सिंह

बी जम्मू एण्ड काश्मीर लाईट इन्फैण्ट्री

203 जे सी (एम) 97 सूबेदार मेजर सोम नाथ

204 जे सी (एम) 246 सूबेदार किशन सिंह

205 जे सी (एम) 172 सूबेदार रघुनाथ सिंह

1 गोरखा राईफल

206 जे सी 51094 सूबेदार प्रकाश सिंह कनैत

3 गोरखा राईफल

207 जे सी 28207 सूबेदार मेजर सिरं. लाल गुरुग

208 जे सी 28206 सूबेदार मेजर टेक बहादुर पुन

209 जे सी 51115 सूबेदार देवो प्रसाद गुरुग

4 गोरखा राईफल

210 जे सी 15365 सूबेदार मेजर बीर शमशेर गुरुग

211 जे सी 22974 सूबेदार मेजर महादेव प्रसाद शर्मा

212 जे सी 39043 सूबेदार भ्रमर सिंह थापा

213 जे सी 46252 सूबेदार जमान राना

214 जे सी 53493 सूबेदार उमर बहादुर गुरुग

5 गोरखा राईफल

215 जे सी 28522 सूबेदार मेजर मोतीप्रसाद थकाली

216 जे सी 36874 सूबेदार मेजर रामसिंह गुरुग

217 जे सी 51179 सूबेदार भीमबहादुर राना

218 जे सी 36872 सूबेदार गरबहादुर गुरुग, एस एम

219 जे सी 56491 सूबेदार जयबहादुर गुरुग

220 जे सी 45152 सूबेदार तुलसीराम थापा

8 गोरखा राईफल

221 जे सी 35914 सूबेदार मेजर कुलबहादुर थापा

222 जे सी 44085 सूबेदार सत्याबहादुर राय

9 गोरखा राईफल

223 जे सी 35337 सूबेदार मेजर भक्ता बहादुर मल्ल

224 जे सी 36036 सूबेदार मेजर रेशम बहादुर साही

225 जे सी 51140 सूबेदार रूप बहादुर मल्ल, एस एम

11 गोरखा राईफल

226	जे सी 28337	सूबेदार मेजर	वीरहग लिम्बु
227	जे सी 29686	सूबेदार मेजर	रुकबहादुर लिम्बु
228	जे सी 34537	सूबेदार मेजर	तारामन राय

ग्रामी सविस कोर (सप्लाई)

229	जे सी 18985	सूबेदार मेजर	अमरीक सिंह
230	जे सी 43097	सूबेदार मेजर	अनन्त राम
231	जे सी 21927	सूबेदार मेजर	चूनी लाल
232	जे सी 38133	सूबेदार मेजर	ज्ञान सिंह वीर
233	जे सी 18980	सूबेदार मेजर	जह्मागौर सिंह
234	जे सी 43100	सूबेदार मेजर	कालीपदा सिघान्ता
235	जे सी 18990	सूबेदार मेजर	माहन सिंह
236	जे सी 18987	सूबेदार मेजर	मोती लाल साहू
237	जे सी 26836	सूबेदार मेजर	श्रोम प्रकाश
238	जे सी 20457	सूबेदार मेजर	पूरन चन्द
239	जे सी 20447	सूबेदार मेजर	पूरन सिंह
240	जे सी 18981	सूबेदार मेजर	रनजीत सिंह
241	जे सी 50278	सूबेदार	अमरिक सिंह
242	जे सी 52265	सूबेदार	के एम कृष्णन कुट्टी
243	जे सी 51276	सूबेदार	एम वकील
244	जे सी 56655	सूबेदार	रंजीत कुमार सेन शर्मा

ग्रामी सविस कोर (एनीमल ट्रांसपोर्ट)

245	जे सी 16936	रिसालदार मेजर	शिव दयाल
246	जे सी 43331	रिसालदार	भरोसा राम
247	जे सी 34937	रिसालदार	धन सिंह

ग्रामी सविस कोर (मेकेनिकल ट्रांसपोर्ट)

248	जे सी 36956	सूबेदार मेजर	अलमन्दा फिलिप
249	जे सी 39897	सूबेदार मेजर	इडथनल मैथ्यू जोसफ
250	जे सी 41789	सूबेदार मेजर	गनेसन
251	जे सी 41801	सूबेदार मेजर	हरेश्वर दास
252	जे सी 36977	सूबेदार मेजर	जोगिन्द्र चौधरी
253	जे सी 39898	सूबेदार मेजर	केशव पिल्ले क्रिशनन नायर
254	जे सी 39905	सूबेदार मेजर	मस्त राम
255	जे सी 36978	सूबेदार मेजर	राम चन्दर
256	जे सी 41808	सूबेदार मेजर	राम कृपाल दुबे
257	जे सी 39902	सूबेदार मेजर	रोशन लाल
258	जे सी 36969	सूबेदार मेजर	सुर्ज नरायन

259	जे सी 44056	सूबेदार	अलधन उषी क्रिशनन नायर
260	जे सी 44057	सूबेदार	अमर चन्द
261	जे सी 43447	सूबेदार	हरी राम सिंह
262	जे सी 45292	सूबेदार	किशोरी लाल
263	जे सी 44038	सूबेदार	ओम प्रकाश
264	जे सी 44060	सूबेदार	राम दयाल
265	जे सी 43413	सूबेदार	सुरेश चन्द्र चक्रवर्ती

आर्मी मेडिकल कोर

266	जे सी 47523	सूबेदार मेजर	आत्मा सिंह
267	जे सी 51932	सूबेदार मेजर	ई टी गोविंदन कुट्टी
268	जे सी 57826	सूबेदार	अबनार सिंह
269	जे सी 52415	सूबेदार	अनील कुमार बोस
270	जे सी 52955	सूबेदार	अर्जुन नाथ
271	जे सी 41425	सूबेदार	चंद्र देव सिंह
272	जे सी 41421	सूबेदार	ग शा सिंह
273	जे सी 41416	सूबेदार	गुमानी लाल
274	जे सी 54470	सूबेदार	निरंजन सिंह
275	जे सी 52390	सूबेदार	राम माज वन मिश्रा
276	जे सी 48758	सूबेदार	सबान पुर्ती
277	जे सी 54471	सूबेदार	सरूप सिंह
278	जे सी 47445	सूबेदार	सुदर्शन लाल

आर्मी आर्टिलरी कोर

279	जे सी 12507	सूबेदार मेजर	धर्मपाल सिंह
280	जे सी 30839	सूबेदार मेजर	ग्यान दाम काहोल
281	जे सी 30828	सूबेदार मेजर	जगदीश सिंह राठौर
282	जे सी 12508	सूबेदार मेजर	पी रामाचन्द्रन
283	जे सी 30814	सूबेदार मेजर	आर पलानीआप्पन
284	जे सी 30790	सूबेदार मेजर	एस राजाकृष्णन
285	जे सी 11674	सूबेदार मेजर	वी एन शंकरन
286	जे सी 33637	सूबेदार	ए आर्चि मेंथ्यू
287	जे सी 33633	सूबेदार	ए के बाला, ज्ञान नम्बियर
288	जे सी 54342	सूबेदार	अच्छर सिंह
289	जे सी 60934	सूबेदार	अखिलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव
290	जे सी 23922	सूबेदार	बनकिम बिहारी बीरा
291	जे सी 35238	सूबेदार	बिशन दास
292	जे सी 37047	सूबेदार	सी पी थ मस
293	जे सी 56834	सूबेदार	चरन सिंह
294	जे सी 56836	सूबेदार	देवेन्द्र कुमार

295	जे सी 60914	सूबेदार	धर्म सिंह
296	जे सी 60957	सूबेदार	श न सिंह
297	जे सी 27101	सूबेदार	गोवरधन धारी
298	जे सी 30514	सूबेदार	हरी बल्लभ कुटनाला
299	जे सी 60940	सूबेदार	जगदीश राम
300	जे सी 60921	सूबेदार	जगदीश सिंह
301	जे सी 35785	सूबेदार	जैमती भूसन भट्टाचारजी
302	जे सी 35236	सूबेदार	के गोपालन नायर
303	जे सी 35077	सूबेदार	कबल सिंह
304	जे सी 41604	सूबेदार	कर्म चन्द
305	जे सी 35076	सूबेदार	केशव वत्त शर्मा
306	जे सी 60894	सूबेदार	केशव सिंह
307	जे सी 57151	सूबेदार	कृष्ण लाल
308	जे सी 57152	सूबेदार	कृष्ण लाल
309	जे सी 57405	सूबेदार	कृष्ण लाल
310	जे सी 60875	सूबेदार	कृष्ण राहुत
311	जे सी 60958	सूबेदार	कुन्दन सिंह
312	जे सी 57178	सूबेदार	लेख राज
313	जे सी 60847	सूबेदार	मदन लाल
314	जे सी 60931	सूबेदार	मोहिन्द्र सिंह चाहल
315	जे सी 41603	सूबेदार	एन के भासकरन नायर एस एम्
316	जे सी 60915	सूबेदार	एन शिवशकरा पानिकर
317	जे सी 60843	सूबेदार	नञ्छतर सिंह
318	जे सी 60926	सूबेदार	नायब सिंह
319	जे सी 36482	सूबेदार	नारायण चन्द्र बैनर्जी
320	जे सी 27474	सूबेदार	नोनित राम मुन्जाल
321	जे सी 60876	सूबेदार	पी कुन्ही रमन
322	जे सी 38297	सूबेदार	पी सी श्रीमन
323	जे सी 57146	सूबेदार	पी के केसवन नायर
324	जे सी 56857	सूबेदार	फूल मोहमद
325	जे सी 34789	सूबेदार	प्यारा सिंह
326	जे सी 35237	सूबेदार	प्रवाश चन्द्र गुप्ता
327	जे सी 37054	सूबेदार	प्रेम चन्द
328	जे सी 38050	सूबेदार	प्यारा सिंह
329	जे सी 60959	सूबेदार	राजिन्द्र तिवारी
330	जे सी 57179	सूबेदार	राज कुमार
331	जे सी 58584	सूबेदार	राम चन्द्र
332	जे सी 57147	सूबेदार	रामधन सिंह
333	जे सी 37053	सूबेदार	रामेश्वर प्रसाद महतो
334	जे सी 57172	सूबेदार	राम नाथ राम

335	जे सी 23923	सूबेदार	राम नाथ सिंह
336	जे सी 37994	सूबेदार	राम सिंह
337	जे सी 61161	सूबेदार	सदा नन्द
338	जे सी 60946	सूबेदार	शिघ दत्त मैहता
339	जे सी 37048	सूबेदार	सोहन सिंह
340	जे सी 60865	सूबेदार	सुधीर रजन पाल
341	जे सी 56858	सूबेदार	तिलक राम
342	जे सी 30808	सूबेदार	तिलक चन्द शर्मा
343	जे सी 60862	सूबेदार	विश्वनाथ महादेव प्र जपे
344	जे सी 30516	सूबेदार	युवराज चन्द्र

कोर ग्राफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल इन्जीनियरस

345	जे सी 18952	सूबेदार मेजर	चन्द्र भान भाटिया
346	जे सी 20441	सूबेदार मेजर	हरी सिंह
347	जे सी 19395	सूबेदार मेजर	योगिन्द्र सिंह
348	जे सी 10025	सूबेदार मेजर	के गोपालन
349	जे सी 19122	सूबेदार मेजर	कामाख्या पांडा राय
350	जे सी 19607	सूबेदार मेजर	मोहिन्द्र सिंह
351	जे सी 18659	सूबेदार मेजर	मोहन सिंह
352	जे सी 18681	सूबेदार मेजर	श्रीम प्रकाश
353	जे सी 18954	सूबेदार मेजर	सोहन लाल
354	जे सी 18680	सूबेदार मेजर	सुरत सिंह
355	जे सी 18953	सूबेदार मेजर	संमुखल मालोमन पीटर
356	जे सी 20530	सूबेदार मेजर	उत्तम चन्द
357	जे सी 36419	सूबेदार	अजायब सिंह
358	जे सी 57723	सूबेदार	अनगा मोहन चौधरी
359	जे सी 37448	सूबेदार	धर्म सिंह
360	जे सी 43219	सूबेदार	होरी लाल शर्मा
361	जे सी 36322	सूबेदार	होशियार सिंह
362	जे सी 56578	सूबेदार	जरनैल सिंह
363	जे सी 56642	सूबेदार	के एन दामोदरन नायर
364	जे सी 39661	सूबेदार	मलकीयत सिंह श्रीलक्ष्म
365	जे सी 39998	सूबेदार	भोक्कारेस्वर त्रीपाठी
366	जे सी 37451	सूबेदार	प्रिया तोश चक्रवर्ती
367	जे सी 37454	सूबेदार	शिव भुषन कुमार
368	जे सी 36271	सूबेदार	सुरजन राम सियाल
369	जे सी 44798	सूबेदार	तिलक राज

रिमाउन्ड एण्ड बैट्रेनरी कोर

370	आर बी 7132	रिसालवार मेजर	जोती प्रसाद
-----	------------	---------------	-------------

आर्मी एजुकेशन कोर

371	जे सी 15949	सूबेदार मेजर	महावीर सिंह
372	जे सी 41718	सूबेदार	बिजयमल सिंह
373	जे सी 50963	सूबेदार	होशियार सिंह
374	जे सी 51294	सूबेदार	मेहर सिंह प्रकाश
375	जे सी 51714	सूबेदार	निरीपेन्द्र नाथ पोंडुर
376	जे सी 42278	सूबेदार	राज सिंह
377	जे सी 51285	सूबेदार	शेर सिंह
378	जे सी 51283	सूबेदार	सुरेन्द्र दत्त किमोथी
379	जे सी 31169	सूबेदार	ठाकरा सिंह
380	जे सी 41721	सूबेदार	उमा शंकर श्रीवास्तव
381	जे सी 51226	सूबेदार	यशपाल सिंह परमार

बी इन्टेलीजेंस कोर

382	जे सी 17000	सूबेदार मेजर	महिन्द्र सिंह थापा
383	जे सी 32950	सूबेदार	भागीरथ सिंह

आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर

384	जे सी 51126	सूबेदार	विश्वामित्र पुरी
385	जे सी 53859	सूबेदार	वरयाम सिंह

बी पायनियर कोर

386	जे सी 14106	सूबेदार मेजर	गोविन्द सिंह
387	जे सी 32530	सूबेदार	प्रीतम सिंह

डिफेंस सिविलोस्टी कोर

388	जे सी 4123	सूबेदार मेजर	बी श्रीनिवासन
389	जे सी 39263	सूबेदार मेजर	के कुनहन नायर

MINISTRY OF DEFENCE**(Army Branch)****NOTIFICATIONS***New Delhi, the 15th August, 1977*

No. 10-E, dated 9th August, 1977.—The President is pleased to grant honorary commissions to the undermentioned JCOs on active list under para 178 of the Regulations for the Army, 1962, with effect from 15th August, 1977:—

To be Honorary Captains**8 CAVALRY**

1 JC 12588

Ris Maj & Hony Lt

MEHNGA SINGH

63 CAVALRY

2 JC 10736

Ris Maj & Hony Lt

JAWALA SINGH

45 CAVALRY

3 JC 12228

Ris Maj & Hony Lt

PG NEDUNGADI

REGIMENT OF ARTILLERY

4 JC 15436

Sub Maj & Hony Lt

MARUTI GHAGARE

5 JC 17312

Sub Maj & Hony Lt

MATA DIN

6 JC 14747

Sub Maj & Hony Lt

MUTHUSAMY

7 JC 15849

Sub Maj & Hony Lt

TV RAGHAVAN

8 JC 17350

Sub Maj & Hony Lt

TUKARAM MAHADIK

9 JC 17374

Sub Maj & Hony Lt

UTTAM SINGH, SM

MADRAS ENGINEER GROUP

10 JC 16422

Sub Maj & Hony Lt

RAJENDRAM

11 JC 11441

Sub Maj & Hony Lt

S RATHINAM

BENGAL ENGINEER GROUP

12 JC 21348

Sub Maj & Hony Lt

MEWA SINGH

13 JC 25243

Sub Maj & Hony Lt

PURAN SINGH

BOMBAY ENGINEER GROUP

14 JC 17509

Sub Maj & Hony Lt

LACHHMAN SINGH, VSM

15 JC 17502

Sub Maj & Hony Lt

MUKHTIAR SINGH GILL

16 JC 29475

Sub Maj & Hony Lt

SHANKAR MORE, SM

CORPS OF SIGNALS

17 JC 20063

Sub Maj & Hony Lt

PN KESAVAN NAIR

18 JC 20121

Sub Maj & Hony Lt

PARMODH SINGH

19 JC 20146

Sub Maj & Hony Lt

UTTAM CHAND

20 JC 36802

Sub & Hony Lt

AF MATHAI

BRIGADE OF THE GUARDS

21 JC 16723

Sub Maj & Hony Lt

CHARAN SINGH

22 JC 19270

Sub Maj & Hony Lt

SHEO NARAIN SINGH

THE PARACHUTE REGIMENT

23 JC 25344

Sub Maj & Hony Lt

PEP SINGH

24 JC 20373

Sub Maj & Hony Lt

CHANDAN SINGH RANGARH

THE PUNJAB REGIMENT

25 JC 24419

Sub Maj & Hony Lt

GURBACHAN SINGH

26 JC 14627

Sub Maj & Hony Lt

PIARA SINGH

THE MADRAS REGIMENT

27 JC 9904

Sub Maj & Hony Lt

RA XAVIER

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

28 JC 17112

Sub Maj & Hony Lt

BABU JADHAV

29 JC 9760

Sub Maj & Hony Lt

VASANT LAXMAN JOSHI

THE RAJPUTANA RIFLES

30 JC 33985

Sub Maj & Hony Lt

FATEH SINGH

31 JC 14434

Sub Maj & Hony Lt

MANGAT SINGH

THE RAJPUT REGIMENT

32 JC 22078

Sub Maj & Hony Lt

SUMER SINGH

THE JAT REGIMENT

33	JC 12066	Sub Maj & Hony Lt	HARPHUL SINGH
----	----------	-------------------	---------------

THE SIKH LIGHT INFANTRY

34	JC 26627X	Sub Maj & Hony Lt	BISHAN SINGH
35	JC 15725X	Sub Maj & Hony Lt	MEHAR SINGH
35	JC 24052P	Sub Maj & Hony Lt	TEJA SINGH

THE DOGRA REGIMENT

37	JC 15072	Sub Maj & Hony Lt	GHARAK SINGH
38	JC 12595	Sub Maj & Hony Lt	HARNAM SINGH
39	JC 12024	Sub Maj & Hony Lt	KISHAN SINGH
40	JC 13886	Sub Maj & Hony Lt	MUNSHI RAM
41	JC 21351	Sub Maj & Hony Lt	TARLOK CHAND
42	JC 39135	Sub & Hony Lt	BAGGA RAM

THE KUMAON REGIMENT

43	JC 21550	Sub Maj & Hony Lt	GAMBHIR SINGH
----	----------	-------------------	---------------

THE ASSAM REGIMENT

44	JC 15779	Sub Maj & Hony Lt.	ZACHHUNGA LUSHAI
----	----------	--------------------	------------------

THE MAHAR REGIMENT

45	JC 19261	Sub Maj & Hony Lt	MARUTI LONDHE
46	JC 14496	Sub Maj & Hony Lt	SADHU SINGH
47	JC 12127	Sub Maj & Hony Lt	SAGAR CHAND

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

48	JC 43887	Sub & Hony Lt	SANSAR SINGH
----	----------	---------------	--------------

THE LADAKH SCOUTS

49	JC 25924	Sub Maj & Hony Lt	KARGUT CHHOSPEL
50	JC 42481	Sub & Hony Lt	BADRI NATH PATWARI

1 GORKHA RIFLES

51	JC 25538	Sub Maj & Hony Lt	RAM PARSHAD, Vrc
----	----------	-------------------	------------------

3 GORKHA RIFLES

52	JC 22728	Sub Maj & Hony Lt	TIRTHA BAHADUR GURUNG
----	----------	-------------------	--------------------------

4 GORKHA RIFLES

53	JC 27377	Sub Maj & Hony Lt	OM BAIADUR PUN
----	----------	-------------------	----------------

8 GORKHA RIFLES

54	JC 34417	Sub Maj & Hony Lt	GALBAHADUR ALE
55	JC 23013	Sub Maj & Hony Lt	NARBAHADUR THAPA

9 GORKHA RIFLES

56	JC 15326	Sub Maj & Hony Lt	AMAR BAHADUR
----	----------	-------------------	--------------

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

57	JC 43098	Sub Maj & Hony Lt	CHANDERHAS
----	----------	-------------------	------------

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

58	JC 14200	Ris Maj & Hony Lt	HARI SINGH
59	JC 13818	Ris Maj & Hony Lt	SURENDRA SINGH RAWAT
60	JC 15171	Ris Maj & Hony Lt	TULSI RAM BADDHAN

ARMY SERVICE CROPS (MECHANICAL TRANSPORT)

61	JC 39903	Sub Maj & Hony Lt	JAI RAM
62	JC 36976	Sub Maj & Hony Lt	PIARE LAL
63	JC 36967	Sub Maj & Hony Lt	SURESH NAND
64	JC 36968	Sub Maj & Hony Lt	TARA CHAND

ARMY MEDICAL CORPS

65	JC 41415	Sub & Hony Lt	CHAIT BHAN MISRA
66	JC 53828	Sub & Hony Lt	RAGHAVENDRA PRASAD

ARMY ORDNANCE CORPS

67	JC 11556	Sub Maj & Hony Lt	MALKIT SINGH
68	JC 30837	Sub Maj & Hony Lt	RAJINDER SINGH TALWAR
69	JC 12493	Sub Maj & Hony Lt	SHYAMAL KRISHNA MUKHERJI
70	JC 30764	Sub & Hony Lt	SOHAN SINGH

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

71	JC 19546	Sub Maj & Hony Lt	HIMANSU RANJAN BHATTACHARJEE
72	JC 18955	Sub Maj & Hony Lt	KS SWAMINATHAN
73	JC 20931	Sub Maj & Hony Lt	KALWANT RAI
74	JC 18663	Sub Maj & Hony Lt	M PUSHPA RAJAN
75	JC 19382	Sub Maj & Hony Lt	NARINDAR SINGH
76	JC 38791	Sub & Hony Lt	JAGJIT SINGH
77	JC 36274	Sub & Hony Lt	MALKIAT SINGH
78	JC 36445	Sub & Hony Lt	SARDARA SINGH

THE ARMY EDUCATION CORPS

79	JC 15953	Sub Maj & Hony Lt	PRITAM SINGH
----	----------	-------------------	--------------

THE INTELLIGENCE CORPS

80	JC 11153	Sub Maj & Hony Lt	RAJE SINGH NEGI
----	----------	-------------------	-----------------

DEFENCE SECURITY CORPS

81	JC 4132	Sub Maj & Hony Lt	TIRLOK NATH
----	---------	-------------------	-------------

To be Honorary Lieutenants

16 CAVALRY

1	JC 42400	Ris	T SOWRIAPPAN
---	----------	-----	--------------

17 HORSE

2	JC 47877	Ris	UMRAO SINGH
---	----------	-----	-------------

9 HORSE

3	JC 15469	Ris Maj	RISAL SINGH, SM
4	JC 60490	Ris	LALL SINGH

14 HORSE

5	JC 17608	Ris Maj	KEHAR SINGH
6	JC 60377	Ris	SUCHA SINGH

18 CAVALRY

7	JC 42709	Ris	TEK CHAND
---	----------	-----	-----------

4 HORSE

8	JC 58183	Ris	SAGAR SINGH, SM
---	----------	-----	-----------------

THE CENTRAL INDIA HORSE

9	JC 51424	Ris	BHIM SINGH
---	----------	-----	------------

63 CAVALRY

10	JC 45886	Ris	DHARAM SINGH
----	----------	-----	--------------

61 CAVALRY

11	JC 12604	Ris Maj	AST ALI KHAN
----	----------	---------	--------------

65 ARMoured REGIMENT

12	JC 33715	Ris Maj	RISAL SINGH
13	JC 52374	Ris	JAI RAM

68 ARMoured REGIMENT

14	JC 16703	Ris Maj	SUNDAR LAL
----	----------	---------	------------

70 ARMoured REGIMENT

15	JC 38379	Ris Maj	C RAGHAVAN
----	----------	---------	------------

71 ARMoured REGIMENT

16	JC 12579	Ris Maj	KARAN SINGH
----	----------	---------	-------------

75 ARMoured REGIMENT

17	JC 33711	Ris	DHARAM SINGH
----	----------	-----	--------------

81 ARMoured REGIMENT

18	JC 25854	Ris Maj	SIRI RAM
----	----------	---------	----------

REGIMENT OF ARTILLERY

19	JC 17309	Sub Maj	BALAK RAM
20	JC 15853	Sub Maj	BALAKRISHNAN
21	JC 13902	Sub Maj	BALCHARAN SINGH
22	JC 16835	Sub Maj	H IYYANNU
23	JC 17329	Sub Maj	HARBHAJAN SINGH
24	JC 24208	Sub Maj	HARI CHAND
25	JC 32834	Sub Maj	HARPHUL
26	JC 14355	Sub Maj	JAGJIT SINGH
27	JC 17310	Sub Maj	JAI PARKASH
28	JC 15854	Sub Maj	M STEPHEN
29	JC 25895	Sub Maj	RAM KISHAN SHARMA
30	JC 25896	Sub Maj	RAM SINGH
31	JC 15533	Sub Maj	SADASHIV GUNDE
32	JC 24365	Sub Maj	SANT SINGH MADAN
33	JC 37803	Sub	BISHAN SINGH
34	JC 45335	Sub	CHARAN SINGH
35	JC 40173	Sub	FIDOO RAM, V C
36	JC 49317	Sub	GAURI SHANKAR RAM
37	JC 45583	Sub	JOGINDER SINGH
38	JC 44290	Sub	K GOVINDHAN KUTTY
39	JC 47231	Sub	KV GOPALAN NAIR
40	JC 34327	Sub	KAPIL DEO SINGH YADAV
41	JC 41027	Sub	LAL SINGH
42	JC 47163	Sub	MUKHTIAR SINGH
			KUNDLAS
43	JC 45510	Sub	NAWAL KISHOR PATHAK

44	JC 41010	Sub	PRITHVI CHAND
45	JC 45574	Sub	RADHA MOHAN SINGH
46	JC 45459	Sub	SIHER SINGH

MADRAS ENGINEER GROUP

47	JC 19633	Sub Maj	GURUMOORTHY
48	JC 16434	Sub Maj	KV SUNDARSON
49	JC 21102	Sub Maj	R MANOGARAN
50	JC 41303	Sub	A MURUGESAN
51	JC 41239	Sub	M DORAISAMI
52	JC 28657	Sub	S SAMRAJ

BENGAL ENGINEER GROUP

53	JC 34629	Sub Maj	AJ KOSHY
54	JC 15323	Sub Maj	ALBEL SINGH
55	JC 14113	Sub Maj	GURDIAL SINGH
56	JC 15895	Sub Maj	HARBANS SINGH
57	JC 15129	Sub Maj	HARI SHANKER
58	JC 17276	Sub Maj	HARJIT SINGH, VSM
59	JC 46767	Sub Maj	INDRATIL SINGH
			DHALIWAL
60	JC 26114	Sub Maj	JOGINDAR SINGH
61	JC 14114	Sub Maj	K GOPALAN
62	JC 1180	Sub Maj	KULDIP SINGH
63	JC 21661	Sub Maj	MOHINDER SINGH
64	JC 11948	Sub Maj	PIARA SINGH
65	JC 11860	Sub Maj	PURAN CHAND
66	JC 17054	Sub Maj	RADHAKRISHNAN
67	JC 33320	Sub Maj	SHIV CHARAN
68	JC 33338	Sub Maj	SOHAN SINGH
69	JC 25214	Sub Maj	SUKHWANT SINGH
70	JC 21374	Sub Maj	THAKUR PARASAD SINGH
71	JC 15817	Sub Maj	VISHWANATH, VSM
72	JC 31223	Sub	HIRA SINGH
73	JC 34081	Sub	NIRANJAN SINGH
74	JC 43589	Sub	SUCHA SINGH

BOMBAY ENGINEER GROUP

75	JC 19038	Sub Maj	GANPAT SHINDE, SM
76	JC 19045	Sub Maj	GULABRAO DESHMUKH
77	JC 19028	Sub Maj	GULABRAO SAWANT
78	JC 17503	Sub Maj	KARNAIL SINGH
79	JC 20313	Sub Maj	KIRPAL SINGH
80	JC 19230	Sub Maj	LAXMAN SHINDE
81	JC 24581	Sub Maj	MOHD KADIR
82	JC 19737	Sub Maj	SOHAN SINGH
83	JC 19034	Sub Maj	TUKARAM SHINDE
84	JC 34484	Sub	CHANAN SINGH
85	JC 41493	Sub	CHHAJJA SINGH, VSM
86	JC 43836	Sub	DATTATRAYA GODSE
87	JC 33709	Sub	DVVI DAYAL
88	JC 13701	Sub	KPHAR SINGH
89	JC 43534	Sub	PURAN SINGH

CORPS OF SIGNALS

90	JC 27330	Sub Maj	A SIVARAMAN NAIR
91	JC 20150	Sub Maj	ATAM PARKASH SINGH
92	JC 108317	Sub Maj	BISHAN DATT
93	JC 20135	Sub Maj	GULZAR SINGH
94	JC 20122	Sub Maj	GURMFL SINGH GREWAL
95	JC 20130	Sub Maj	K GOVINDAN NAIR
96	JC 31047	Sub Maj	KARNAIL SINGH, SM
97	JC 29356	Sub Maj	MS SFLVARAJAN
98	JC 25999	Sub Maj	N VASUDEVA PANICKER
99	JC 14183	Sub Maj	PP NARAYANAN NAMBIAR
100	JC 29366	Sub Maj	SOHAN SINGH

101	JC 22405	Sub Maj	VE CHACKO
102	JC 55071	Sub	BAKSHISH SINGH
103	JC 55067	Sub	BASANT RAM
104	JC 52864	Sub	HARDHUMAN SINGH
105	JC 55079	Sub	JOGINDER SINGH RANA
106	JC 52764	Sub	K SREEDHARAN
107	JC 37222	Sub	KA KURIAKOSE
108	JC 55125	Sub	MUKHTIAR SINGH
109	JC 55135	Sub	ONKAR SINGH
110	JC 55130	Sub	RAM LAL
111	JC 52282	Sub	RAM NAWAL MANI
			TRIPATHI
112	JC 53230	Sub	SANSAR SINGH SALATHIA
113	JC 55082	Sub	SOM DUTT
114	JC 52865	Sub	SURINDER SINGH
115	JC 53227	Sub	TEJA SINGH

BRIGADE OF THE GUARDS

116	JC 58445	Sub	CHAKRABAHADUR TIARA
117	JC 46254	Sub	DALPAT SINGH
118	JC 48172	Sub	KHUSHI RAM NARA
119	JC 46151	Sub	LEKH RAM

THE PARACHUTE REGIMENT

120	JC 36515	Sub Maj	BISHAN DASS
121	JC 43898	Sub	TRILOK SINGH

THE PUNJAB REGIMENT

122	JC 35009	Sub Maj	AMAR NATH
123	JC 59476	Sub	KALYAN SINGH
124	JC 37551	Sub	MADAN LAL
125	JC 35013	Sub	UJJAGAR SINGH

THE GRENADIERS

126	JC 22050	Sub Maj	BALBIR SINGH
127	JC 22049	Sub Maj	BALWANT SINGH JI
128	JC 16110	Sub Maj	DULI CHAND
129	JC 11686	Sub Maj	SANSKRAN SINGH
130	JC 42970	Sub	BHAGWAN SINGH
131	JC 27721	Sub	HOSHIAR SINGH
132	JC 55520	Sub	JOGINDER SINGH
133	JC 16788	Sub	PARTAP SINGH
134	JC 17843	Sub	PHUL SINGH
135	JC 53963	Sub	RATTAN SINGH
136	JC 53962	Sub	SHAMBHUDUTT SHARMA
137	JC 37842	Sub	SHIV NARAIN

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

138	JC 16709	Sub Maj	JAGIR SINGH
139	JC 16766	Sub Maj	MARUTI JADHAV
140	JC 18452	Sub Maj	RAMESH TAKALKAR
141	JC 22113	Sub Maj	SHANKAR LACHMAN
142	JC 16327	Sub Maj	VASUDEV DALVI

THE RAJPUTANA RIFLES

143	JC 43924	Sub	DEVI SINGH
144	JC 17938	Sub	PHUL CHAND
145	JC 43087	Sub	SHIV DAYAL SINGH

THE RAJPUT REGIMENT

146	JC 28634	Sub Maj	GOVIND SINGH
147	JC 13085	Sub Maj	HARGIAN SINGH
148	JC 22072	Sub Maj	SHIB CHARAN

149	JC 20566	Sub Maj	ULFAT SINGH
150	JC 47635	Sub	ANT LAL
151	JC 35534	Sub	MAHINDAR PRATAP SINGH

THE JAT REGIMENT

152	JC 18009	Sub Maj	MUKHTIAR SINGH
153	JC 16451	Sub Maj	PARTAP SINGH
154	JC 17123	Sub Maj	RANJIT SINGH
155	JC 52175	Sub	FAURAN SINGH
156	JC 42518	Sub	SUBH RAM

THE SIKH REGIMENT

157	JC 16977	Sub Maj	HARDIAL SINGH
158	JC 19150	Sub Maj	SAHEL SINGH
159	JC 16948	Sub Maj	VARDIP SINGH
160	JC 45919	Sub	GURMUKH SINGH
161	JC 53550	Sub	ISHAR SINGH
162	JC 47592	Sub	UDAI SINGH

THE SIKH LIGHT INFANTRY

163	JC 16731K	Sub Maj	CHANAN SINGH
164	JC 32197P	Sub Maj	LAL SINGH
165	JC 27694P	Sub Maj	LASHKAR SINGH
166	JC 38618H	Sub	BALHARA SINGH
167	JC 35959H	Sub	NARANJAN SINGH
168	JC 55237X	Sub	SUCHA SINGH
169	JC 42492L	Sub	TEJA SINGH

THE DOGRA REGIMENT

170	JC 20420	Sub Maj	RUP SINGH
171	JC 16830	Sub Maj	SANT RAM
172	JC 39493	Sub	BHAG SINGH
173	JC 40610	Sub	CHAIN SINGH
174	JC 39382	Sub	DEVI SINGH
175	JC 50877	Sub	HARNAM SINGH VERMA
176	JC 36672	Sub	JAGAN NATH
177	JC 39380	Sub	MILKHI RAM
178	JC 44239	Sub	PARKASH CHAND
179	JC 40608	Sub	PARTAP SINGH
180	JC 30958	Sub	TARLOK SINGH

THE GARHWAL RIFLES

181	JC 32898	Sub Maj	DHURAT SINGH THAPA
182	JC 35377	Sub	KHUSHAL SINGH NEGI
183	JC 39169	Sub	PIRT SINGH PUNDIR
184	JC 44856	Sub	SUJAN SINGH NEGI, Vrc

THE KUMAON REGIMENT

185	JC 17720	Sub Maj	NARAIN SINGH
186	JC 14286	Sub Maj	SHANKAR SINGH
187	JC 27533	Sub Maj	SHIB CHARAN SINGH
188	JC 39464	Sub	BAHADUR SINGH
189	JC 30672	Sub	DALIP SINGH
190	JC 39458	Sub	GAMBHIR CHAND
191	JC 42255	Sub	LAKHPAT SINGH
192	JC 48561	Sub	SHEOTAJ SINGH

THE ASSAM REGIMENT

193	JC 52174	Sub	MANHARI DAS
-----	----------	-----	-------------

THE BIHAR REGIMENT

194	JC 30519	Sub	MAHANAND SINGH TARUN
195	JC 35652	Sub	RAM CHANDAR SINGH

THE MAHAR REGIMENT

196	JC 18549	Sub Maj	MAROTI MORE
197	JC 37505	Sub	HARDIAL SINGH HIRA
198	JC 39156	Sub	MOHINDER SINGH

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

199	JC 20791	Sub Maj	ALAM SINGH
200	JC 25151	Sub Maj	JAGDEV SINGH
201	JC 41680	Sub	BANSI LAL

THE NAGA REGIMENT

202	JC 18506	Sub Maj	GOPAL SINGH
-----	----------	---------	-------------

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

203	JC (M) 97	Sub Maj	SOOM NATH
204	JC (M) 246	Sub	KISHAN SINGH
205	JC (M) 172	Sub	RUGHNATH SINGH

1 GORKHA RIFLES

206	JC 51094	Sub	PARKASH SINGH KANET
-----	----------	-----	---------------------

3 GORKHA RIFLES

207	JC 28207	Sub Maj	SIRI LAL GURUNG
208	JC 28206	Sub Maj	TEK BAHADUR PUN
209	JC 51115	Sub	DEO PARSAD GURUNG

4 GORKHA RIFLES

210	JC 15365	Sub Maj	BIR SHAMSHER GURUNG
211	JC 22974	Sub Maj	MAHADEV PRASAD SHARMA
212	JC 39043	Sub	AMAR SINGH THAPA
213	JC 46252	Sub	JAMAN RANA
214	JC 53493	Sub	UMAR BAHADUR GURUNG

5 GORKHA RIFLES

215	JC 28522	Sub Maj	MOTIPRASAD THAKALI
216	JC 36874	Sub Maj	RAMSING GURUNG
217	JC 51179	Sub	BHIMBAHADUR RANA
218	JC 36872	Sub	GARBAHADUR GURUNG, SM
219	JC 56491	Sub	JAIBAHADUR GURUNG
220	JC 45152	Sub	TULSI RAM THAPA

8 GORKHA RIFLES

221	JC 35914	Sub Maj	KULBAHADUR THAPA
222	JC 44085	Sub	SATYABAHADUR RAI

9 GORKHA RIFLES

223	JC 35337	Sub Maj	BHAKTA BAHADUR MALL
224	JC 36036	Sub Maj	RESHAM BAHADUR SAHI
225	JC 51140	Sub	RUP BAHADUR MALL, SM

11 GORKHA RIFLES

226	JC 28337	Sub Maj	BIRHANG LIMBU
227	JC 29686	Sub Maj	RUKBAH ADUR LIMBU
228	JC 34537	Sub Maj	TARAMAN RAI

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

229	JC 18985	Sub Maj	AMRIK SINGH
230	JC 43097	Sub Maj	ANANT RAM
231	JC 21927	Sub Maj	CHUNI LAL
232	JC 38133	Sub Maj	GIAN SINGH VIR
233	JC 18980	Sub Maj	JAHANGIR SINGH
234	JC 43100	Sub Maj	KALIPADA SIDHANTA
235	JC 18990	Sub Maj	MAHAN SINGH
236	JC 18987	Sub Maj	MOITI LAL SAHU
237	JC 26836	Sub Maj	OM PARKASH
238	JC 20457	Sub Maj	PURAN CHAND
239	JC 20447	Sub Maj	PURAN SINGH
240	JC 18081	Sub Maj	RANJIT SINGH
241	JC 50278	Sub	AMRIK SINGH
242	JC 52265	Sub	KM KRISHNAN KUTTY
243	JC 51276	Sub	M WAKIL
244	JC 56655	Sub	RANJIT KUMAR SEN SHARMA

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

245	JC 16936	RIS MAJ	SIIIV DIAL
246	JC 43331	RIS	BHAROSA RAM
247	JC 34937	RIS	DHAN SINGH

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

248	JC 36956	Sub Maj	ALAMANDA PHILIP
249	JC 39897	Sub Maj	EDATHIANAL MATHEW
250	JC 41789	Sub Maj	JOSEPH
251	JC 41801	Sub Maj	GANESAN
252	JC 36977	Sub Maj	HARESHWAR DAS
253	JC 39898	Sub Maj	JOGENDRA CHAUDHARY
254	JC 39905	Sub Maj	KESAVA PILLAI KRISHNAN
255	JC 36978	Sub Maj	NAIR
256	JC 41808	Sub Maj	MAST RAM
257	JC 39902	Sub Maj	RAM CHANDER
258	JC 36969	Sub Maj	RAM KRIPAL DUBEY
259	JC 44056	Sub	ROSHAN LAL
260	JC 44057	Sub	SURAJ NARAIN
261	JC 43447	Sub	ALANGHAT UNNI
262	JC 45292	Sub	KRISHNAN NAIR
263	JC 44038	Sub	AMAR CHAND
264	JC 44060	Sub	HARI RAM SINGH
265	JC 43413	Sub	KISHORI LALL
			OM PARKASH
			RAM DAYAL
			SURESH CHANDRA
			CHAKRABORTY

ARMY MEDICAL CORPS

266	JC 47523	Sub Maj	ATMA SINGH
267	JC 51932	Sub Maj	ET GOVINDAN KUTTY
268	JC 57826	Sub	ABTAR SINGH
269	JC 52415	Sub	ANIL KUMAR BOSE
270	JC 52955	Sub	ARJAN NATH
271	JC 41425	Sub	CHANDRA DFO SINGH
272	JC 41421	Sub	GANGA SINGH
273	JC 41416	Sub	GUMANI LAL
274	JC 54470	Sub	NIRANJAN SINGH
275	JC 52390	Sub	RAM SAJIWAN MISRA
276	JC 48758	Sub	SABAN PURTI
277	JC 54471	Sub	SARUP SINGH
278	JC 47445	Sub	SUDARSHAN LAL

ARMY ORDNANCE CORPS

279	JC 12507	Sub Maj	DHARAM PAL SINGH
280	JC 30839	Sub Maj	GIAN DASS KAHOL
281	JC 30828	Sub Maj	JAGDISH SINGH RATHOR
282	JC 12508	Sub Maj	P RAMACHANDRAN
283	JC 30814	Sub Maj	R PALANIAPPAN
284	JC 30790	Sub Maj	S RAJAKRISHNAN
285	JC 11674	Sub Maj	VN SANKARAN
286	JC 33637	Sub	AI MATHEWS
287	JC 33633	Sub	AK BALAKRISHNAN
			NAMBIYAR
288	JC 54342	Sub	ACHHAR SINGH
289	JC 60934	Sub	AKHILESHWAR PRASAD
			SRIVASTAVA
290	JC 23922	Sub	BANKIM BEHARI BERA
291	JC 35238	Sub	BISHAN DASS
292	JC 37047	Sub	CP THOMAS
293	JC 56834	Sub	CHARAN SINGH
294	JC 56836	Sub	DEVINDAR KUMAR
295	JC 60914	Sub	DHARAM SINGH
296	JC 60957	Sub	GT N SINGH
297	JC 27101	Sub	GOVERDHAN DHARI
298	JC 30514	Sub	HARI BALLABHA KUTNALA
299	JC 60940	Sub	JAGDISH RAM
300	JC 60921	Sub	JAGDISH SINGH
301	JC 34785	Sub	JAMINI BHUSAN BHATTACHARJEE
302	JC 35236	Sub	K GOPALAN NAIR
303	JC 35077	Sub	KANWAL SINGH
304	JC 41604	Sub	KARAM CHAND
305	JC 35076	Sub	KESHAV DATT SHARMA
306	JC 60894	Sub	KESHAVA SINGH
307	JC 57151	Sub	KRISHAN LAL
308	JC 57152	Sub	KRISHAN LAL
309	JC 57405	Sub	KRISHNA LAL
310	JC 60875	Sub	KRISHEN RAHUT
311	JC 60958	Sub	KUNDAN SINGH
312	JC 57178	Sub	LEKH RAJ
313	JC 60847	Sub	MADAN LAL
314	JC 60931	Sub	MOHINDAR SINGH CHHAHAL
315	JC 41603	Sub	NK BHASKARAN NAIR, SM
316	JC 60915	Sub	N SIVASANKARA PANICKER
317	JC 60843	Sub	NACHHATAR SINGH
318	JC 60926	Sub	NAIB SINGH
319	JC 36482	Sub	NARAYAN CHANDRA
			BANERJEE
320	JC 27474	Sub	NONIT RAM MUNJAL
321	JC 60876	Sub	P KUNHI RAMAN
322	JC 38297	Sub	PC OOMMEN
323	JC 57146	Sub	PK KESAVAN NAIR
324	JC 56857	Sub	PHOOL MOHAMMAD
325	JC 34789	Sub	PIARA SINGH
326	JC 35237	Sub	PRAVASH CHANDRA
			GUPTA
327	JC 37054	Sub	PREM CHAND
328	JC 38050	Sub	PYARA SINGH
329	JC 60959	Sub	RAJENDRA TEWARI
330	JC 57179	Sub	RAJ KUMAR
331	JC 58584	Sub	RAM CHANDER
332	JC 57147	Sub	RAMDHAN SINGH
333	JC 37053	Sub	RAMESHWAR PRASAD
			MAHTO
334	JC 57172	Sub	RAM NATH RAM
335	JC 23923	Sub	RAM NATH SINGH
336	JC 37994	Sub	RAM SINGH
337	JC 61161	Sub	SADA NAND
338	JC 60946	Sub	SHIV DATT MEHTA
339	JC 37048	Sub	SOHAN SINGH
340	JC 60865	Sub	SUDHIR RANJAN PAUL

341	JC 56858	Sub	TILAK RAM
342	JC 30808	Sub	TRILOK CHAND SHARMA
343	JC 60862	Sub	VISHWANATH MAHADEO PARANJPE
344	JC 30516	Sub	YUV RAJ CHANDER

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

345	JC 18952	Sub Maj	CHANDER BHAN BHATIA
346	JC 20441	Sub Maj	HARI SINGH
347	JC 19395	Sub Maj	JOGINDAR SINGH
348	JC 10025	Sub Maj	K GOPALAN
349	JC 19122	Sub Maj	KAMAKHYA PADA ROY
350	JC 19607	Sub Maj	MOHINDER SINGH
351	JC 18659	Sub Maj	MOHAN SINGH
352	JC 18681	Sub Maj	OM PERKASHI
353	JC 18954	Sub Maj	SOHAN LAL
354	JC 18680	Sub Maj	SURAT SINGH
355	JC 18953	Sub Maj	SAMUEL SALOMON PETER
356	JC 20530	Sub Maj	UTTAM CHAND
357	JC 36419	Sub	AJAJB SINGH
358	JC 57723	Sub	ANANGA MOHAN CHOUHDURY
359	JC 37418	Sub	DHARAM SINGH
360	JC 43219	Sub	HORI LAL SHARMA
361	JC 36322	Sub	HOSHIAR SINGH
362	JC 56578	Sub	JARNAIL SINGH
363	JC 56642	Sub	KN DAMODARAN NAIR
364	JC 30561	Sub	MALKIAT SINGH AULAKH
365	JC 39998	Sub	ONKARESHWAR TRIPATHI
366	JC 37451	Sub	PRIYA TOSH CHAKRAVARTY
367	JC 37454	Sub	SHIV BHUSHAN KUMAR
368	JC 36271	Sub	SURJAN RAM SIYAL
369	JC 44798	Sub	TILAK RAJ

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

370	RV 7132	Ris Maj	JOTI PARSHAD
-----	---------	---------	--------------

THE ARMY EDUCATION CORPS

371	JC 15949	Sub Maj	MAHABIR SINGH
372	JC 41718	Sub	BIJAYAMAL SINGH
373	JC 50963	Sub	HOSHIAR SINGH
374	JC 51294	Sub	MEHAR SINGH PRAKASH
375	JC 51714	Sub	NRIPENDRA NATH PODDER
376	JC 42278	Sub	RAJ SINGH
377	JC 51285	Sub	SHER SINGH
378	JC 51283	Sub	SURENDER DATT KIMOTHI
379	JC 31169	Sub	THAKARA SINGH
380	JC 41721	Sub	UMASHANKAR SRIVASTAVA
381	JC 51226	Sub	YASHPAL SINGH PARMAR

THE INTELLIGENCE CORPS

382	JC 17000	Sub Maj	MAHENDRA SINGH THAPA
383	JC 32950	Sub	BHAGIRATH SINGH

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

384	JC 51126	Sub	VISHWA MITTRA PURI
385	JC 53859	Sub	WARYAM SINGH

THE PIONEER CORPS

386	JC 14106	Sub Maj	GOVIND SINGH
387	JC 32530	Sub	PRITAM SINGH

DEFENCE SECURITY CORPS

388 JG 4123
389 39263 JCSub Maj
Sub MajB SRINIVASAN
K KUNHAN NAIR

(थल सेना विभाग)

सं० 11-ई, दिनांक 9 अगस्त, 77.—राष्ट्रपति महर्ष स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 77) के अवसर पर निम्नलिखित जे सी ओज को उनके अवकाश ग्रहण करने पर सेना विनियमावली 1962 के पैरा 180 के अधीन अवैतनिक पद प्रदान करते हैं —

अवैतनिक कैप्टन के रैंक में

प्रीसीडेन्ट्स बोडी-गाई

1 जे सी 14494 रिमालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट छोटू राम, बी एस एम

17 हांस

2 जे सी 10368 रिमालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट जागीर सिंह

63 केवलरी

3 जे सी 27850 रिमालदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट धन सिंह

73 फार्माइ रेजिमेंट

4 जे सी 17186 रिमालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट देवी सिंह

रेजिमेंट आफ आर्टिलरी

5 जे सी 24199	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बसी लाल
6 जे सी 40177	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	धन्या लाल
7 जे सी 13908	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गुरचैन सिंह
8 जे सी 15411	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अच ए जाधव
9 जे सी 16855	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हरदयाल सिंह
10 जे सी 17326	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जग देव सिंह
11 जे सी 17299	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जगमाल सिंह
12 जे सी 15437	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जोतीरन्द्र नाथ मजुन्दार
13 जे सी 14356	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	के चेलाप्पन पिल्ले
14 जे सी 16854	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	करनैल सिंह
15 जे सी 25665	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	एम मदर साहिव
16 जे सी 13900	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मुख्तार सिंह
17 जे सी 14383	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	नच्छत्तर सिंह
18 जे सी 16856	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	निरमल सिंह
19 जे सी 14399	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	पी गोपालन थम्पी
20 जे सी 10814	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	पी गोविन्दन
21 जे सी 10812	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	आर चिदाम्बरम
22 जे सी 17321	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम सिंह
23 जे सी 12962	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	एस गोविन्दा राजू
24 जे सी 25777	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	श्याम सिंह गुरुंगा
25 जे सी 32301	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सुब राम

26	जे सी 12968	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	थोमस मथाई
27	जे सी 15978	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	वास देव
28	जे सी 17325	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	युधिष्ठिर सिंह
29	जे सी 30204	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	बाबू राम
30	जे सी 40265	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	बख्शीश सिंह
31	जे सी 34334	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	बमन्त राज
32	जे सी 17337	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	बेग राज
33	जे सी 33267	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	सी ए. मुधप्पा
34	जे सी 40273	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	छतर सिंह
35	जे सी 45357	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	चंजी लाल यादव
36	जे सी 32837	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	ज्ञान सिंह
37	जे सी 25710	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	हरचन्द सिंह
38	जे सी 26933	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	खजान सिंह
39	जे सी 47886	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	मोहन सिंह
40	जे सी 34324	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	नेत राम
41	जे सी 27054	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	रघुवंश सिंह
42	जे सी 30178	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	राम चन्द
43	जे सी 41032	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	रामजी लाल
44	जे सी 25862	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	सखत सिंह
45	जे सी 32247	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	सन्तोष सिंह
46	जे सी 45472	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	शिव सहाय
47	जे सी 30335	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	श्री राम यादव
48	जे सी 30330	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	सुरजीत सिंह
49	जे सी 47236	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	टी वी केशवा पीरुमल
50	जे सी 34337	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	तेज राम
51	जे सी 37879	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट	तुकाराम निकम

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

52	जे सी 16430	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	ए. अण्णुकुट्टन नायर
53	जे सी 13228	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	डी. अल्फ्रेड मोनीराज
54	जे सी 16431	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	गनारतनम
55	जे सी 19376	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	एम. एस. फ्रेडरिक
56	जे सी 17962	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	एन. पी. कुन्निहकसन
57	जे सी 18579	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	मोलोमन राज
58	जे सी 16418	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	मुन्निबयाह

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

59	जे सी 13015	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	बलवंत सिंह
60	जे सी 19738	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	बिशन सिंह, बी. एस. एम.
61	जे सी 15128	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	केशवा नन्द
62	जे सी 23864	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	सुरजीत सिंह
63	जे सी 13014	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट	तरकेश्वर सिंह

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

64	जे सी 14729	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बलवन्त सिंह
65	जे सी 16479	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	भाउ साबत
66	जे सी 16483	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दयाल सिंह
67	जे सी 16468	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	एकनाथ लावडे
68	जे सी 24594	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सदाशिव जाधव
69	जे सी 16487	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	शकर साबत
70	जे सी 27748	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	लछमन सिंह
71	जे सी 27755	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सूरजनाथ प्रसाद

कोर ग्राफ सिग्नल्स

72	जे सी 20101	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अनंत राम
73	जे सी 16653	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	चर्त सिंह
74	जे सी 18125	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गोपालन्
75	जे सी 16904	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हरबन्स सिंह
76	जे सी 18139	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जैकब
77	जे सी 22403	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जयमल सिंह
78	जे सी 15585	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	एम चिन्दन नायर
79	जे सी 16871	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	पी बी रामा, एन
80	जे सी 18150	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सन्तोख सिंह
81	जे सी 16908	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	स्वर्ण सिंह
82	जे सी 30259	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	ए एस मिन्हास
83	जे सी 30258	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	कृष्णा मोहन सिंह
84	जे सी 37219	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	आर बी मुथु कोडल रयन
85	जे सी 37283	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रुद्रेशवर सिंह

ब्रिगेड ग्राफ बी गार्डस्

86	जे सी 16946	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	भूप सिंह
87	जे सी 21115	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सुरजा राम
88	जे सी 36016	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दत्तेल सिंह
89	जे सी 47382	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्रोतम सिंह

बी पैराशूट रेजिमेंट

90	जे सी 23842	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	के नारायणा पानिकर
91	जे सी 27826	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	कन्याण सिंह
92	जे सी 20866	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	श्रीकार सिंह
93	जे सी 16961	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रघुवीर सिंह
94	जे सी 27824	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	शिव राम

बी पंजाब रेजिमेंट

95	जे सी 21997	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अमर सिंह
96	जे सी 18939	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बाबू राम
97	जे सी 32611	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	लक्ष्मी नारायण
98	जे सी 18933	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्रेम चन्द
99	जे सी 32343	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बीर सिंह
100	जे सी 42933	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	काजल सिंह

बी मद्रास रेजिमेंट

101	जे सी 36746	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	एम के सुरेन्द्र
102	जे सी 18004	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	पी भास्करन नायर
103	जे सी 38583	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	के सी शंकरन

बी प्रेसिडियस

104	जे सी 13594	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अहमद सिंह
105	जे सी 6839	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जुग लाल
106	जे सी 27714	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जै लाल
107	जे सी 23289	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	खुशाल सिंह

बी मराठा लाइट इन्फैण्ट्री

108	जे सी 19102	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दीनत राव
109	जे सी 16331	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रामाकान्त मुम्भर

बी राजपूताना राइफल

110	जे सी 15111	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जय सिंह
111	जे सी 22748	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रामा चन्द सिंह
112	जे सी 8445	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रोहतास सिंह
113	जे सी 35971	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	धर्मे बीर
114	जे सी 12478	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जालम सिंह

बी राजपूत रेजीमेंट

115	जे सी 14440	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बीबी दयाल
116	जे सी 24935	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सजोधर सिंह
117	जे सी 22080	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जगदान सिंह
118	जे सी 17011	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	भवानी राम
119	जे सी 35518	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हर मरूप
120	जे सी 42332	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मथन सिंह
121	जे सी 19967	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मोहन चन्द
122	जे सी 31359	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रत्नो राम

बी जाट रेजिमेंट

123	जे सी 10673	सूबेदार व मेजर अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रिछपाल सिंह
124	जे सी 16174	सूबेदार व मेजर अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सीस राम
125	जे सी 50338	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मुख्त्यार सिंह
126	जे सी 35055	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रणधीर सिंह

बी सिख रेजिमेंट

127	जे सी 16616	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अनोख सिंह
128	जे सी 14289	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	ब नो सिंह
129	जे सी 16011	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	ईशर सिंह
130	जे सी 16013	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जगत सिंह
131	जे सी 14658	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	कर्तार सिंह
132	जे सी 15252	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	श्रीराम सिंह
133	जे सी 25595	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	स्वर्ण सिंह
134	जे सी 13729	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	उजागर सिंह
135	जे सी 39953	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	चानन सिंह
136	जे सी 35994	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दौलत सिंह
137	जे सी 35991	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जगतार सिंह
138	जे सी 39164	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जसवन्त सिंह
139	जे सी 37593	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	कीर्तन सिंह
140	जे सी 35321	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मोहिन्दर सिंह
141	जे सी 35874	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सलवन्त सिंह

बी सिख लाइट इन्फैन्ट्री

142	जे सी 27703 एल	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गुरनाम सिंह
143	जे सी 29463 एक्स	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सन्ता सिंह

बी डोगरा रेजिमेंट

144	जे सी 17468	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बिक्रम सिंह
145	जे सी 20255	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दुमनू राम
146	जे सी 21352	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	शान सिंह
147	जे सी 12120	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हर्माचल सिंह
148	जे सी 18543	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जैशो राम
149	जे सी 12072	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	काशी राम
150	जे सी 22902	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रभू राम
151	जे सी 12693	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्रेम सिंह
152	जे सी 20639	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मधु नाथ
153	जे सी 16720	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	तालब सिंह
154	जे सी 34769	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बिन्धी चन्द
155	जे सी 35496	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	देस राज
156	जे सी 46255	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	परन राम

157	जे सी 34620	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्रेम सिंह
158	जे सी 39153	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्रेम सिंह
159	जे सी 39490	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सरबन सिंह
160	जे सी 39139	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	शंकर सिंह
161	जे सी 39491	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	ठाकर दास
162	जे सी 38560	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	तीरथ राम

बी गढ़वाल राइफल्स

163	जे सी 44560	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दिवान सिंह रावत
164	जे सी 39177	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जबर सिंह नेगी
165	जे सी 44855	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सूदन सिंह बुटोला

बी कुमाऊं रेजिमेंट

166	जे सी 31432	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अमर सिंह
167	जे सी 31434	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दलीप सिंह
168	जे सी 7887	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम सिंह
169	जे सी 18189	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	लायक सिंह
170	जे सी 37578	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	फनेन्द्र चन्द्र
171	जे सी 33228	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राजिन्द्र सिंह

बी आसाम रेजिमेंट

172	जे सी 12456	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	भरत चन्द्र राय
173	जे सी 17698	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जाभुंगा
174	जे सी 12459	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	कनक चन्द्र गोर्गई
175	जे सी 32313	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	थानमिया लुशाई

बी बिहार रेजिमेंट

176	जे सी 25545	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जोसफ टापो
177	जे सी 13621	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम भरोशा सिंह

बी महार रेजिमेंट

178	जे सी 24784	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बख्तावर सिंह नेमी
179	जे सी 14142	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मलूक सिंह
180	जे सी 11519	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सुरत सिंह
181	जे सी 21717	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जिले सिंह

बी जम्मू एण्ड काश्मीर राइफल्स

182	जे सी 19852	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बृज लाल
183	जे सी 16681	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम कृष्ण
184	जे सी 14421	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम सरन
185	जे सी 9443	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम सिंह
186	जे सी 50994	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बलवान सिंह
187	जे सी 41739	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	भरत सिंह

188	जे सी 43665	सूबेदार व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	दीलत राम
189	जे सी 40471	सूबेदार व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	बू डा सिंह
190	जे सी 40856	सूबेदार व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	इशर दास
191	जे सी 15763	सूबेदार व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	कामिम अनी
192	जे सी 34397	सूबेदार व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	केसरी सिंह
193	जे सी 33606	सूबेदार व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	पदमदेव सिंह
194	जे सी 39123	सूबेदार व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	पीताम्बर सिंह
195	जे सी 32330	सूबेदार व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	पूर्ण सिंह
196	जे सी 35940	सूबेदार व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	सेवा सिंह

1 गोरखा राइफलस

197	जे सी 33961	सूबेदार मेजर व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	चम्तू थापा
-----	-------------	------------------------------------	------------

3 गोरखा राइफलस

198	जे सी 19082	सूबेदार मेजर व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	असु गुरुग
-----	-------------	------------------------------------	-----------

5 गोरखा राइफलस

199	जे सी 36088	सूबेदार मेजर व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	बलबहादुर थापा
200	जे सी 35826	सूबेदार मेजर व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	तेज बहादुर गुरुग
201	जे सी 51144	सूबेदार व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	दल बहादुर थापा
202	जे सी 41312	सूबेदार व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	लालबहादुर पुन, वीर चक्र

8 गोरखा राइफलस

203	जे सी 48976	सूबेदार मेजर व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	ईश्वरसिंह थापा
-----	-------------	------------------------------------	----------------

11 गोरखा राइफलस

204	जे सी 28198	सूबेदार मेजर व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	मेम बहादुर लिम्बु
-----	-------------	------------------------------------	-------------------

ग्रामी सविस कोर (सप्लार्ड)

205	जे सी 32158	सूबेदार मेजर व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	दयो कृष्ण सिंह
206	जे सी 43095	सूबेदार मेजर व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	जी बालमुक्तामनियम
207	जे सी 32171	सूबेदार मेजर व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	के सुब्बया
208	जे सी 18983	सूबेदार मेजर व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	के मुकुमारन नायर
209	जे सी 42776	सूबेदार मेजर व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	राम बहादुर शर्मा
210	जे सी 42780	सूबेदार मेजर व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	सोहन लाल
211	जे सी 43096	सूबेदार मेजर व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	ठाकर दाम
212	जे सी 26883	सूबेदार व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	बिशम्बर दयाल
213	जे सी 50628	सूबेदार व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	चन्दर भान
214	जे सी 21982	सूबेदार व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	चन्द्र दयो चौधरी
215	जे सी 51533	सूबेदार व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	दल सिंह बोपाराय
216	जे सी 52450	सूबेदार व अश्वैतनिक लैफ्टिनेट	कन्धारा सिंह

ग्रामी सचिव कोर (एनिसल ट्रांसपोर्ट)

217 जे सी 17733 रिमालदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट लाल सिंह

ग्रामी सचिव कोर (मेकेनिकल ट्रांसपोर्ट)

218 जे सी 39892 सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट अग्रमतीन
 219 जे सी 36964 सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट बीरबल शर्मा
 220 जे सी 36959 सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट एम पी रामासामी
 221 जे सी 39904 सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट माके राम
 222 जे सी 41782 सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट एन चन्द्राशेखर नायर
 223 जे सी 24071 सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट एन कृष्णा कुरुप
 224 जे सी 39888 सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट थुलासी वास
 225 जे सी 43392 सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट अजीत सिंह
 226 जे सी 42643 सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट अन्थोनी लुई स्वामी
 227 जे सी 42650 सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट भैरो प्रसाद
 228 जे सी 42652 सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट गंगा बिन
 229 जे सी 41872 सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट हरी वास
 230 जे सी 41838 सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट के कृष्णा पिल्ले
 231 जे सी 43391 सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट कीदार नाथ राय
 232 जे सी 45737 सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट क्रिशनन
 233 जे सी 41839 सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट मेहर सिंह
 234 जे सी 43445 सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट पूरन चन्द सिरोहिवाल
 235 जे सी 41841 सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट रेयन
 236 जे सी 43399 सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट स्वामी नाथन

ग्रामी मेडिकल कोर

237 जे सी 36647 सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट मोहम्मद आलम खां

ग्रामी आर्डनेंस कोर

238 जे सी 13439 सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट पी एन नायर
 239 जे सी 17966 सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट शादी लाल
 240 जे सी 30786 सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट शंगारा सिंह
 241 जे सी 18926 सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट राम शकल सिंह
 242 जे सी 18929 सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट राज मोती
 243 जे सी 18927 सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट मुच्छा सिंह

कोर आफ इलैक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स

244 जे सी 33902 सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेट गुरदेव सिंह

रिसालंट एण्ड वेदरमरी कोर

245 आर बी 7140 रिसालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेट हुंस राज

ग्रामी एंजकेशन कोर

246	जे सी 13652	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	इन्द्र बहादुर सिंह
247	जे सी 13655	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मुश्तियार सिंह

बी इन्टेलीजन्स कोर

248	जे सी 16521	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जनक सिंह राणा
249	जे सी 14702	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मुलतान सिंह, एस एम

कोर आफ मिलिटरी पुलिस

250	जे सी 16534	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हरगोविंद सिंह कारकी
251	जे सी 23085	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	करतार सिंह
252	जे सी 24110	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रविन्द्र नारायण ब्रह्मा
253	जे सी 21835	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम सिंह
254	जे सी 49352	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	केहर सिंह

डिफेंस सिविलियरीटी कोर

255	52018 जे सी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राजा राम पाडियान
-----	-------------	-----------------------------------	------------------

अवैतनिक लैफ्टिनेंट के रैंक में**64 केवलरी**

1	जे सी 34112	रिसालदार मेजर	तेजपाल सिंह
---	-------------	---------------	-------------

रेजिमेंट आफ आर्टिलरी

2	जे सी 25675	सूबेदार मेजर	भाग सिंह
3	जे सी 15435	सूबेदार मेजर	भास्कर शिन्वे
4	जे सी 13899	सूबेदार मेजर	किरण सिंह
5	जे सी 17296	सूबेदार मेजर	प्यारे लाल
6	जे सी 19968	सूबेदार मेजर	प्रेम कुमार
7	जे सी 15415	सूबेदार मेजर	रन सिंह
8	जे सी 21900	सूबेदार मेजर	बिथल यादवीराव बन्जारी

बंगाल इन्जीनियर ग्रुप

9	जे सी 28276	सूबेदार मेजर	ए नरसिम्ह
10	जे सी 17176	सूबेदार मेजर	ए सासथरा वेन्क्यू
11	जे सी 39556	सूबेदार मेजर	अब्दुल अहद
12	जे सी 18359	सूबेदार मेजर	सी रामा राव
13	जे सी 26497	सूबेदार मेजर	सी जे ओसवलड
14	जे सी 23329	सूबेदार मेजर	दिवान सिंह
15	जे सी 34754	सूबेदार मेजर	गोपाल दत्त
16	जे सी 24660	सूबेदार मेजर	जय सिंह
17	जे सी 20758	सूबेदार मेजर	जीवन सिंह

18	जे सी 18552	सूबेदार मेजर	जोगेश चन्द्र
19	जे सी 18361	सूबेदार मेजर	एम बी जान
20	जे सी 23372	सूबेदार मेजर	मोहन सिंह
21	जे सी 23863	सूबेदार मेजर	एन बालाकृष्णन नायर
22	जे सी 26809	सूबेदार मेजर	एन एफ भाईकल
23	जे सी 18172	सूबेदार मेजर	प्रयाग दत्त
24	जे सी 23369	सूबेदार मेजर	राम प्रसाद
25	जे सी 24657	सूबेदार मेजर	रोशन लाल देवरा
26	जे सी 26539	सूबेदार मेजर	सरदार सिंह
27	जे सी 17195	सूबेदार मेजर	शेर सिंह
28	जे सी 26514	सूबेदार मेजर	श्री निवास तिवारी
29	जे सी 18371	सूबेदार मेजर	टी वैनकटा नारायणन
30	जे सी 26507	सूबेदार मेजर	बी बालाकृष्णन मैनन

बी मन्नास रेजिमेंट

31	जे सी 16187	सूबेदार मेजर	के डेविड
----	-------------	--------------	----------

बी प्रीमियरस

32	जे सी 12138	सूबेदार मेजर	अब्दुल हमीद खा
----	-------------	--------------	----------------

बी राजपूत रेजिमेंट

33	जे सी 26107	सूबेदार मेजर	राम सिंह
----	-------------	--------------	----------

बी सिख लाईट इन्फैण्ट्री

34	जे सी 16733 एच	सूबेदार मेजर	किशन सिंह
----	----------------	--------------	-----------

बी गढ़वाल राइफलस

35	जे सी 16735	सूबेदार मेजर	मरूप सिंह रावत
----	-------------	--------------	----------------

बी महार रेजिमेंट

36	जे सी 28067	सूबेदार मेजर	हरी सिंह, बीर चक्र
----	-------------	--------------	--------------------

9 गोरखा राइफलस

37	जे सी 23569	सूबेदार मेजर	बीर बिक्रम सिंह
----	-------------	--------------	-----------------

घासी अर्जिनेन्स कोर

38	जे सी 30825	सूबेदार मेजर	बिनय भूषण नाग
39	जे सी 17860	सूबेदार मेजर	चमन लाल शर्मा
40	जे सी 31549	सूबेदार मेजर	ग्यान चन्द
41	जे सी 33640	सूबेदार मेजर	सदमीपति नायडू

कोर आफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल इंजीनियरस

42	जे सी 35446	सूबेदार मेजर	गुरदयाल सिंह
43	जे सी 35442	सूबेदार मेजर	जे आई नाधन
44	जे सी 35452	सूबेदार मेजर	खेत सिंह रावत
45	जे सी 33828	सूबेदार मेजर	एम राजायन
46	जे सी 22873	सूबेदार मेजर	तुलसी दास

रिमाउन्ड एण्ड बैटनरी कोर

47	आर बी 7131	रिसालदार मेजर	अशचर्ज लाल
----	------------	---------------	------------

डिफेंस सिव्योरिटी कोर

48	40784 जे सी	सूबेदार मेजर	आनन सिंह परमार
49	जे सी 4143	सूबेदार मेजर	दर्शन सिंह
50	जे सी 4129	सूबेदार मेजर	आई मुकुन्दा मैनन
51	51441 जे सी	सूबेदार मेजर	कवर सेन बक्शी
52	जे सी 4098	सूबेदार मेजर	मन्साना नाडार महालिगम
53	32812 जे सी	सूबेदार मेजर	राम सरूप सगवान
54	जे सी 4119	सूबेदार मेजर	रूप चन्द

अश्वेतनिक रिसालदार मेजर सूबेदार मेजर के रैंक में**16 केवलरी**

1	जे सी 42403	रिसालदार	एम टी मंडा भा
---	-------------	----------	---------------

8 केवलरी

2	जे सी 52335	रिसालदार	गुरदयाल चन्द
---	-------------	----------	--------------

9 हार्स

3	जे सी 25327	रिसालदार	बिजयपाल सिंह
---	-------------	----------	--------------

64 केवलरी

4	जे सी 46133	रिसालदार	इन्दराज सिंह
---	-------------	----------	--------------

67 आर्मर्ड रेजिमेन्ट

5	जे सी 44916	रिसालदार	धर्म सिंह
---	-------------	----------	-----------

72 आर्मर्ड रेजिमेन्ट

6	जे सी 56024	रिसालदार	कर्म चन्द
---	-------------	----------	-----------

73 आर्मर्ड रेजिमेन्ट

7	जे सी 40650	रिसालदार	पह्लाद सिंह
8	जे सी 44932	रिसालदार	शाम सिंह

81 ग्रामार्ड रेजिमेन्ट

9 जे सी 36169

रिसालदार

राम मीहर

रेजिमेन्ट ग्राफ ग्राटिलरी

10 जे सी 45277

सूबेदार

अमोलक सिंह

11 जे सी 40295

सूबेदार

अनिल प्रसाद चक्राबोरी

12 जे सी 45325

सूबेदार

बी अम्पा राव

13 जे सी 34025

सूबेदार

बलबीर सिंह

14 जे सी 37896

सूबेदार

बलवन्त सिंह

15 जे सी 26903

सूबेदार

बलवन्त सिंह

16 जे सी 45531

सूबेदार

सी एच सथयम

17 जे सी 45359

सूबेदार

चूनी लाल यादव

18 जे सी 34326

सूबेदार

दलीप सिंह

19 जे सी 45354

सूबेदार

दुली चन्द

20 जे सी 45551

सूबेदार

फकीर सिंह

21 जे सी 31031

सूबेदार

गंगा राम

22 जे सी 40269

सूबेदार

धनश्याम

23 जे सी 45396

सूबेदार

गुरदेव सिंह

24 जे सी 34661

सूबेदार

गुरमीत सिंह

25 जे सी 33319

सूबेदार

हरजीत सिंह

26 जे सी 30339

सूबेदार

हर लाल

27 जे सी 40306

सूबेदार

हरी राम

28 जे सी 40218

सूबेदार

ईशर सिंह

29 जे सी 25828

सूबेदार

जाधौर सिंह

30 जे सी 45377

सूबेदार

जतिन्द्र नाथ

31 जे सी 32796

सूबेदार

कर्म सिंह

32 जे सी 40275

सूबेदार

कराप्पन

33 जे सी 40267

सूबेदार

करनैल सिंह

34 जे सी 49937

सूबेदार

कुट्टी सकरन नायर

35 जे सी 29038

सूबेदार

लच्छी राम

36 जे सी 17314

सूबेदार

लजा राम

37 जे सी 45446

सूबेदार

लाल सिंह

38 जे सी 25805

सूबेदार

मखन सिंह

39 जे सी 17330

सूबेदार

मोहिन्द्र सिंह

40 जे सी 17306

सूबेदार

फूल चन्द

41 जे सी 45367

सूबेदार

पृथ्वी राज

42 जे सी 34660

सूबेदार

रघबीर सिंह

43 जे सी 49910

सूबेदार

रामचन्द्र तोरवे

44 जे सी 32273

सूबेदार

राम नारायण

45 जे सी 33305

सूबेदार

रंजीत सिंह

46	जे सी 33270	सूबेदार	रबेल सिंह
47	जे सी 40256	सूबेदार	एस ए मथर
48	जे सी 41039	सूबेदार	एस चौकालिन्गम
49	जे सी 32836	सूबेदार	सन्नोख सिंह
50	जे सी 11181	सूबेदार	सरबन सिंह
51	जे सी 48701	सूबेदार	शब्द सागर सिंह
52	जे सी 33418	सूबेदार	शंकर सिंह
53	जे सी 45526	सूबेदार	शिवाजी भोसले
54	जे सी 32819	सूबेदार	सुव्त्रायालु
55	जे सी 40241	सूबेदार	सुन्दर राव
56	जे सी 45564	सूबेदार	तारा चन्द
57	जे सी 26932	सूबेदार	वी ओ जान
58	जे सी 49388	सूबेदार	बैकटा चलापथी

भारत इंजीनियर ग्रुप

59	जे सी 39236	सूबेदार	चिन्नप्पन
60	जे सी 41301	सूबेदार	के एस बैलायूधन नायर
61	जे सी 30593	सूबेदार	एन मोहनराज
62	जे सी 41248	सूबेदार	विनायगम

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

63	जे सी 42162	सूबेदार	आत्मा सिंह
64	जे सी 25140	सूबेदार	भवानी दत्त
65	जे सी 21165	सूबेदार	गुरदेव सिंह
66	जे सी 35781	सूबेदार	हीरा बल्लभ
67	जे सी 29466	सूबेदार	जगदीश
68	जे सी 34211	सूबेदार	जोगिन्दर सिंह
69	जे सी 31310	सूबेदार	करतार सिंह
70	जे सी 34206	सूबेदार	मनोहर सिंह नेगी
71	जे सी 34204	सूबेदार	रघुबर दत्त
72	जे सी 26109	सूबेदार	रघुबीर सिंह

कोम्बे इंजीनियर ग्रुप

73	जे सी 34486	सूबेदार	दत्तात्रय चवान
74	जे सी 33688	सूबेदार	करतार सिंह
75	जे सी 33706	सूबेदार	हरसत सिंह
76	जे सी 43840	सूबेदार	निर्मलेन्दु मैत्रा

कोर ग्राफ सिग्नल्स

77	जे सी 34813	सूबेदार	आग्या राम
78	जे सी 40756	सूबेदार	अमर सिंह
79	जे सी 40811	सूबेदार	अशोतोश चौधरी

80	जे सी 44762	सूबेदार	बलवन्त सिंह
81	जे सी 34797	सूबेदार	बाबा सिंह
82	जे सी 37926	सूबेदार	चरनजीत राज
83	जे सी 36814	सूबेदार	गुमान सिंह
84	जे सी 31038	सूबेदार	गुरचरन सिंह
85	जे सी 40822	सूबेदार	हरबन्स लाल
86	जे सी 37271	सूबेदार	हरचरन सिंह
87	जे सी 32083	सूबेदार	एम पी श्र धरन नायर
88	जे सी 30238	सूबेदार	एम आर शंकरन नायर
89	जे सी 30227	सूबेदार	मेवा सिंह
90	जे सी 30265	सूबेदार	मोहिन्दर सिंह
91	जे सी 52850	सूबेदार	मुखतार सिंह
92	जे सी 36785	सूबेदार	उम्मत वरगीस
93	जे सी 31298	सूबेदार	पी कृष्णा सामि
94	जे सी 34804	सूबेदार	पी कुमारन
95	जे सी 44755	सूबेदार	प्रेम सिंह
96	जे सी 42815	सूबेदार	परीतम सिंह
97	जे सी 31294	सूबेदार	रूप सिंह
98	जे सी 42060	सूबेदार	सरदूल सिंह
99	जे सी 30232	सूबेदार	शुभ चन्द
100	जे सी 35563	सूबेदार	सतिन्दर कुमार प्रभाकर
101	जे सी 31293	सूबेदार	सोमा सेखरन पिल्ले के
102	जे सी 30257	सूबेदार	तेजा सिंह
103	जे सी 44760	सूबेदार	टेक चन्द सिंह
104	जे सी 44421	सूबेदार	उजागर सिंह
105	जे सी 49725	सूबेदार	वेद प्रकाश

ब्रिगेड ग्राफ बी गार्ड्स

106	जे सी 35578	सूबेदार	चरनजी लाल
107	जे सी 41682	सूबेदार	मेघनाथ
108	जे सी 54641	सूबेदार	प्यारे लाल

बी पंजाब रेजिमेंट

109	जे सी 26161	सूबेदार	बिधी चंद
110	जे सी 50330	सूबेदार	हजारा सिंह
111	जे सी 44381	सूबेदार	जगरूप सिंह
112	जे सी 39929	सूबेदार	मेजर सिंह
113	जे सी 10562	सूबेदार	प्रभु राम डोगरा
114	जे सी 47589	सूबेदार	रंजीत सिंह दूर
115	जे सी 55532	सूबेदार	शादी सिंह
116	जे सी 49478	सूबेदार	सूरत सिंह

बी मद्रास रेजिमेंट

117	जे सी 50209	सूबेदार	एम इ मैथ्यु
-----	-------------	---------	-------------

बी प्रेनेडियरस

118	जे सी 17202	सूबेदार	गजन सिंह
119	जे सी 53961	सूबेदार	जागीर सिंह
120	जे सी 27706	सूबेदार	नूर मोहम्मद खां

बी राजपूताना राइफल्स

121	जे सी 29265	सूबेदार	प्रभु दयाल शर्मा
122	जे सी 38104	सूबेदार	रतना राम
123	जे सी 35970	सूबेदार	श्री राम

बी राजपूत रेजिमेंट

124	जे सी 58277	सूबेदार	भान प्रताप सिंह
125	जे सी 37575	सूबेदार	दलीप सिंह
126	जे सी 58009	सूबेदार	ज्ञान सिंह
127	जे सी 47700	सूबेदार	लखपत सिंह
128	जे सी 13054	सूबेदार	निरजन प्रसाद दास
129	जे सी 58276	सूबेदार	प्रेम कुमार खन्ना
130	जे सी 42331	सूबेदार	राम नाथ सिंह
131	जे सी 37536	सूबेदार	शिव करन

बी जाट रेजिमेंट

132	जे सी 50718	सूबेदार	बनी सिंह
133	जे सी 35063	सूबेदार	ईस राम
134	जे सी 34004	सूबेदार	फिदार सिंह
135	जे सी 37776	सूबेदार	निहाल सिंह
136	जे सी 53271	सूबेदार	रूप सिंह
137	जे सी 35662	सूबेदार	सूरज मल

बी सिख रेजिमेंट

138	जे सी 33471	सूबेदार	भजीत सिंह
139	जे सी 48052	सूबेदार	जयिन्द सिंह

बी डोगरा रेजिमेंट

140	जे सी 50021	सूबेदार	बसन्त राम
141	जे सी 49570	सूबेदार	बिशन दास
142	जे सी 44729	सूबेदार	ज्ञान चन्द
143	जे सी 46634	सूबेदार	हीरा लाल
144	जे सी 50567	सूबेदार	जसबन्त सिंह
145	जे सी 508		कस्तूरी लाल

146	जे सी 50022	सूबेदार	पंजाब सिंह
147	जे सी 50334	सूबेदार	राम लाल
148	जे सी 44849	सूबेदार	सुख राम

बी गढ़वाल राइफल

149	जे सी 53484	सूबेदार	बचन सिंह गुसाई
150	जे सी 36197	सूबेदार	धून सिंह बिष्ट

बी आसाम रेजिमेंट

151	जे सी 45146	सूबेदार	राबिन्द्र सिंह
152	जे सी 35703	सूबेदार	रोमाविया लुशाई
153	जे सी 35708	सूबेदार	जयगण्ठिगा लुशाई

बी बिहार रेजिमेंट

154	जे सी 39835	सूबेदार	राज महल राय
-----	-------------	---------	-------------

बी महार रेजिमेंट

155	जे सी 39072	सूबेदार	भूनी लाल
156	जे सी 29462	सूबेदार	इकनाथ पगारे
157	जे सी 37816	सूबेदार	गुरचरन सिंह
158	जे सी 33476	सूबेदार	गुरवयाल सिंह

बी जम्मू एण्ड कश्मीर राइफल

159	जे सी 51181	सूबेदार	राम सरन
160	जे सी 42983	सूबेदार	साधू सिंह

बी लद्दाख स्काउट्स

161	जे सी 52470	सूबेदार	कृष्ण नारायण कौल
-----	-------------	---------	------------------

बी जम्मू एण्ड कश्मीर लाइट इन्फेन्ट्री

162	जे सी (एम) 92	सूबेदार	हरी कृशन
163	जे सी (एम) 205	सूबेदार	केहर सिंह, एस एम
164	जे सी (एम) 68	सूबेदार	मोहम्मद अमीन शाह
165	जे सी (एम) 146	सूबेदार	पृथ्वी नाथ कौल

1 गोरखा राइफल

166	जे सी 37405	सूबेदार	बासु थापा
-----	-------------	---------	-----------

3 गोरखा राइफल

167	जे सी 45706	सूबेदार	गज बहादुर थापा
-----	-------------	---------	----------------

11 गोरखा राइफल

168	जे सी 13161	सूबेदार	श्री प्रसाद शर्मा
-----	-------------	---------	-------------------

ग्रामी सविस् कोर (सप्लाई)

169	जे सी 48654	सूबेदार	अमर कान्ती नाग
170	जे सी 48655	सूबेदार	अमर सिंह
171	जे सी 53264	सूबेदार	अरुन चन्द्र सिन्हा
172	जे सी 51552	सूबेदार	बलवन्त सिंह
173	जे सी 51539	सूबेदार	भरपूर सिंह
174	जे सी 48672	सूबेदार	बीरबल सिंह
175	जे सी 49199	सूबेदार	सी ए भूषाना दास
176	जे सी 48671	सूबेदार	सी पी पदमानाभन नायर
177	जे सी 51538	सूबेदार	दयाल सिंह
178	जे सी 49028	सूबेदार	धर्म पाल
179	जे सी 52442	सूबेदार	धीरेन दासा
180	जे सी 52457	सूबेदार	दिवाकर मुखर्जी
181	जे सी 52443	सूबेदार	दुर्गामाय मुखर्जी
182	जे सी 30091	सूबेदार	ई नारायणन नायर
183	जे सी 53262	सूबेदार	गनेश पान्डे
184	जे सी 48109	सूबेदार	ज्ञान चन्द शर्मा
185	जे सी 52449	सूबेदार	गुरबक्ष सिंह
186	जे सी 52464	सूबेदार	गुरचरन सिंह
187	जे सी 40530	सूबेदार	जोगिन्दर सिंह
188	जे सी 51545	सूबेदार	काली दास भट्टाचारजी
189	जे सी 50620	सूबेदार	कवल सिंह
190	जे सी 51379	सूबेदार	केवल कृमान
191	जे सी 49198	सूबेदार	किशन सिंह
192	जे सी 48670	सूबेदार	लक्ष्मी नारायण
193	जे सी 52446	सूबेदार	मनोहर लाल शर्मा
194	जे सी 40529	सूबेदार	मोहन लाल
195	जे सी 51550	सूबेदार	महिन्दर सिंह प्रलुवालिया
196	जे सी 51541	सूबेदार	महिन्दर सिंह भट्टी
197	जे सी 51513	सूबेदार	निहाररंजन चक्रवर्ती
198	जे सी 51536	सूबेदार	पी जियाराज देवादासन
199	जे सी 21975	सूबेदार	पी के सनकुम्भी नायर
200	जे सी 49033	सूबेदार	पी एम वर्गीस
201	जे सी 49682	सूबेदार	फानी भूसन पाल
202	जे सी 49027	सूबेदार	पिरथी राज
203	जे सी 50627	सूबेदार	प्रार सुब्रामनिया प्रह्यर
204	जे सी 49200	सूबेदार	रघबीर सिंह
205	जे सी 52445	सूबेदार	राजिन्दर सिंह गिल
206	जे सी 48108	सूबेदार	राजपाल सिंह
207	जे सी 52441	सूबेदार	राम बचन तिवारी

208	जे सी 53113	सूबेदार	रेनू पाडा दास
209	जे सी 51543	सूबेदार	सहदेव चन्द्रा भौमिक
210	जे सी 49684	सूबेदार	सत पाल
211	जे सी 50624	सूबेदार	शगारा सिंह
212	जे सी 49031	सूबेदार	सीता राम
213	जे सी 49042	सूबेदार	सूरज बस सिंह
214	जे सी 51532	सूबेदार	उजागर सिंह

ग्रामी सविस कोर (मकेनिकल ट्रांसपोर्ट)

215	जे सी 43506	सूबेदार	विक्रम सिंह
216	जे सी 43507	सूबेदार	गिरराज सिंह
217	जे सी 43512	सूबेदार	हरी राम
218	जे सी 43439	सूबेदार	इयानार
219	जे सी 42663	सूबेदार	किशन लाल
220	जे सी 43402	सूबेदार	कोठा बगल बेरोयम

ग्रामी मेडिकल कोर

221	जे सी 40501	सूबेदार	हिरदया नन्द
222	जे सी 40510	सूबेदार	फिपाल सिंह
223	जे सी 40511	सूबेदार	पूरन लाल

ग्रामी ग्राइन्स कोर

224	जे सी 56865	सूबेदार	अमी चन्द
225	जे सी 33634	सूबेदार	अरुण कुमार सेन शर्मा
226	जे सी 57165	सूबेदार	अवतार सिंह
227	जे सी 56846	सूबेदार	अवतार सिंह
228	जे सी 56804	सूबेदार	बाल कृष्ण
229	जे सी 56884	सूबेदार	बनबन्त सिंह
230	जे सी 56880	सूबेदार	बनारसी दास
231	जे सी 56809	सूबेदार	भाग सिंह
232	जे सी 25212	सूबेदार	बिपुल रनजन राय
233	जे सी 34638	सूबेदार	चंचल सिंह
234	जे सी 56843	सूबेदार	चन्द्र भान मेहता
235	जे सी 57145	सूबेदार	चन्द्रप्रो राय
236	जे सी 37050	सूबेदार	ड एम राघवा कुरुप
237	जे सी 56832	सूबेदार	गोविन्द राम विग
238	जे सी 41205	सूबेदार	हरजीत सिंह बुधवाल
239	जे सी 57153	सूबेदार	जगत सिंह
240	जे सी 56811	सूबेदार	जगदीश चन्द
241	जे सी 56826	सूबेदार	जोगा सिंह

242	जे सी 56863	सूबेदार	के के गोविन्दन भ्रदियोगी
243	जे सी 37071	सूबेदार	के कल्याणकर नायर
244	जे सी 57161	सूबेदार	कन्हैया लाल
245	जे सी 56844	सूबेदार	कांशी राम
246	जे सी 57396	सूबेदार	करम सिंह
247	जे सी 56813	सूबेदार	किरपा सिंह
248	जे सी 56847	सूबेदार	मन मोहन प्रसाद श्रीवास्तव
249	जे सी 57167	सूबेदार	मनोहर सिंह गवत
250	जे सी 58583	सूबेदार	मथुरा दत्त
251	जे सी 56833	सूबेदार	मोहम्मद बाहिदुल हसन !
252	जे सी 57162	सूबेदार	मुख्तार सिंह
253	जे सी 23920	सूबेदार	पी के गवाहनकर
254	जे सी 41200	सूबेदार	पदमार्त्तभन
255	जे सी 56825	सूबेदार	प्यारा सिंह
256	जे सी 57173	सूबेदार	पूरन सिंह खेर
257	जे सी 52198	सूबेदार	शार नारायणन नायर
258	जे सी 56803	सूबेदार	रघुबीर सिंह यादव
259	जे सी 57399	सूबेदार	राम लाल सिंह राणा
260	जे सी 41169	सूबेदार	राम प्रसाद
261	जे सी 56888	सूबेदार	रिसाल सिंह
262	जे सी 56829	सूबेदार	एस नागयणन
263	जे सी 56828	सूबेदार	सदानन्द पान्डे
264	जे सी 56852	सूबेदार	संतोष चैटरजी
265	जे सी 18925	सूबेदार	सिया राम
266	जे सी 56817	सूबेदार	सुख्खा सिंह
267	जे सी 57160	सूबेदार	टी के अन्थानी
268	जे सी 57156	सूबेदार	खिन्गोवालन
269	जे सी 56823	सूबेदार	विशवा नाथा बक्शी

कोर ग्राफ इलस्ट्रीकल एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स

270	जे सी 38670	सूबेदार	कैलाश कुमार
271	जे सी 54296	सूबेदार	एन सी बालाकृष्ण पिल्लई
272	जे सी 40032	सूबेदार	प्रताप सिंह

रिसाऊंट एण्ड बेटेरिनरी कोर

273	आर वी 7188	रिसालदार	मोहम्मद बशीर
-----	------------	----------	--------------

आर्मी एजुकेशन कोर

274	जे सी 39479	सूबेदार	जय चन्द
275	जे सी 39474	सूबेदार	जमवन्त सिंह
276	जे सी 40908	सूबेदार	महाबीर सिंह

277	जे सी 39475	सूबेदार	महेष्वर भक्षण सिंह
278	जे सी 40903	सूबेदार	नारायण सिंह गुरादी नेगी
279	जे सी 40902	सूबेदार	पी पी जनार्दन
280	जे सी 22135	सूबेदार	राम कृष्ण पवार

बी इस्टलीजेंस कोर

281	जे सी 32461	सूबेदार	अजीत कुमार चक्रवर्ती
-----	-------------	---------	----------------------

कोर आफ मिलिटरी पुलिस

282	जे सी 34284	सूबेदार	ईश्वर सिंह
-----	-------------	---------	------------

अवैतनिक रिसालदार/सूबेदार के रैंक में**रेजिमेंट आफ आर्टिलरी**

1	जे सी 53324	नायब सूबेदार	अन्ना घाडगे
2	जे सी 74763	नायब सूबेदार	विष्णु दत्त
3	जे सी 72053	नायब सूबेदार	पियार सिंह
4	जे सी 73606	नायब सूबेदार	राम श्रोतार सिंह यादवा

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

5	जे सी 36229	नायब सूबेदार	शकर लंगोटे
---	-------------	--------------	------------

बी पंजाब रेजिमेंट

6	जे सी 64005	नायब सूबेदार	तुलसी राम
---	-------------	--------------	-----------

बी असम रेजिमेंट

7	जे सी 51719	नायब सूबेदार	कृष्ण सिन्धु भट्टाचार्य
---	-------------	--------------	-------------------------

बी जम्मू एण्ड काश्मीर राइफल

8	जे सी 65061	नायब सूबेदार	पूरन सिंह
---	-------------	--------------	-----------

5 गोरखा राइफल

9	जे सी 76066	नायब सूबेदार	श्याम सिंह थापा
---	-------------	--------------	-----------------

8 गोरखा राइफल

10	जे सी 70962	नायब सूबेदार	प्रीनर्मिंह कार्की
----	-------------	--------------	--------------------

आर्मी सर्विस कोर (मेकेनिकल ट्रांसपोर्ट)

11	जे सी 75753	नायब सूबेदार	अमबीका पाण्डे
----	-------------	--------------	---------------

कोर आफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल इंजीनियरस

12	जे सी 65238	नायब सूबेदार	डी विलियम
13	जे सी 77267	नायब सूबेदार	आर कृष्णा राव

कोर आफ मिलिटरी पुलिस

14	जे सी 74744	नायब सूबेदार	परस राम
15	जे सी 72368	नायब सूबेदार	पीलुस टोपनी

No. 11-E, dated 9th August, 1977.—The President is pleased to grant honorary ranks to the undermentioned JCOs on retirement under Para 180 of Regulations for the Army, 1962, with effect from their respective dates of retirement.—

To be Hony Captains

THE PRESIDENT'S BODY-GUARDS

1 JC 14494	Ris Maj & Hony Lt	CHHOTU RAM, VSM
17 HORSE		
2 JC 10368	Ris Maj & Hony Lt	JAGIR SINGH
63 CAVALRY		
3 JC 27850	Ris & Hony Lt	DHAN SINGH
73 ARMOURD REGIMENT		
4 JC 17186	Ris Maj & Hony Lt	DEVI SINGH

REGIMENT OF ARTILLERY

5 JC 24199	Sub Maj & Hony Lt	BANSI LAL
6 JC 40177	Sub Maj & Hony Lt	GHANYA LALL
7 JC 13908	Sub Maj & Hony Lt	GURCHAIN SINGH
8 JC 15411	Sub Maj & Hony Lt	HA JADHAV
9 JC 16854	Sub Maj & Hony Lt	HARDIAL SINGH
10 JC 17326	Sub Maj & Hony Lt	JAG DEO SINGH
11 JC 17299	Sub Maj & Hony Lt	JAGMAL SINGH
12 JC 15437	Sub Maj & Hony Lt	JOTIRINDRA NATH MAZUMDAR
13 JC 14356	Sub Maj & Hony Lt	K CHELLAPPAN PILLAI
14 JC 16854	Sub Maj & Hony Lt	KARNAIL SINGH
15 JC 25665	Sub Maj & Hony Lt	M MADAR SAHIB
16 JC 13900	Sub Maj & Hony Lt	MUKHTAR SINGH
17 JC 14383	Sub Maj & Hony Lt	NACHHATAR SINGH
18 JC 16846	Sub Maj & Hony Lt	NIRMAI SINGH
19 JC 14399	Sub Maj & Hony Lt	P GOPALAN THAMPI
20 JC 10814	Sub Maj & Hony Lt	P GOVINDAN
21 JC 10812	Sub Maj & Hony Lt	R CHIDAMBARAM
22 JC 17321	Sub Maj & Hony Lt	RAM SINGH
23 JC 12062	Sub Maj & Hony Lt	S GOVINDARAJU
24 JC 25777	Sub Maj & Hony Lt	SHLAM SING GURUNG
25 JC 32301	Sub Maj & Hony Lt	SUB RAM
26 JC 12968	Sub Maj & Hony Lt	TIJOMAN MATHAI
27 JC 15978	Sub Maj & Hony Lt	VAS DEV
28 JC 17325	Sub Maj & Hony Lt	YUDHISHTAR SINGH
29 JC 30204	Sub & Hony Lt	HABU RAM
30 JC 40265	Sub & Hony Lt	BAKSHISH SINGH
31 JC 34334	Sub & Hony Lt	BASANT RAJ
32 JC 17337	Sub & Hony Lt	BFG RAJ
33 JC 33267	Sub & Hony Lt	CA MUTHAPPA
34 JC 40273	Sub & Hony Lt	CHHATAR SINGH
35 JC 45357	Sub & Hony Lt	CHITRAJI LAL YADAV
36 JC 32837	Sub & Hony Lt	GIAN SINGH
37 JC 25710	Sub & Hony Lt	HARCHAND SINGH
38 JC 26933	Sub & Hony Lt	KHAZAN SINGH
39 JC 47886	Sub & Hony Lt	MOHAN SINGH
40 JC 34324	Sub & Hony Lt	NET RAM
41 JC 27054	Sub & Hony Lt	RAGHUVIR SINGH
42 JC 30178	Sub & Hony Lt	RAM CHAND
43 JC 41032	Sub & Hony Lt	RAMJI LALL
44 JC 25862	Sub & Hony Lt	SAKHAT SINGH
45 JC 32247	Sub & Hony Lt	SANTOKH SINGH
46 JC 45472	Sub & Hony Lt	SHIB SAHAI
47 JC 30335	Sub & Hony Lt	SRI RAM YADAVA
48 JC 30330	Sub & Hony Lt	SURJIT SINGH
49 JC 47236	Sub & Hony Lt	TV KESAVA PERUMAL
50 JC 34337	Sub & Hony Lt	TEJ RAM
51 JC 37879	Sub & Hony Lt	TUKARAM NIKAM

MADRAS ENGINEER GROUP

52	JC 16430	Sub Maj & Hon'y Lt	A APPUKUTTAN NAIR
53	JC 13228	Sub Maj & Hon'y Lt	D ALFRED MONIRAJ
54	JC 16431	Sub Maj & Hon'y Lt	GNANARATANAM
55	JC 19376	Sub Maj & Hon'y Lt	MS FREDRICK
56	JC 11912	Sub Maj & Hon'y Lt	NP KUNHI KANNAN
57	JC 18579	Sub Maj & Hon'y Lt	SOLOMON RAJ
58	JC 16418	Sub Maj & Hon'y Lt	SUBBIAH

BENGAL ENGINEER GROUP

59	JC 13015	Sub Maj & Hon'y Lt	BALWANT SINGH
60	JC 19738	Sub Maj & Hon'y Lt	BISHAN SINGH, VSM
61	JC 15128	Sub Maj & Hon'y Lt	KESHA NAND
62	JC 23864	Sub Maj & Hon'y Lt	SURJIT SINGH
63	JC 13014	Sub Maj & Hon'y Lt	TARAKESHWAR SINGH

BOMBAY ENGINEER GROUP

64	JC 14729	Sub Maj & Hon'y Lt	BALWANT SINGH
65	JC 16479	Sub Maj & Hon'y Lt	BHAU SAWANT
66	JC 16483	Sub Maj & Hon'y Lt	DIAL SINGH
67	JC 11468	Sub Maj & Hon'y Lt	PKNATH LAWAND
68	JC 24594	Sub Maj & Hon'y Lt	SADASHIV JADHAV
69	JC 16487	Sub Maj & Hon'y Lt	SHANKAR SAWANT
70	JC 27748	Sub & Hon'y Lt	LACHHMAN SINGH
71	JC 27755	Sub & Hon'y Lt	SURAJNATH PRASAD

CORPS OF SIGNALS

72	JC 20101	Sub Maj & Hon'y Lt	ANANT RAM
73	JC 16653	Sub Maj & Hon'y Lt	CHART SINGH
74	JC 18125	Sub Maj & Hon'y Lt	GOPALAN
75	JC 16904	Sub Maj & Hon'y Lt	HARBANS SINGH
76	JC 18139	Sub Maj & Hon'y Lt	JACOB
77	JC 22403	Sub Maj & Hon'y Lt	JAIMAL SINGH
78	JC 14585	Sub Maj & Hon'y Lt	M CHINDAN NAIR
79	JC 16871	Sub Maj & Hon'y Lt	PV RAMAKRISHNAN
80	JC 18153	Sub Maj & Hon'y Lt	SANTOKH SINGH
81	JC 16908	Sub Maj & Hon'y Lt	SWARAN SINGH
82	JC 30259	Sub & Hon'y Lt	AS MINHAS
83	JC 30258	Sub & Hon'y Lt	KRISHNA MOHAN SINGH
84	JC 37219	Sub & Hon'y Lt	RV MUTHU KONDAL
			RAYAN
85	JC 37283	Sub & Hon'y Lt	RUDERSHWAR SINGH

BRIGADE OF THE GUARDS

86	JC 16946	Sub Maj & Hon'y Lt	BHUP SINGH
87	JC 21115	Sub Maj & Hon'y Lt	SURJA RAM
88	JC 36016	Sub & Hon'y Lt	DAJEL SINGH
89	JC 47382	Sub & Hon'y Lt	PRITAM SINGH

THE PARACHUTE REGIMENT

90	JC 23842	Sub Maj & Hon'y Lt	K NARAYANA PANICKER
91	JC 27826	Sub Maj & Hon'y Lt	KALYAN SINGH
92	JC 20866	Sub Maj & Hon'y Lt	ONKAR SINGH
93	JC 16961	Sub Maj & Hon'y Lt	RAGHUBIR SINGH
94	JC 27824	Sub Maj & Hon'y Lt	SHIV RAM

THE PUNJAB REGIMENT

95	JC 21997	Sub Maj & Hon'y Lt	AMAR SINGH
96	JC 18939	Sub Maj & Hon'y Lt	BABU RAM
97	JC 32611	Sub Maj & Hon'y Lt	LACHI MI NARAIN
98	JC 18933	Sub Maj & Hon'y Lt	PREM CHAND
99	JC 32343	Sub & Hon'y Lt	BIR SINGH
100	JC 42933	Sub & Hon'y Lt	KABAL SINGH

THE MADRAS REGIMENT

101	JC 36746	Sub Maj & Hon'y Lt	MK SURENDRAN
102	JC 18004	Sub Maj & Hon'y Lt	P BHASKARAN NAIR
103	JC 38583	Sub & Hon'y Lt	KC SANKARAN

THE GRENADIERS

104	JC 13594	Sub Maj & Hon'y Lt	BARHAM SINGH
105	JC 6839	Sub Maj & Hon'y Lt	JUG LAL
106	JC 27714	Sub & Hon'y Lt	JAI LAL
107	JC 23289	Sub & Hon'y Lt	KHUSHAL SINGH

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

108	JC 19102	Sub Maj & Hon'y Lt	DAULATRAO
109	JC 16331	Sub Maj & Hon'y Lt	RAMAKANT SUBHEDAR

THE RAJPUTANA RIFLES

110	JC 15111	Sub Maj & Hon'y Lt	JAI SINGH
111	JC 22748	Sub Maj & Hon'y Lt	RAMA NAND SINGH
112	JC 8415	Sub Maj & Hon'y Lt	ROHTAN SINGH
113	JC 35971	Sub & Hon'y Lt	DHARAM BIR
114	JC 12478	Sub & Hon'y Lt	ZALAM SINGH

THE RAJPUT REGIMENT

115	JC 14410	Sub Maj & Hon'y Lt	DEVI DAYAL
116	JC 24935	Sub Maj & Hon'y Lt	GAJADHAR SINGH
117	JC 22080	Sub Maj & Hon'y Lt	JAGPAL SINGH
118	JC 17011	Sub Maj & Hon'y Lt	MAWASHI RAM
119	JC 35518	Sub & Hon'y Lt	HAR SARUP
120	JC 42332	Sub & Hon'y Lt	MATHAN SINGH
121	JC 19967	Sub & Hon'y Lt	MOHAN CHANDAR
122	JC 31359	Sub & Hon'y Lt	RATI RAM

THE JAT REGIMENT

123	JC 10673	Sub Maj & Hon'y Lt	RICHHPAL SINGH
124	JC 16174	Sub Maj & Hon'y Lt	SIS RAM
125	JC 50338	Sub & Hon'y Lt	MUKHTIAR SINGH
126	JC 35055	Sub & Hon'y Lt	RANDHIR SINGH

THE SIKH REGIMENT

127	JC 16616	Sub Maj & Hon'y Lt	ANOKH SINGH
128	JC 14289	Sub Maj & Hon'y Lt	BALI SINGH
129	JC 16011	Sub Maj & Hon'y Lt	ISHAR SINGH
130	JC 16013	Sub Maj & Hon'y Lt	JAGAT SINGH
131	JC 14658	Sub Maj & Hon'y Lt	KARTAR SINGH
132	JC 15252	Sub Maj & Hon'y Lt	PRITAM SINGH
133	JC 25595	Sub Maj & Hon'y Lt	SAWARAN SINGH
134	JC 13729	Sub Maj & Hon'y Lt	UJAGAR SINGH
135	JC 39953	Sub & Hon'y Lt	CHANAN SINGH
136	JC 35994	Sub & Hon'y Lt	DAULAT SINGH
137	JC 35991	Sub & Hon'y Lt	JAGTAR SINGH
138	JC 39164	Sub & Hon'y Lt	JASWANT SINGH
139	JC 37593	Sub & Hon'y Lt	KIRTAN SINGH
140	JC 35321	Sub & Hon'y Lt	MOHINDER SINGH
141	JC 35874	Sub & Hon'y Lt	SALWANI SINGH

THE SIKH LIGHT INFANTRY

142	JC 27703L	Sub Maj & Hon'y Lt	GURNAM SINGH
143	JC 29463 X	Sub Maj & Hon'y Lt	SANTA SINGH

THE DOGRA REGIMENT

144	JC 17468	Sub Maj & Hon'y Lt	BIKRAM SINGH
145	JC 20255	Sub Maj & Hon'y Lt	DUMNU RAM
146	JC 21352	Sub Maj & Hon'y Lt	GIAN SINGH
147	JC 12120	Sub Maj & Hon'y Lt	HAMANCHAL SINGH

148	JC 18543	Sub Maj & Hony Lt	JAISHI RAM
149	JC 12072	Sub Maj & Hony Lt	KANSHI RAM
150	JC 22902	Sub Maj & Hony Lt	PRABHU RAM
151	JC 12693	Sub Maj & Hony Lt	PREM SINGH
152	JC 20639	Sub Maj & Hony Lt	RUGH NATH
153	JC 16720	Sub Maj & Hony Lt	TALAB SINGH
154	JC 34769	Sub & Hony Lt	BIDHI CHAND
155	JC 35496	Sub & Hony Lt	DES RAJ
156	JC 46255	Sub & Hony Lt	PARAS RAM
157	JC 34620	Sub & Hony Lt	PREM SINGH
158	JC 39153	Sub & Hony Lt	PREM SINGH
159	JC 39490	Sub & Hony Lt	SARWAN SINGH
160	JC 39139	Sub & Hony Lt	SHANKAR SINGH
161	JC 39491	Sub & Hony Lt	THAKAR DASS
162	JC 38560	Sub & Hony Lt	TIRATH RAM

THE GARHWAL RIFLES

163	JC 44560	Sub & Hony Lt	DEWAN SINGH RAWAT
164	JC 39177	Sub & Hony Lt	JABAR SINGH NEGI
165	JC 44855	Sub & Hony Lt	SUDAN SINGH BUTOLA

THE KUMAON REGIMENT

166	JC 31432	Sub Maj & Hony Lt	AMAR SINGH
167	JC 31434	Sub Maj & Hony Lt	DALIP SINGH
168	JC 7887	Sub Maj & Hony Lt	RAM SINGH
169	JC 18189	Sub & Hony Lt	LAYAK SINGH
170	JC 37578	Sub & Hony Lt	PHANENDRA CHANDRA
171	JC 33228	Sub & Hony Lt	RAJENDRA SINGH

THE ASSAM REGIMENT

172	JC 12456	Sub Maj & Hony Lt	BHARAT CHANDRA ROY
173	JC 17698	Sub Maj & Hony Lt	JABHUNGA
174	JC 12459	Sub Maj & Hony Lt	KONOK CHANDRA GOGOI
175	JC 32313	Sub & Hony Lt	THANSEIA LUSHAI

THE BIHAR REGIMENT

176	JC 25545	Sub Maj & Hony Lt	JOSEPH TOPPO
177	JC 13621	Sub Maj & Hony Lt	RAM BHAROSHA SINGH

THE MAHAR REGIMENT

178	JC 24784	Sub Maj & Hony Lt	BAKHTAWAR SINGH NEGI
179	JC 14142	Sub Maj & Hony Lt	MALUK SINGH
180	JC 11519	Sub Maj & Hony Lt	SURAT SINGH
181	JC 21717	Sub Maj & Hony Lt	ZILE SINGH

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

182	JC 19852	Sub Maj & Hony Lt	BRIJ LAL
183	JC 16681	Sub Maj & Hony Lt	RAM KRISHAN
184	JC 14421	Sub Maj & Hony Lt	RAM SARAN
185	JC 9443	Sub Maj & Hony Lt	RAM SINGH
186	JC 50994	Sub & Hony Lt	BALWAN SINGH
187	JC 41739	Sub & Hony Lt	BHARAT SINGH
188	JC 43665	Sub & Hony Lt	DAULAT RAM
189	JC 40471	Sub & Hony Lt	DHUNDA SINGH
190	JC 40856	Sub & Hony Lt	ISHAR DASS
191	JC 15763	Sub & Hony Lt	KASIM ALI
192	JC 34397	Sub & Hony Lt	KESRI SINGH
193	JC 33606	Sub & Hony Lt	PADAMDEV SINGH
194	JC 39123	Sub & Hony Lt	PITAMBER SINGH
195	JC 32330	Sub & Hony Lt	PURAN SINGH
196	JC 35940	Sub & Hony Lt	SEWA SINGH

1 GORKHA RIFLES

197	JC 33961	Sub Maj & Hony Lt	CHAMPIHU THAPA
-----	----------	-------------------	----------------

3 GORKHA RIFLES

198	JC 19082	Sub Maj & Hony Lt	ASU GURUNG
-----	----------	-------------------	------------

5 GORKHA RIFLES

199	JC 36088	Sub & Maj Hony Lt	BALBAHADUR THAPA
200	JC 35826	Sub & Maj Hony Lt	TEIBAHADUR GURUNG
201	JC 51144	Sub & Hony Lt	DALBAHADUR THAPA
202	JC 41312	Sub & Hony Lt	LALBAHADUR PUN, Vr C

8 GORKHA RIFLES

203	JC 48976	Sub Maj & Hony Lt	ISHWARSING THAPA
-----	----------	-------------------	------------------

11 GORKHA RIFLES

204	JC 28198	Sub Maj & Hony Lt	MEMBAHADUR LIMBU
-----	----------	-------------------	------------------

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

205	JC 32158	Sub Maj Hony Lt	DEO KRISHNA SINGH
206	JC 43095	Sub Maj & Hony Lt	G BALASUBRAMANIAM
207	JC 32171	Sub Maj & Hony Lt	K SUBBIAH
208	JC 18983	Sub Maj & Hony Lt	K SUKUMARAN NAIR
209	JC 42776	Sub Maj & Hony Lt	RAM BAHADUR SHARMA
210	JC 42780	Sub Maj & Hony Lt	SOHAN LAI L
211	JC 43096	Sub & Maj Hony Lt	THAKAR DASS
212	JC 26883	Sub & Hony Lt	BISHAMBER DAYAL
213	JC 50628	Sub & Hony Lt	CHANDAR BHAN
214	JC 21982	Sub & Hony Lt	CHANDRA DEO
			CHOWDHARY
215	JC 51533	Sub Hony Lt	DAL SINGH BOPARAI
216	JC 52450	Sub Hony Lt	ANDHARA SINGH

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

217	JC 17733	Ris & Hony Lt	LAL SINGH
-----	----------	---------------	-----------

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

218	JC 39892	Sub Maj & Hony Lt	AGASTEEN
219	JC 36964	Sub Maj & Hony Lt	BIRBAL SHARMA
220	JC 36959	Sub Maj & Hony Lt	MP RAMASAMI
221	JC 39904	Sub Maj & Hony Lt	MANKE RAM
222	JC 41782	Sub Maj & Hony Lt	N CHANDRA SEKARA NAIR
223	JC 24071	Sub Maj & Hony Lt	N KRISHNA KURUP
224	JC 39888	Sub Maj & Hony Lt	THULASI DASS
225	JC 43392	Sub & Hony Lt	AJIT SINGH
226	JC 42643	Sub & Hony Lt	ANTHONY LURDU SWAMY
227	JC 42650	Sub & Hony Lt	BHAIRO PRASAD
228	JC 42652	Sub & Hony Lt	GANGA DIN
229	JC 41872	Sub & Hony Lt	HARI DASS
230	JC 41838	Sub & Hony Lt	K KRISHNA PILLAY
231	JC 43391	Sub & Hony Lt	KIDAR NATH RAI
232	JC 45737	Sub & Hony Lt	KRISHNAN
233	JC 41839	Sub & Hony Lt	MEHAR SINGH
234	JC 43445	Sub & Hony Lt	PURAN CHAND SROHIWALL
235	JC 41841	Sub & Hony Lt	RAYAN
236	JC 43399	Sub & Hony Lt	SWAMY NATHAN

ARMY MEDICAL CORPS

237	JC 36647	Sub & Hony Lt	MOHD ALAM KHAN
-----	----------	---------------	----------------

ARMY ORDNANCE CORPS

238	JC 13439	Sub Maj & Hony Lt	PN NAIR
239	JC 17966	Sub Maj & Hony Lt	SHADI LAL
240	JC 30786	Sub Maj & Hony Lt	SHANGARA SINGH
241	JC 18926	Sub & Hony Lt	RAM SHAKAL SINGH
242	JC 18929	Sub & Hony Lt	RAJMONI
243	JC 18927	Sub & Hony Lt	SUCHA SINGH

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

244	JC 33902	Sub & Hony Lt	GURDEV SINGH
-----	----------	---------------	--------------

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

245	RV 7140	Ris Maj & Hony Lt	HANS RAJ
-----	---------	-------------------	----------

THE ARMY EDUCATION CORPS

246	JC 13652	Sub Maj & Hony Lt	INDRA BAHADUR SINGH
247	JC 13655	Sub Maj & Hony Lt	MUKHTIAR SINGH

THE INTELLIGENCE CORPS

248	JC 16521	Sub Ma & Hony Lt	JANAK SINGH RANA
249	JC 14702	Sub Mr & Hony Lt	MULTAN SINGH, SM

CORPS OF MILITARY POLICE

250	JC 16534	Sub Maj & Hony Lt	HARGOBIND SINGH KARKI
251	JC 23085	Sub Maj & Hony Lt	KARTAR SINGH
252	JC 24110	Sub Maj & Hony L	RABINDRA NARAYAN BRAHMA
253	JC 21835	Sub Maj & Hony Lt	RAM SINGH
254	JC 49352	Sub & Hony Lt	KEHAR SINGH

DEFENCE SECURITY CORPS

255	JC 52018	Sub Maj & Hony Lt	RAJA RAM PANDIAN
-----	----------	-------------------	------------------

To be Hony Lieutenants

64 CAVALRY

1	JC 34112	Ris Maj	TEJPAL SINGH
---	----------	---------	--------------

REGIMENT OF ARTILLERY

2	JC 25675	Sub Maj	BHAG SINGH
3	JC 15435	Sub Maj	BHASKAR SHINDE
4	JC 13899	Sub Maj	KIRPAL SINGH
5	JC 17296	Sub Maj	PIAREY LAL
6	JC 19968	Sub Maj	PREM KUMAR
7	JC 15415	Sub Maj	RAN SINGH
8	JC 21900	Sub Maj	VITHAL YADAORAO VANJARI

BENGAL ENGINEER GROUP

9	JC 28276	Sub Maj	A NARASIMHAN
10	JC 17176	Sub Maj	A SASTHRA VELU
11	JC 39556	Sub Maj	ABDUAL AHAD
12	JC 18359	Sub Maj	C RAMA RAO
13	JC 26497	Sub Maj	CJ OSWALD
14	JC 23329	Sub Maj	DIWAN SINGH
15	JC 34754	Sub Maj	GOPAL DATT
16	JC 24660	Sub Maj	JAI SINGH
17	JC 20758	Sub Maj	JIWAN SINGH
18	JC 18552	Sub Maj	JOGESH CHANDRA

19	JC 18361	Sub Maj	MV JOHN
20	JC 23372	Sub Maj	MOHAN SINGH
21	JC 23863	Sub Maj	N BALAKRISHNAN NAIR
22	JC 26800	Sub Maj	NF MICHAEL
23	JC 18172	Sub Maj	PRAYAG DATT
24	JC 23369	Sub Maj	RAM PRASAD
25	JC 24657	Sub Maj	ROSHAN LAL DEWRA
26	JC 26539	Sub Maj	SARDAR SINGH
27	JC 17195	Sub Maj	SHER SINGH
28	JC 26514	Sub Maj	SRI NIWAS TIWARI
29	JC 18371	Sub Maj	T VENKETA NARAYANAN
30	JC 26507	Sub Maj	V BALAKRISHNA MENON

THE MADRAS REGIMENT

31	JC 16187	Sub Maj	K DAVID
----	----------	---------	---------

THE GRENADIERS

32	JC 12138	Sub Maj	ABDUL HAMID KHAN
----	----------	---------	------------------

THE RAJPUT REGIMENT

33	JC 26107	Sub Maj	RAM SINGH
----	----------	---------	-----------

THE SIKH LIGHT INFANTRY

34	JC 16733H	Sub Maj	KISHAN SINGH
----	-----------	---------	--------------

THE GARHWAL RIFLES

35	JC 16735	Sub Maj	SARUP SINGH RAWAT
----	----------	---------	-------------------

THE MAHAR REGIMENT

36	JC 28060	Sub Maj	HARI SINGH, Vr C
----	----------	---------	------------------

9 GORKHA RIFLES

37	JC 23569	Sub Maj	BIR BIKRAM SINGH
----	----------	---------	------------------

ARMY ORDNANCE CORPS

38	JC 30825	Sub Maj	BINOY BHUSAN NAG
39	JC 17860	Sub Maj	CHAMAN LAL SHARMA
40	JC 31549	Sub Maj	GIAN CHAND
41	JC 33640	Sub Maj	LAXMIPATHI NAIDU

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

42	JC 35446	Sub Maj	GURDIAL SINGH
43	JC 35442	Sub Maj	JI NADHAN
44	JC 35452	Sub Maj	KHET SINGH RAWAT
45	JC 33828	Sub Maj	M RAJAYAN
46	JC 22873	Sub Maj	TULSI DASS

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

47	RV 7131	Ris Maj	ASCHARAJ LAL
----	---------	---------	--------------

DEFENCE SECURITY CORPS

48	40784 JC	Sub Maj	CHANAN SINGH PARMAR
49	JC 4143	Sub Maj	DARSHAN SINGH
50	JC 4129	Sub Maj	I MUKUNDA MENON
51	51441 JC	Sub Maj	KANWAR SAIN BAKSHI
52	JC 4098	Sub Maj	MANSANA NADAR
			MAHALINGAM
53	32812 JC	Sub Maj	RAM SARUP SANGWAN
54	JC 4119	Sub Maj	ROOP CHAND

To be Hony Risaldar Majors/Subedar Majors

16 CAVALRY

1 JC 42403

Ris

MT MANDANNA

18 CAVALRY

2 JC 52335

Ris

GURDIAL CHAND

19 HORSE

3 JC 25327

Ris

BIJAIPAL SINGH

64 CAVALRY

4 JC 45133

Ris

INDRAJ SINGH

67 ARMOURED REGIMENT

5 JC 44916

Ris

DHARAM SINGH

72 ARMOURED REGIMENT

6 JC 56024

Ris

KARAM CHAND

73 ARMOURED REGIMENT

7 JC 40650

Ris

PAHLAD SINGH

8 JC 44932

Ris

SHAM SINGH

81 ARMOURED REGIMENT

9 JC 36169

Ris

RAM MEHAR

REGIMENT OF ARTILLERY

10 JC 45277

Sub

AMOLAK SINGH

11 JC 40295

Sub

ANIL PRASAD

CHAKRABORTY

12 JC 45325

Sub

B APPA RAO

13 JC 34025

Sub

BALBIR SINGH

14 JC 37896

Sub

BALWANT SINGH

15 JC 26903

Sub

BALWANT SINGH

16 JC 45531

Sub

CH SATHYAM

17 JC 45359

Sub

CHUNI LAL YADAVA

18 JC 34326

Sub

DALIP SINGH

19 JC 45354

Sub

DULI CHAND

20 JC 45551

Sub

FAQIR SINGH

21 JC 31031

Sub

GANGA RAM

22 JC 40269

Sub

GHANSHAM

23 JC 45396

Sub

GURDEV SINGH

24 JC 34661

Sub

GURMIT SINGH

25 JC 33319

Sub

HARJIT SINGH

26 JC 30339

Sub

HAR LAL

27 JC 40306

Sub

HARI RAM

28 JC 40218

Sub

ISHAR SINGH

29 JC 25828

Sub

JAGIR SINGH

30 JC 45377

Sub

JATINDER NATH

31 JC 32196

Sub

KARAM SINGH

32 JC 40275

Sub

KARAPPAN

33 JC 40267

Sub

KARNAIL SINGH

34 JC 49937

Sub

KUTTI SANKARAN NAIR

35 JC 29038

Sub

LACHHI RAM

36 JC 17314

Sub

LAJA RAM

37 JC 45446

Sub

LALL SINGH

38 JC 25805

Sub

MAKHAN SINGH

39 JC 11330

Sub

MOHINDER SINGH

40 JC 1306

Sub

PHUL CHAND

41	JC 45367	Sub	PIRTHVI RAI
42	JC 34660	Sub	RAGHBIR SINGH
43	JC 49910	Sub	RAMCHANDRA TORVE
44	JC 322 3	Sub	RAM JARAIN
45	JC 33 05	Sub	RANJIT SINGH
46	JC 332 0	Sub	RAWIL SINGH
47	JC 40256	Sub	SA SATHAR
48	JC 41039	Sub	S CHOCKALINGAM
49	JC 32836	Sub	SANTOKH SINGH
50	JC 11181	Sub	SARBAN SINGH
51	JC 48701	Sub	SHABD SAGAR SINGH
52	JC 33418	Sub	SHANKAR SINGH
53	JC 45526	Sub	SHIVAJI BHONSLE
54	JC 32819	Sub	SUBBRAYALU
55	JC 40241	Sub	SUNDAR RAO
56	JC 45564	Sub	TARA CHAND
57	JC 26932	Sub	VO JOHN
58	JC 49388	Sub	VENKATA CHALAPATHY

MADRAS ENGINEER GROUP

59	JC 39236	Sub	CHINNAPPAN
60	JC 41301	Sub	KM VELAYUDAN NAIR
61	JC 30593	Sub	N MOHANRAJ
62	JC 41248	Sub	VINAYAGAM

BENGAL ENGINEER GROUP

63	JC 42162	Sub	ATMA SINGH
64	JC 25140	Sub	BHAWANI DATT
65	JC 21165	Sub	GURDEV SINGH
66	JC 35781	Sub	HIRA BALLABH
67	JC 29466	Sub	JAGDISH
68	JC 34211	Sub	JOGINDR SINGH
69	JC 31310	Sub	KARTAR SINGH
70	JC 34206	Sub	MANOJLAL SINGH NEGI
71	JC 34204	Sub	RAGHIBAR DATT
72	JC 26109	Sub	RAGHBIR SINGH

BOMBAY ENGINEER GROUP

73	JC 34486	Sub	DATPATRAYA CHAVAN
74	JC 33688	Sub	KARTAR SINGH
75	JC 33706	Sub	HARSAI SINGH
76	JC 43840	Sub	NIRMALENDU MAITRA

CORPS OF SIGNALS

77	JC 34813	Sub	AGIA RAM
78	JC 40756	Sub	AMAR SINGH
79	JC 40811	Sub	ASHUTOSH CHOWDHURY
80	JC 44762	Sub	BAJWANT SINGH
81	JC 34797	Sub	BAWA SINGH
82	JC 37926	Sub	CHARANJIT RAJ
83	JC 36814	Sub	GUMAN SINGH
84	JC 31038	Sub	GURCHARAN SINGH
85	JC 40822	Sub	HARBANS LAL
86	JC 37271	Sub	HARCHARAN SINGH
87	JC 32083	Sub	MP SREEDHARAN NAIR
88	JC 30238	Sub	MR SANKARAN NAIR
89	JC 30227	Sub	MEWA SINGH
90	JC 30265	Sub	MOHINDER SINGH
91	JC 52850	Sub	MUKHTAR SINGH
92	JC 36785	Sub	OOMMAN VARGHESE
93	JC 31298	Sub	P KARUPPA SAMI
94	JC 34804	Sub	P KUMARAN
95	JC 44755	Sub	PREM SINGH
96	JC 42815	Sub	PRITAM SINGH
97	JC 31294	Sub	RUP SINGH
98	JC 42060	Sub	SARDUL SINGH
99	JC 30232	Sub	SHUBH CHAND

100	JC 35563	Sub	SITINDR KUMAR PRABHAKAR
101	JC 31293	Sub	SOMASEKHARAN PILLAI K
102	JC 30257	Sub	TEJA SINGH
103	JC 44760	Sub	TEK CHAND SINGH
104	JC 44421	Sub	UJAGAR SINGH
105	JC 49725	Sub	VED PARKASH

BRIGADE OF THE GUARDS

106	JC 35578	Sub	CHARANJIT LAL
107	JC 41682	Sub	MEGH NATH
108	JC 54641	Sub	PIARE LAL

THE PUNJAB REGIMENT

109	JC 26161	Sub	BIDHI CHAND
110	JC 50330	Sub	HAZARA SINGH
111	JC 44381	Sub	JAGRUP SINGH
112	JC 39929	Sub	MAJOR SINGH
113	JC 10562	Sub	PRABHU RAM DOGRA
114	JC 47589	Sub	RANJIT SINGH TOOR
115	JC 55532	Sub	SHADI SINGH
116	JC 49473	Sub	SURAT SINGH

THE MADRAS REGIMENT

117	JC 50209	Sub	ME MAI HEW
-----	----------	-----	------------

THE GRENADIERS

118	JC 17202	Sub	GAJAN SINGH
119	JC 53961	Sub	JAGIR SINGH
120	JC 27706	Sub	NOOR MOHAMAD KHAN

THE RAJPUTANA RIFLES

121	JC 29265	Sub	PARBHU DAYAL SHARMA
122	JC 38104	Sub	RATNA RAM
123	JC 35970	Sub	SHRFE RAM

THE RAJPUT REGIMENT

124	JC 58277	Sub	BHAN PARTAP SINGH
125	JC 37575	Sub	DAIP SINGH
126	JC 58009	Sub	GIAN SINGH
127	JC 47700	Sub	LAKHPAL SINGH
128	JC 13054	Sub	NIRANJAN PROSAD DAS
129	JC 55270	Sub	PRIM KUMAR DATTA
130	JC 42331	Sub	RAM NATH SINGH
131	JC 37536	Sub	SHIV KARAN

THE JAT REGIMENT

132	JC 50718	Sub	BANI SINGH
133	JC 35063	Sub	HANS RAM
134	JC 34004	Sub	KIDAR SINGH
135	JC 37776	Sub	NIHAI SINGH
136	JC 53271	Sub	RUP SINGH
137	JC 35662	Sub	SURAJ MAL

THE SIKH REGIMENT

138	JC 33471	Sub	AJIT SINGH
139	JC 48052	Sub	JWIND SINGH

THE DOGRA REGIMENT

140	JC 50021	Sub	BASANT RAM
141	JC 49570	Sub	BISHAN DASS
142	JC 44729	Sub	GIAN CHAND

143	JC 46634	Sub	HIRA LALL
144	JC 50567	Sub	JASWANT SINGH
145	JC 50876	Sub	KASTURI LAL
146	JC 50022	Sub	PUNJAB SINGH
147	JC 50334	Sub	RAM LAL
148	JC 44849	Sub	SUKH RAM

THE GARHWAL RIFLES

149	JC 53481	Sub	BACHAN SINGH GUSAIN
150	JC 36197	Sub	DHUM SINGH BISHT

THE ASSAM REGIMENT

151	JC 45146	Sub	ROBINDRA SINGH
152	JC 35703	Sub	ROMAWIA LUSHAI
153	JC 35708	Sub	ZATHANGCHHINGA LUSHAI

THE BIHAR REGIMENT

154	JC 39835	Sub	RAJ MAHAL RAI
-----	----------	-----	---------------

THE MAHAR REGIMENT

155	JC 39072	Sub	CHUNI LAL
156	JC 29462	Sub	EKNATH PAGARE
157	JC 37816	Sub	GURCHARAN SINGH
158	JC 33476	Sub	GURDIAL SINGH

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

159	JC 51181	Sub	RAM SHARAN
160	JC 42983	Sub	SADHU SINGH

THE LADAKH SCOUTS

161	JC 52470	Sub	KRISHAN NARAIN KAUL
-----	----------	-----	---------------------

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

162	JC (M) 92	Sub	HARI KRISHAN
163	JC (M) 205	Sub	KEAR SINGH, SM
164	JC (M) 68	Sub	MOHD AMIN SHAH
165	JC (M) 146	Sub	PRITHVI NATH KAUL

1 GORKHA RIFLES

166	JC 37405	Sub	BASU THAPA
-----	----------	-----	------------

3 GORKHA RIFLES

167	JC 45706	Sub	GAJ BAHADUR THAPA
-----	----------	-----	-------------------

11 GORKHA RIFLES

168	JC 13161	Sub	SHRI PARSAD SHARMA
-----	----------	-----	--------------------

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

169	JC 48654	Sub	AMAR KANTI NAG
170	JC 48655	Sub	AMAR SINGH
171	JC 51264	Sub	ARUN CHANDRA SINHA
172	JC 51552	Sub	BALWANT SINGH
73	JC 51539	Sub	BHARPUR SINGH

174	JC 48672	Sub	BIRBAL SINGH
175	JC 49199	Sub	CA BHUVANA DASS
176	JC 48671	Sub	CP PADMANABHAN NAIR
177	JC 51538	Sub	DAYAL SINGH
178	JC 49028	Sub	DHARAM PAL
179	JC 52442	Sub	DHIREN DUTTA
180	JC 52457	Sub	DIBAKAR MUKHERJEE
181	JC 52443	Sub	DURGAMOY MUKHERJEE
182	JC 30091	Sub	E NARAYANAN NAIR
183	JC 53262	Sub	GANESH PANDEY
184	JC 48109	Sub	GIAN CHAND SHARMA
185	JC 52449	Sub	GURBUX SINGH
186	JC 52464	Sub	GURCHARAN SINGH
187	JC 40530	Sub	JOGINDER SINGH
188	JC 51545	Sub	KALIDAS BHATTACHARJEE
189	JC 50220	Sub	KANWAL SINGH
190	JC 51379	Sub	KEWAL KRISHAN
191	JC 49198	Sub	KISHAN SINGH
192	JC 48670	Sub	LAKSHMI NARAIN
193	JC 52446	Sub	MANOHAR LAL SHARMA
194	JC 40529	Sub	MOHAN LALL
			MOHINDER SINGH
195	JC 51550	Sub	AHLUWALIA
196	JC 51541	Sub	MOHINDER SINGH
			BHATTI
197	JC 51513	Sub	NIHAR RANJAN
			CHAKRABORTY
198	JC 51536	Sub	P JEYA RAJ DEVADASAN
199	JC 21975	Sub	PK SANKUNNI NAIR
200	JC 49033	Sub	PM VERGHESE
201	JC 49682	Sub	PHANI BHUSAN PAL
202	JC 49027	Sub	PIRTHI RAJ
203	JC 50627	Sub	R SUBRAMANIYA IYER
204	JC 49200	Sub	RAGHIBIR SINGH
205	JC 52445	Sub	RAJINDER SINGH GILL
206	JC 48108	Sub	RAJPAL SINGH
207	JC 52441	Sub	RAM BACHAN TFWARI
208	JC 53113	Sub	RFNU PADA DASS
209	JC 51543	Sub	SAHADEB CHANDRA
			BHOWMICK
210	JC 49684	Sub	SAT PAL
211	JC 50624	Sub	SHANGARA SINGH
212	JC 49031	Sub	SITA RAM
213	JC 49032	Sub	SURAJ BANSH SINGH
214	JC 51552	Sub	UJAGAR SINGH

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

215	JC 43506	Sub	BIKRAM SINGH
216	JC 43507	Sub	GIR RAJ SINGH
217	JC 43512	Sub	HARI RAM
218	JC 43439	Sub	JYYANAR
219	JC 42663	Sub	KISHAN LAL
220	JC 43402	Sub	KONDA CHINGAL
			VAROYAM

ARMY MEDICAL CORPS

221	JC 40501	Sub	HIRDAYA NAND
222	JC 40510	Sub	KIRPAL SINGH
223	JC 40511	Sub	PURAN LAL

ARMY ORDNANCE CORPS

224	JC 56865	Sub	AMI CHAND
225	JC 33634	Sub	ARUN KUMAR SEN
			SHARMA
226	JC 57165	Sub	AVTAR SINGH
227	JC 56846	Sub	AUTAR SINGH

228	JC 56804	Sub	BAL KRISHAN
229	JC 56884	Sub	BALWANT SINGH
230	JC 56880	Sub	BANARSI DASS
231	JC 56809	Sub	BIHAG SINGH
232	JC 25212	Sub	BIPUL RANJAN ROY
233	JC 34638	Sub	CHAINCHAL SINGH
234	JC 56847	Sub	CHANDER BHAN MEHTA
235	JC 57145	Sub	CHANDRADEO RAI
236	JC 37050	Sub	EM RAGHAVA KURUP
237	JC 56832	Sub	GOVIND RAM VIG
238	JC 41205	Sub	HAARJIT SINGH BUDWAL
239	JC 57153	Sub	JAGAT SINGH
240	JC 56811	Sub	JAGDISH CHANDER
241	JC 56826	Sub	JOGA SINGH
242	JC 56863	Sub	KK GOVINDAN ADIYODI
243	JC 37071	Sub	K KARUNAKARAN NAIR
244	JC 57161	Sub	KANHIYA LAL
245	JC 55344	Sub	KANSHI RAM
246	JC 57396	Sub	KARAM SINGH
247	JC 56813	Sub	KIRPA SINGH
248	JC 56847	Sub	MAN MOHAN PRASHAD SRIVASTWA
249	JC 57767	Sub	MANOHAR SINGH RAWAT
250	JC 58583	Sub	MATHURA DUTT
251	JC 56833	Sub	MOHD WAHIDUL HASSAN
252	JC 57162	Sub	MUKHTAR SINGH
253	JC 239 0	Sub	PK GAWHANKAR
254	JC 41200	Sub	PADMANABHAN
255	JC 56825	Sub	PIARA SINGH
256	JC 57173	Sub	PURAN SINGH SANDHAR
257	JC 52198	Sub	R NARAYANAN NAIR
258	JC 56803	Sub	RAGHUBIR SINGH YADAV
259	JC 57399	Sub	RAM LAL SINGH RANA
260	JC 41169	Sub	RAM PARSHAD
261	JC 56888	Sub	RISAL SINGH
262	JC 56829	Sub	S NARAYANAN
263	JC 56828	Sub	SADANAND PANDE
264	JC 56852	Sub	SANTOSH CHATTARJI
265	JC 18925	Sub	SIYA RAM
266	JC 56817	Sub	SUCHA SINGH
267	JC 57160	Sub	TK ANTHONY
268	JC 57156	Sub	VENUGOPALAN
269	JC 56823	Sub	WISHWA NATH BAKSHI

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

270	JC 38670	Sub	KELASH KUMAR
271	JC 54296	Sub	NC BALAKRISHNA PILLAI
272	JC 40032	Sub	PARTAP SINGH

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

273	RV 7188	RIS	MOHD BASHIR
-----	---------	-----	-------------

THE ARMY EDUCATION CORPS

274	JC 39479	Sub	JAI CHAND
275	JC 39474	Sub	JASWANT SINGH
276	JC 40908	Sub	MAHABIR SINGH
277	JC 39475	Sub	MAHESHWAR BUX SINGH
278	JC 40903	Sub	NARAIN SINGH GURADI NEGI
279	JC 40902	Sub	PP JANARDANAN
280	JC 22135	Sub	RAMKRISHNA POWAR

THE INTELLIGENCE CORPS

281	JC 32461	Sub	AJIT KUMAR CHAKRABORTY
-----	----------	-----	---------------------------

CORPS OF MILITARY POLICE

282 JC 34284 Sub ISHWAR SINGH

To be Hony Resaldars/Subedars

REGIMENT OF ARTILLERY

1 JC 53324 Nb Sub ANNA GHADGE
2 JC 74763 Nb Sub BISHNU DATT
3 JC 72053 Nb Sub PIAR SINGH
4 JC 73606 Nb Sub RAM AUTAR SINGH
YADAWA

BENGAL ENGINEER GROUP

5 JC 36229 Nb Sub SHANKAR LANGOTE

THE PUNJAB REGIMENT

6 JC 64005 Nb Sub TULSI RAM

THE ASSAM RGIMENT

7 JC 51719 Nb Sub KRIPA SINDHU
BHATTACHARJEE

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

8 JC 65061 Nb Sub PURAN SINGH

5 GORKHA RIFLES

9 JC 76066 Nb Sub SHYAMSINGH THAPA

8 GORKHA RIFLES

10 JC 70062 Nb Sub PRITAMSINGH KARKI

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

11 JC 75753 Nb Sub AMBIKA PANDEY

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

12 JC 65238 Nb Sub D WILLIAM
13 JC 77267 Nb Sub R KRISHNA RAO

CORPS OF MILITARY POLICE

14 JC 74744 Nb Sub PARS RAM
15 JC 72368 Nb Sub PAULO S TOPNO

सं० 12-ई, दिनांक 9 अगस्त, 1977.—राष्ट्रपति सहर्षे स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त 1977) के अवसर पर निम्नलिखित एन सीओज को उनके अवकाश ग्रहण करने पर सेना विनियमावली 1962 के पैरा 181 के आधीन अवैतनिक नायब रिजालदार/नायब सूबेदार का पद प्रदान करने है:—

7 के बलरी

1 1023282 दफादार नरसा राम

1 7 हास

2 1024405 दफादार जोर सिंह

9 हास

3	1024009	दकादार	अमय राम
---	---------	--------	---------

18 केवलरी

4	1022727	दकादार	हंशिथार सिंह
---	---------	--------	--------------

4 हास

5	1022749	दकादार	गुमान सिंह
---	---------	--------	------------

20 लान्सर्स

6	3339822	दकादार	गुरुदयाल सिंह
---	---------	--------	---------------

63 केवलरी

7	1022786	दकादार	ब्रिशन सिंह
---	---------	--------	-------------

65 आर्मंड रेजिमेंट

8	1096889	दकादार	देस राज
---	---------	--------	---------

66 आर्मंड रेजिमेंट

9	1023144	दकादार	मूला राम
---	---------	--------	----------

70 आर्मंड रेजिमेंट

10	1024668	दकादार	हनुमान सिंह
----	---------	--------	-------------

11	1022615	दकादार	कुशन खाल
----	---------	--------	----------

आर्मंड कोर

12	1025231	दकादार	गोपाला कृष्णा विठ्ठल च
----	---------	--------	------------------------

रेजिमेंट आफ आर्टिलरी

13	1143036	हवलदार	ए कैरियप्पा
14	1143137	हवलदार	अमरोक सिंह
15	1142120	हवलदार	अनंत प्रसाद
16	1143929	हवलदार	बालाकृष्णा पिल्ले के के
17	1143339	हवलदार	बाल मुकुन्द शर्मा
18	1143117	हवलदार	भगवाना
19	1143064	हवलदार	भगवान भोंसले
20	1143147	हवलदार	भगवान सिंह
21	1143858	हवलदार	भानुदास यादव
22	1143432	हवलदार	बिरेन्द्र चन्द्र भौमिक
23	9202085	हवलदार	ब्रिज लाल
24	1143798	हवलदार	चरजीव
25	1153123	हवलदार	डी अन्टानी

26	1143060	हवलदार	दीना नाथ
27	1142267	हवलदार	गोविन्दा राजन
28	1141269	हवलदार	हाकिम
29	1143194	हवलदार	हरबन्स सिंह
30	1144871	हवलदार	हरमाया
31	1143241	हवलदार	ईशर सिंह
32	1164867	हवलदार	जंग सिंह मान
33	1143403	हवलदार	झप्पि प्रसाद
34	1159117	हवलदार	जोय ए एम
35	1143101	हवलदार	के दामोदरन
36	1144098	हवलदार	के कोशी
37	1143907	हवलदार	के ए अद्रसेकरन पिल्ले
38	1143549	हवलदार	के आइ सदाशिवन
39	1143394	हवलदार	कलापा गौरोजी
40	1143635	हवलदार	कलवन्त सिंह
41	1142861	हवलदार	करन सिंह
42	1149994	हवलदार	काशिनाथ सावन्त
43	1143022	हवलदार	केसर सिंह
44	1170770	हवलदार	क्यचरला महालक्ष्मिया, वीर चक्र
45	1143166	हवलदार	एल पी परमानन्दम
46	1141528	हवलदार	लाबल दुरयोधन
47	1141898	हवलदार	लेख लाल
48	1143252	हवलदार	एम देव राज
49	1143217	हवलदार	एम मदय्या
50	1143395	हवलदार	एम वरदा रेड्डी
51	1143323	हवलदार	एम के कुमारन
52	1162326	हवलदार	मन्जानाथ
53	1142061	हवलदार	(मकडूम)
54	1142708	हवलदार	मेहर चन्द
55	1150517	हवलदार	मेहर चन्द
56	1162558	हवलदार	मोहम्मद असमतुल्ला
57	1143596	हवलदार	मुकट सिंह
58	1143690	हवलदार	मूला सिंह
59	1162422	हवलदार	पी बालाकृष्ण पिल्ले
60	1143029	हवलदार	पी डेविड लयूक
61	1143227	हवलदार	प्यारा सिंह
62	1142664	हवलदार	आर रामाचन्द्रन
63	1143452	हवलदार	रघुवीर सिंह
64	1142683	हवलदार	राजा राम
65	1163264	हवलदार	रामगोपाल मिश्रा

66	9202172	हवलदार	राम प्रकाश
67	1153401	हवलदार	राम फेर यादव
68	1143267	हवलदार	रतन सिंह
69	1141892	हवलदार	रोशन लाल
70	1143628	हवलदार	एस एस कन्डास्वामी
71	1143405	हवलदार	एस सीता रमन
72	1143638	हवलदार	एस सूसाइ
73	7531291	हवलदार	साका राम
74	1143261	हवलदार	सरूप सिंह
75	1142728	हवलदार	शैक मस्तान
76	9201966	हवलदार	शयो चरन
77	1142130	हवलदार	शकुरजल्लाह
78	1143440	हवलदार	श्यामा पडा घोष
79	1141884	हवलदार	सिदीक
80	1141886	हवलदार	सीता राम
81	1144377	हवलदार	सोहन लाल
82	1141855	हवलदार	मुखलाल
83	9202122	हवलदार	सूरज नारायन सिंह
84	1143956	हवलदार	सैयद यूसफ
85	1143109	हवलदार	तारा चन्द
86	1143243	हवलदार	तेज कुमार
87	1144082	हवलदार	वी अरसन
88	1141812	हवलदार	एक्सेवियर
89	1143247	हवलदार	वाई एन्थानी स्वामी
90	1142684	हवलदार	जोरावर सिंह

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

91	1311926	हवलदार	सम्बान
----	---------	--------	--------

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

92	1420272	हवलदार	जैयसिंह रावत
93	2942428	हवलदार	कामता सिंह
94	1310037	हवलदार	एम एस अशूथन
95	1421819	हवलदार	मेजर सिंह
96	1409901	हवलदार	पिताम्बर दत्त

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

97	1563006	हवलदार	भीम सेन
98	1514354	हवलदार	जार्ज पी टी
99	1511179	हवलदार	गुरनाम सिंह

100	1563459	हवलदार	जगदीश सिंह
101	1511231	हवलदार	जरनैल सिंह
102	1511384	हवलदार	जीत सिंह
103	1511148	हवलदार	मस्तान सिंह
104	1562492	हवलदार	नामदेव जाधव
105	1516222	हवलदार	नसीब सिंह
106	1515019	हवलदार	निर्मल सिंह
107	1511192	हवलदार	निशान सिंह
108	1511255	हवलदार	सरवन सिंह
109	1562475	हवलदार	शांताराम सूरव
110	1511204	हवलदार	वामन गोविन्द सावंत

फोर आफ सिगनल्स

111	6269033	हवलदार	बालाराम बसक
112	6269101	हवलदार	बल भद्रा प्रसाद
113	6266835	हवलदार	बालेश्वर राम
114	6263581	हवलदार	चन्द्र शेखरन् एम
115	6269917	हवलदार	खरण सिंह ननुग्रान
116	6269949	हवलदार	देस राज
117	6281799	हवलदार	जी मोहानन् नाथर
118	6263584	हवलदार	गन्दर्भ सिंह
119	6269052	हवलदार	हरी दत्त भट्ट
120	6268999	हवलदार	होशियार सिंह
121	6269368	हवलदार	जगत बन्धू भौमिक
122	6268847	हवलदार	जगदीश प्रसाद पन्त
123	6268970	हवलदार	कल्याण सिंह
124	6276426	हवलदार	कोलाप्पा पिल्ले टी
125	6266265	हवलदार	कृशन चन्द
126	6270496	हवलदार	मदन लाल
127	1024622	हवलदार	मुख्तार सिंह
128	6269115	हवलदार	पन्कज भान
129	6269239	हवलदार	सोहन लाल
130	6268861	हवलदार	सूरत सिंह
131	6267656	हवलदार	टी एन अर्जुनन
132	6268731	हवलदार	यशवन्त दरेकर

ब्रिगेड आफ दी गार्ड्स

133	13650764	हवलदार	अमे राम
134	2840879	हवलदार	देव राज
135	3343877	हवलदार	काबल सिंह
136	2838677	हवलदार	महीबुल खान
137	5736337	हवलदार	मतिबहादुर थापा

बी पीरागूट रेजिमेंट

138	3947295	हवलदार	अछर राम
139	3343637	हवलदार	बलकार सिंह
140	2439464	हवलदार	दर्शन लाल शर्मा
141	2944389	हवलदार	हरना सिंह
142	5233896	हवलदार	ललित मान पुन
143	2434495	हवलदार	प्रेम सिंह
144	2843707	हवलदार	रतन सिंह
145	3946392	हवलदार	रती राम
146	3946388	हवलदार	ठाकुर दाम

बी पंजाब रेजिमेंट

147	2439707	हवलदार	बवितर राम
148	2439991	हवलदार	बन्ता सिंह
149	2439847	हवलदार	भूप सिंह
150	3341263	हवलदार	दीना नाथ
151	2440049	हवलदार	काली दास
152	2439753	हवलदार	करतार सिंह
153	2440140	हवलदार	निरमल सिंह
154	2439764	हवलदार	पंजाब सिंह
155	2440043	हवलदार	रूप लाल
156	2439770	हवलदार	शाम सिंह
157	2440525	हवलदार	सोधी राम

बी मद्रास रेजिमेंट

158	2543779	हवलदार	सी बालन
159	1023174	हवलदार	हरचन्द
160	2543726	हवलदार	टी "एन" चन्द्रशेखरन नंबियार
161	2543738	हवलदार	यू श्रीरामलू

बी प्रजेडियरस

162	2640560	हवलदार	काबल दास
163	2640358	हवलदार	रिछपाल सिंह

बी मराठा लाइट इन्फेन्ट्री

164	2740297	हवलदार	अनन्त देशमुख
165	2740595	हवलदार	गोविन्द खरडे
166	2742108	हवलदार	इगन्धर काकतकर
167	2740268	हवलदार	किशन सावंत
168	2740396	हवलदार	रोशन लाल
169	2740269	हवलदार	शंकर चव्हाण

बी राजपुताना राइफल्स

170	2843688	हवलदार	अमरपाल सिंह
171	2843911	हवलदार	फकीरा सिंह
172	2843520	हवलदार	हरदयाल
173	1419766	हवलदार	जगमाल सिंह
174	2847015	हवलदार	मदन सिंह
175	2848898	हवलदार	ओम प्रकाश
176	2844901	हवलदार	राम कंवर सिंह
177	2846388	हवलदार	रोहतान सिंह
178	2843886	हवलदार	ररा राम
179	2843646	हवलदार	टिकम सिंह

बी राजपूत रेजिमेंट

180	2948188	हवलदार	चौहाना प्रसाद पांडे
-----	---------	--------	---------------------

बी जाट रेजिमेंट

181	3140888	हवलदार	आसा राम
182	3141039	हवलदार	बलबीर सिंह
183	3140689	हवलदार	बालमुकन्द वर्मा
184	3140668	हवलदार	गोपी
185	3140885	हवलदार	जगबीर सिंह
186	3140719	हवलदार	जुग लाल
187	3140491	हवलदार	रघुनाथ
188	3140718	हवलदार	सजान सिंह

बी सिख रेजिमेंट

189	3344117	हवलदार	अजीत सिंह
190	3344075	हवलदार	अंत सिंह
191	3344203	हवलदार	गुरबक्श सिंह
192	3344009	हवलदार	गुरचरन सिंह
193	3344435	हवलदार	गुरचरन सिंह
194	3344299	हवलदार	गुरदेव सिंह
195	3343938	हवलदार	हरबन्स सिंह
196	3344221	हवलदार	जरनैल सिंह
197	3343642	हवलदार	लाभ सिंह
198	3343633	हवलदार	मुख्त्यार सिंह
199	3343876	हवलदार	मुख्त्यार सिंह
200	3344081	हवलदार	निर्मल सिंह
201	3344313	हवलदार	सरजीत सिंह
202	3344332	हवलदार	सरवन सिंह
203	3344261	हवलदार	तेजा सिंह

बी सिख लाइट इन्फैंट्री

204	443617०एफ	हवलदार	चानन सिंह
205	4436355एफ	हवलदार	दर्शन सिंह
206	4436412वाई	हवलदार	करम सिंह
207	443630४एन	हवलदार	करतार सिंह
208	4437169वाई	हवलदार	प्रकाश सिंह
209	443620४के	हवलदार	रामसिंह

बी डोगरा रेजिमेंट

210	3946244	हवलदार	गोरख सिंह समेतिया
211	3946630	हवलदार	खजूर सिंह
212	3946734	हवलदार	शकर दास

बी गढ़वाल राइफल

213	4036099	हवलदार	भरत सिंह नेगी
214	4036121	हवलदार	बिरेन्द्र सिंह रावत
215	4037777	हवलदार	गबर सिंह
216	4036085	हवलदार	गबर सिंह रावत
217	4035745	हवलदार	धूरू
218	4036222	हवलदार	गोबिन्द सिंह
219	4036244	हवलदार	करण सिंह नेगी
220	4036136	हवलदार	मनबहार सिंह कन्डारी
221	4036115	हवलदार	प्रताप सिंह
222	4037192	हवलदार	प्रेम सिंह रावत

बी कुमायूं रेजिमेंट

223	4142838	हवलदार	मान सिंह
224	4142690	हवलदार	भीम सिंह
225	4142676	हवलदार	बिवान सिंह
226	4142738	हवलदार	हरी दत्त
227	4142764	हवलदार	लीलाधर
228	4142888	हवलदार	प्राण दत्त

बी असम रेजिमेंट

229	4335001	हवलदार	एफ थानजोबा
230	4337102	हवलदार	खुपतिनसुधान बफेइ
231	02545101	हवलदार	टी के इतियाशन

बी महार रेजिमेंट

232	4534529	हवलदार	आनन्द बाधभारे
233	4534779	हवलदार	बाबू अथवाडे

234	4535872	हवलदार	बड़कोजी यादव
235	4534668	हवलदार	भीमराव काम्बले
236	4534741	हवलदार	भोपाल बन्सोडे
237	5735946	हवलदार	चिन बहादुर पुन
238	4535536	हवलदार	दादु सदाभाते
239	4534593	हवलदार	दत्तू मालो
240	4536006	हवलदार	देवराम शेल्ले
241	4535539	हवलदार	ढोन्डीराम काम्बले
242	9202584	हवलदार	शानी प्रसाद राय
243	3946761	हवलदार	जगन्नाथ
244	9203892	हवलदार	जसवन्त सिंह
245	9203244	हवलदार	मनीराम मिश्रा
246	9202706	हवलदार	प्रेम कुमार प्रधान
247	4534841	हवलदार	रघुनाथ माने
248	3949518	हवलदार	सत्यपाल सिंह
249	4534363	हवलदार	शामराव वाघमरे

बी जम्मू एण्ड काश्मीर लाइट इन्फैंट्री

250	9093337	हवलदार	अबदुल्ला मीर
-----	---------	--------	--------------

1 गोरखा राइफल्स

251	5032366	हवलदार	बल बहादुर थापा
252	5435443	हवलदार	जंग बहादुर गुहंग
253	5032350	हवलदार	कमल सिंह थापा

3 गोरखा राइफल्स

254	5233023	हवलदार	देव रामजीत कौशल
255	5233890	हवलदार	दोजे तमंग
256	5233657	हवलदार	गोबरधन पुन
257	5233654	हवलदार	हरका बहादुर रोक
258	5233894	हवलदार	कुल बहादुर थापा
259	5233620	हवलदार	नारायण सिंह थापा
260	5233864	हवलदार	पसांग धाले

4 गोरखा राइफल्स

261	5334073	हवलदार	बीर बहादुर गुहंग
262	5334094	हवलदार	केश बहादुर धाले
263	5334054	हवलदार	मेग बहादुर थापा

५ गोरखा राइफल

264	5435489	हवलदार	किशन बहादुर छेत्री
265	5435389	हवलदार	कुलबहादुर रामा
266	5436484	हवलदार	प्रीतम सिंह

८ गोरखा राइफल

267	5736107	हवलदार	चन्द्रबहादुर गुरुंग
268	5736174	हवलदार	किशनाबहादुर गुरुंग
269	5736429	हवलदार	म्योबहादुर गुरुंग

९ गोरखा राइफल

270	5833624	हवलदार	नेत्र लाल थापा
-----	---------	--------	----------------

११ गोरखा राइफल

271	9403619	हवलदार	मनबहादुर लिम्बू
-----	---------	--------	-----------------

ग्रामी सविस् कोर (सप्लाई)

272	6348355	हवलदार	राम चन्द्र शर्मा
-----	---------	--------	------------------

ग्रामी सविस् कोर (एनीमल ट्रांसपोर्ट)

273	6444553	दफादार	भास्कर बह्रेरा
274	6589115	दफादार	जगदीश सिंह
275	6445331	दफादार	काना राम

ग्रामी सविस् कोर (मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट)

276	6588855	हवलदार	ए सुरेन्द्रा प्रसाद वास
277	6594165	हवलदार	अच्छे लाल
278	6441207	हवलदार	बलबन्त सिंह
279	6589817	हवलदार	बांके लाल
280	6589597	हवलदार	भगवान सिंह
281	6589529	हवलदार	चन्वन सिंह
282	6589526	हवलदार	चन्देश्वर प्रसाद
283	3946938	हवलदार	धुव सिंह
284	6589547	हवलदार	लाल चन्व
285	6593323	हवलदार	पी करुणाकरन नायर
286	6589941	हवलदार	प्रेम कुमार शर्मा
287	6589639	हवलदार	रमेश कुमार
288	6588877	हवलदार	वैकटि पागे

ग्रामी मेडिकल कोर

289	6789782	हवलदार	भूपाल सिंह रावत
290	6593024	हवलदार	एम मार्गा बम्बू

ग्रामीं आर्डनेंस कोर

291	6867042	हवलदार	बालाभ्रप्पन
292	6867039	हवलदार	गंगा सिंह
293	6867068	हवलदार	गौरी शंकर
294	6867029	हवलदार	प्रताप सिंह

कोर आफ इलस्ट्रीकल एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स

295	7027407	सीएचएम	अमीर सिंह
296	1138333	सीएचएम	गुरुमुख सिंह
297	7029424	सीएचएम	लीला धर बिस्त
298	7025027	सीएचएम	के शिवा प्रकाशम
299	6862605	सीएचएम	मनहर लाल ऋषी
300	7027081	सीएचएम	राम राज चौहान
301	7020488	सीएचएम	सोम राज
302	7027048	सीएचएम	बी रामासामी
303	7030285	हवलदार	ए राजा विन्सेंट
304	7032172	हवलदार	ए सबस्तान
305	7025871	हवलदार	आनंद सिंह रावत
306	7027431	हवलदार	अर्जुन सिंह पुति
307	7034426	हवलदार	अपरफि लाल महतो
308	7023822	हवलदार	आरम प्रकाश
309	7034066	हवलदार	बक्खपूरिश सिंह
310	7025652	हवलदार	भूपेन्द्र सिंह
311	7024796	हवलदार	बिहारीलाल अग्रवाल
312	7008712	हवलदार	दिवाकर शर्मा
313	7032265	हवलदार	गोपाल दत्त
314	7031548	हवलदार	गोविन्द सिंह नेगी
315	7026027	हवलदार	हरबंस लाल
316	7033215	हवलदार	हरी राम
317	7010834	हवलदार	हरी शंकर गुप्ता
318	7025257	हवलदार	हरी सिंह
319	7027064	हवलदार	इंदराज सिंह यादव
320	6583420	हवलदार	जगन नाथ चौहान
321	7027604	हवलदार	जगन नाथ सिंह
322	7030363	हवलदार	जगत सिंह भंडारी
323	7023948	हवलदार	के के कुमारन
324	7021914	हवलदार	करम सिंह
325	7008819	हवलदार	कश्मीर चन्द
326	7017574	हवलदार	केशव लाल चैटर्जी
327	7030067	हवलदार	कृष्ण भगत बलिहारी
328	7028410	हवलदार	लछमन सिंह

329	7027087	हवलदार	लखी राम
330	7027697	हवलदार	लक्ष्मन राम
331	7026939	हवलदार	एम शंकरन
332	7029203	हवलदार	मदन मोहन चौधरी
333	7031515	हवलदार	नानक चंद
334	7027883	हवलदार	नानी गोपाल चक्रवर्ती
335	7011764	हवलदार	नारायन सिंह
336	7025608	हवलदार	श्रीम प्रकाश सिंह
337	7025001	हवलदार	पी धन्ना कोटि
338	7026889	हवलदार	पी सी सुग्री
339	7027117	हवलदार	पी पी भगवत सिंह
340	7027873	हवलदार	प्रासैनजीत चक्रवर्ती
341	7019518	हवलदार	राघवन नायर
342	7025119	हवलदार	रघूनाथ राउ चवान
343	11141800	हवलदार	राजा राम श्रवसूल
344	7025080	हवलदार	राजिन्द्र सिंह
345	7025375	हवलदार	राम बिलास सिंह
346	7031903	हवलदार	सहेबल्ला तेलगी
347	7024966	हवलदार	सामी पिल्ले देवराज
348	7030060	हवलदार	सतान सिंह रावत
349	7032090	हवलदार	सर्वजीत मिशरा
350	7033864	हवलदार	शशी नाथ तिवारी
351	7033123	हवलदार	सीताहिन दास
352	7024829	हवलदार	सुलेमान ईरुका
353	7026318	हवलदार	टी आर नटराजन
354	7034234	हवलदार	वट्टीपोलु सुब्बा राव

रिमाऊन्ट एण्ड वेंटरिनरी कोर

355	7230451	दफादार	राम निवास
-----	---------	--------	-----------

ग्रामी एंजुकेशन कोर

356	2843727	हवलदार	विशम्बर सिंह
357	3946186	हवलदार	जयवन्त सिंह
358	1024042	हवलदार	राम लगन दुबे
359	4142472	हवलदार	सलूक प्रसाद सिंह

बी इंटेलिजेंस कोर

360	2548736	हवलदार	ए नारायनन नायर
361	2549126	हवलदार	आई योहन्नन

कोर ग्राफ मिनिस्ट्री पुलिस

362	4035847	हवलदार	अंसूया प्रसाद
363	2944336	हवलदार	बलदेव कृष्ण
364	2544158	हवलदार	सी बी जोसफ
365	7762571	हवलदार	देवी सिंह विश्वकर्मा
366	2944320	हवलदार	गुजर मल
367	2640215	हवलदार	विजय बीर सिंह

बी पायनियर कोर

368	7994123	हवलदार	गोविन्दन पी
369	5431825	हवलदार	हरीचरन नेपाली

डिफेंस सिग्नोरिटी कोर

370	8812333	हवलदार	बाबू लाल सिंह
371	8798155	हवलदार	बाघ सिंह कंदूरा
372	8799880	हवलदार	भगवती प्रसाद
373	8793053	हवलदार	चत्तर सिंह
374	8794152	हवलदार	दया राम
375	8806647	हवलदार	जोध सिंह
376	8805612	हवलदार	लारैन्स
377	8793507	हवलदार	पी अरुमुधम
378	8796181	हवलदार	रघु राम

बी० बी० सहाय;

संयुक्त सचिव (पी एन्ड डब्ल्यू) ।

No. 12-B, dated 9th August, 1977.—The President is pleased to grant honorary rank of Naib Risaldar/Naib Subedar to the undermentioned NCOs on retirement under para 181 of the Regulations for the Army, 1962, with effect from their respective dates of retirement :—

To be Hony Naib Risaldars/Naib Subedars**7 Cavalry**

1	1023282	DFR	NARSA RAM
---	---------	-----	-----------

17 HORSE

2	1024405	DFR	JOR SINGH
---	---------	-----	-----------

9 HORSE

3	1024009	DFR	ABHEY RAM
---	---------	-----	-----------

18 CAVALRY

4	1022727	DFR	HOSHIAR SINGH
---	---------	-----	---------------

4 HORSE

5	1022749	DFR	GUMAN SINGH
---	---------	-----	-------------

20 LANCERS

6	3339822	DFR	GURDIAL SINGH
---	---------	-----	---------------

63 CAVALRY

7	1022786	DFR	BISHAN SINGH
---	---------	-----	--------------

65 ARMoured REGIMENT

8	1096889	DFR	DES RAJ
---	---------	-----	---------

66 ARMoured REGIMENT

9	1023144	DFR	MOOLA RAM
---	---------	-----	-----------

70 ARMoured REGIMENT

10	1024668	DFR	HANUMAN SINGH
11	1022615	DFR	KRISHAN LAL

ARMoured CORPS

12	1025231	DFR	GOPALAKRISHNA VITTAL- RAO CHAPARALA
----	---------	-----	--

REGIMENT OF ARTILLERY

13	1143036	HAV	A KARIAPPA
14	1143137	HAV	AMRIK SINGH
15	1142120	HAV	ANANT PRASAD
16	1143929	HAV	BALAKRISHNA PILLAI KK
17	1143339	HAV	BAL MUKAND SHARMA
18	1143117	HAV	BHAGWANA
19	1143064	HAV	BHAGWAN BHOSLE
20	1143147	HAV	BHAGWAN SINGH
21	1143858	HAV	BHANUDAS YADAV
22	1143432	HAV	BIRENDRA CHANDRA BHOWMIK
23	9202085	HAV	BRIJ LAL
24	1143798	HAV	CHIRANJEEV
25	1153123	HAV	D ANTONY
26	1143060	HAV	DINA NATH
27	1142267	HAV	GOVINDA RAJAN
28	1141269	HAV	HAKIM
29	1143194	HAV	HARBANS SINGH
30	1144871	HAV	HARMAYA
31	1143241	HAV	ISHAR SINGH
32	1164867	HAV	JANG SINGH MANN
33	1143403	HAV	JHAPSI PARSHAD
34	1159117	HAV	JOY AM
35	1143101	HAV	K DAMODARAN
36	1144098	HAV	K KOSHI
37	1143907	HAV	KA CHANDRA SEKARAN PILLAI
38	1143549	HAV	KI SADASHIVAN
39	1143394	HAV	KALAPPA GAUROI
40	1143635	HAV	KALWANT SINGH
41	1142861	HAV	KARAN SINGH
42	1149994	HAV	KASHINATH SAWANT
43	1143022	HAV	KESAR SINGH
44	1170770	HAV	KYCHARLA MAHA- LAKSHMIA, VRC.
45	1143166	HAV	LP PARAMANANDAM
46	1141528	HAV	LABAL DURYADHAN
47	1141898	HAV	LERU LAL
48	1143252	HAV	M DEO RAJ
49	1143217	HAV	M MADALAH
50	1143395	HAV	M VARADA REDDY
51	1143323	HAV	MK KUMARAN
52	1162326	HAV	MANJANATH

53	1142061	HAV	MAQDUM
54	1142708	HAV	MEHAR CHAND
55	1150517	HAV	MEHAR CHAND
56	1162558	HAV	MAHOMAD ASMATULLA
57	1143596	HAV	MUKAT SINGH
58	1143690	HAV	MULA SINGH
59	1162422	HAV	P BALAKRISHNA PILLAI
60	1143029	HAV	P DAVID LUKE
61	1143227	HAV	PIARA SINGH
62	1142664	HAV	R RAMA CHANDRAN
63	1143452	HAV	RAGHUVIR SINGH
64	1142683	HAV	RAJA RAM
65	1163264	HAV	RAM GOPAL MISIIRA
66	9202172	HAV	RAM PARKASH
67	1153401	HAV	RAM PHER YADAVA
68	1143267	HAV	RATTAN SINGH
69	1141892	HAV	ROEHAN LAL
70	1143628	HAV	S KANDA SWAMY
71	1143405	HAV	S SEETHA RAMAN
72	1143638	HAV	S SOOSAI
73	7531291	HAV	SAKA RAM
74	1143261	HAV	SARUP SINGH
75	1142728	HAV	SHEIK MASTHAN
76	9201966	HAV	SHEO CHARAN
77	1142130	HAV	SHUKURULLAH
78	1143440	HAV	SHYAMA PADA GHOSH
79	1141884	HAV	SIDDIQ
80	1141886	HAV	SITA RAM
81	1144377	HAV	SOHAN LAL
82	1141855	HAV	SUKHLAL
83	9202122	HAV	SURAJ NARAIN SINGH
84	1143956	HAV	SYED YOUSUFF
85	1143109	HAV	TARA CHAND
86	1143243	HAV	TEJ KUMAR
87	1144082	HAV	V ARSAN
88	1141812	HAV	XAVIER
89	1143247	HAV	Y ANTHONY SWAMY
90	1142684	HAV	ZORAWAR SINGH

MADRAS ENGINEER GROUP

91	1311926	HAV	SAMBAN
----	---------	-----	--------

BENGAL ENGINEER GROUP

92	1420272	HAV	JAI SINGH RAWAT
93	2942428	HAV	KAMTA SINGH
94	1310037	HAV	MS ACHUTHAN
95	1421819	HAV	MAJOR SINGH
96	1409901	HAV	PITAMBER DATT

BOMBAY ENGINEER GROUP

97	1563006	HAV	BHIM SAIN
98	1514354	HAV	GEORGE PT
99	1511179	HAV	GURNAM SINGH
100	1563459	HAV	JAGDISH SINGH
101	1511231	HAV	JARNAIL SINGH
102	1511384	HAV	JIT SINGH
103	1511148	HAV	MASTAN SINGH
104	1562492	HAV	NAMDEO JADHAV
105	1516222	HAV	NASIB SINGH
106	1515019	HAV	NIRMAL SINGH
107	1511192	HAV	NISHAN SINGH
108	1511255	HAV	SARWAN SINGH
109	1562475	HAV	SHANTARAM SURVE
110	1511204	HAV	WAMAN GOVIND SAWANT

CORPS OF SIGNALS

111	6269033	HAV	BALARAM BASAK
112	6269101	HAV	BAL BHADDRA PRASAD
113	6266835	HAV	BALESHWAR RAM
114	6263581	HAV	CHANDRA SEKHARAN M
115	6269917	HAV	CHARAN SINGH NANUAN
116	6269949	HAV	DES RAJ
117	6281799	HAV	G MOHANAN NAIR
118	6263584	HAV	GANDHARV SINGH
119	6269052	HAV	HARI DATT BHATT
120	6268999	HAV	HOSHIAR SINGH
121	6269368	HAV	JAGAT BANDHU
			BHOWMICK
122	6268847	HAV	JAGDISH PRASAD PANT
123	6268970	HAV	KALYAN SINGH
124	6276426	HAV	KOLAPPA PILJAY T
125	6266265	HAV	KRISHAN CHAND
126	6270496	HAV	MADAN LAL
127	1024622	HAV	MUKHTAR SINGH
128	6269115	HAV	PANKAJAKSHAN
129	6269239	HAV	SOHAN LAL
130	6268861	HAV	SURAT SINGH
131	6267656	HAV	TN ARJUNAN
132	6268731	HAV	YASHWANT DAREKAR

BRIGADE OF THE GUARDS

133	13650764	HAV	ABHE RAM
134	2840879	HAV	DEV RAJ
135	3343877	HAV	KABAL SINGH
136	2838677	HAV	MAHIBUL KHAN
137	5736337	HAV	MATIBAHADUR THAPA

THE PARACHUTE REGIMENT

138	3947295	HAV	ACHHRU RAM
139	3343637	HAV	BALKAR SINGH
140	2439464	HAV	DARSHAN LAL SHARMA
141	2944389	HAV	HARNA SINGH
142	5233896	HAV	LALITMAN PUN
143	2434495	HAV	PREM SINGH
144	2843707	HAV	RATTAN SINGH
145	3946392	HAV	RATTI RAM
146	3946388	HAV	THAKUR DASS

THE PUNJAB REGIMENT

147	2439707	HAV	BACHITTAR RAM
148	2439991	HAV	BANTA SINGH
149	2439847	HAV	BHUP SINGH
150	3341263	HAV	DINA NATH
151	2440049	HAV	KALI DASS
152	2439753	HAV	KARTAR SINGH
153	2440140	HAV	NIRMAL SINGH
154	2439764	HAV	PUNJAB SINGH
155	2440043	HAV	RUP LAL
156	2439770	HAV	SHAM SINGH
157	2440525	HAV	SODHI RAM

THE MADRAS REGIMENT

158	2543779	HAV	C BALAN
159	1023174	HAV	HARCHAND
160	2543726	HAV	TN CHANDRA SEKIIARAN
			NAMBIAR
161	2543738	HAV	U SREERAMULU

THE GRENADIERS

162	2640560	HAV	KABAL DASS
163	2640358	HAV	RICHHPAL SINGH

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

164	2740297	HAV	ANANT DESHMUKH
165	2740395	HAV	GOVIND KHARADE
166	2742108	HAV	IGANDAR KAKATKAR
167	2740268	HAV	KISHAN SAWANT
168	2740396	HAV	ROSHAN LALL
169	2740269	HAV	SHANKAR CHAVAN

THE RAJPUTANA RIFLES

170	2843688	HAV	AMARPAL SINGH
171	2843911	HAV	FAQIRA SINGH
172	2843520	HAV	HARDAYAL
173	1419766	HAV	JAGMAL SINGH
174	2847015	HAV	MADAN SINGH
175	2848898	HAV	OM PARKASH
176	2844901	HAV	RAM KANWAR SINGH
177	2846388	HAV	ROHTAN SINGH
178	2843886	HAV	RURA RAM
179	2843646	HAV	TIKAM SINGH

THE RAJPUT REGIMENT

180	2948188	HAV	CHOUHARJA PRASAD PANDEY
-----	---------	-----	----------------------------

THE JAT REGIMENT

181	3140888	HAV	ASA RAM
182	3141039	HAV	BALBIR SINGH
183	3140689	HAV	BALMUKUND VERMA
184	3140668	HAV	GOPI
185	3140885	HAV	JAGBIR SINGH
186	3140719	HAV	JUG LAL
187	3140491	HAV	RAGHU NATH
188	3140718	HAV	SAJAN SINGH

THE SIKH REGIMENT

189	3344117	HAV	AJIT SINGH
190	3344075	HAV	BANT SINGH
191	3344203	HAV	GURBAKHSI SINGH
192	3344009	HAV	GURCHARAN SINGH
193	3344435	HAV	GURCHARAN SINGH
194	3344299	HAV	GURDEV SINGH
195	3343938	HAV	HARBANS SINGH
196	3344221	HAV	JARNAIL SINGH
197	3343642	HAV	LABH SINGH
198	3343876	HAV	MUKHTIAR SINGH
199	3343633	HAV	MUKHTIAR SINGH
200	3344081	HAV	NIRMAL SINGH
201	3344313	HAV	SARJIT SINGH
202	3344332	HAV	SARWAN SINGH
203	3344261	HAV	TEJA SINGH

THE SIKH LIGHT INFANTRY

204	4436170F	HAV	CHANAN SINGH
205	4436355H	HAV	DARSHAN SINGH
206	4436412Y	HAV	KARAM SINGH
207	4436309N	HAV	KARTAR SINGH
208	4437169Y	HAV	PARKASH SINGH
209	4436204K	HAV	RAM SINGH

THE DOGRA REGIMENT

210	3946244	HAV	GORAKH SINGH SANETIA
211	3946630	HAV	KHAJUR SINGH
212	3946734	HAV	SHANKAR DASS

THE GARHWAL RIFLES

213	4036099	HAV	BHARAT SINGH NEGI
214	4036121	HAV	BIRENDER SINGH RAWAT
215	4037777	HAV	GABAR SINGH
216	4036085	HAV	GABAR SINGH RAWAT
217	4035745	HAV	GHURHOO
218	4036222	HAV	GOBIND SINGH
219	4036244	HAV	KARAN SINGH NEGI
220	4036136	HAV	MANBAR SINGH KANDARI
221	4036115	HAV	PARTAP SINGH
222	4037192	HAV	PREM SINGH RAWAT

THE KUMAON REGIMENT

223	4142838	HAV	BHAN SINGH
224	4142690	HAV	BHIM SINGH
225	4142676	HAV	DIWAN SINGH
226	4142738	HAV	HARI DATT
227	4142764	HAV	LILA DHAR
228	4142888	HAV	PRAN DATT

THE ASSAM REGIMENT

229	4335001	HAV	F THANZAUVA
230	4337102	HAV	KHUPTINSUAN VAIPHEI
231	2545101	HAV	TK ITTIACHAN

THE MAHAR REGIMENT

232	4534529	HAV	ANANDA WAGHMARE
233	4534779	HAV	BABU ATHAWADE
234	4535872	HAV	BARKOJI YADAV
235	4534668	HAV	BHIMRAO KAMBLE
236	4534741	HAV	BHOPAL BANSODE
237	5735946	HAV	CHIN BAHADUR PUN
238	4535536	HAV	DADU SADAMATE
239	4534593	HAV	DATTU MALGE
240	4536006	HAV	DEV RAM SHELKE
241	4535539	HAV	DHONDIRAM KAMBLE
242	9202584	HAV	GAYANI PRASAD RAI
243	3946761	HAV	JAGAN NATH
244	9203892	HAV	JASWANT SINGH
245	9203244	HAV	MANI RAM MISRA
246	9202706	HAV	PREM KUMAR PRADHAN
247	4534841	HAV	RAGHUNATH MANE
248	3949518	HAV	SATYAPALL SINGH
249	4534363	HAV	SHAMRAO WAGHMARE

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

250	9093337	HAV	ABDULLA MIR
-----	---------	-----	-------------

1 GORKHA RIFLES

251	5032366	HAV	BAL BAHADUR THAPA
252	5435443	HAV	JANG BAHADUR GURUNG
253	5032350	HAV	KAMAL SINGH THAPA

3 GORKHA RIFLES

254	5233023	HAV	DEV RAMJIT KAUSHAL
255	5233890	HAV	DORJEY TAMANG
256	5233657	HAV	GOBARDHAN PUN
257	5233654	HAV	HARKA BAHADUR ROKA
258	5233894	HAV	KUL BAHADUR THAPA
259	5233620	HAV	NARAIN SINGH THAPA
260	5233864	HAV	PASANG GHALE

4 GORKHA RIFLES

261	5334073	HAV	BIR BAHADUR GURUNG
262	5334094	HAV	KESH BAHADUR ALI
263	5334054	HAV	MFG BAHADUR THAPA

5 GORKHA RIFLES

264	5435489	HAV	KISHANBAHADUR CHHETRI
265	5435389	HAV	KULBAHADUR RANA
266	5436484	HAV	PRITAM SINGH

8 GORKHA RIFLES

267	5736107	HAV	CHANDRABAHADUR GURUNG
268	5736174	HAV	KISHANBAHADUR GURUNG
269	5736429	HAV	MFOBAHADUR GURUNG

9 GORKHA RIFLES

270	5833624	HAV	NETRA LAL THAPA
-----	---------	-----	-----------------

11 GORKHA RIFLES

271	9403619	HAV	MANBAHADUR LIMBU
-----	---------	-----	------------------

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

272	6348355	HAV	RAM CHANDER SHARMA
-----	---------	-----	--------------------

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

273	6444553	DFR	BHASKAR BEHERA
274	6589115	DFR	JAGDISH SINGH
275	6445331	DFR	KANA RAM

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

276	6588855	HAV	A SURENDRA PRASAD DAS
277	6594165	HAV	ACHHE LAL
278	6441207	HAV	BALWANT SINGH
279	6580917	HAV	BANKE LAL
280	6589597	HAV	BHAGWAN SINGH
281	6589529	HAV	CHANDAN SINGH
282	6589526	HAV	CHANDESHWAR PRASAD
283	3546938	HAV	DHURB SINGH
284	6589547	HAV	LAL CHAND
285	6593323	HAV	P KARUNAKARAN NAIR
286	6589441	HAV	PREM KUMAR SHARMA
287	6589639	HAV	RAMFISH KUMAR
288	6588877	HAV	VENKATI PARGE

ARMY MEDICAL CORPS

289	6789782	HAV	BHUPAL SINGH RAWAT
290	6593024	HAV	M MARGA BANDHU

ARMY ORDNANCE CORPS

291	6867042	HAV	BALLAPPAN
292	6867039	HAV	GANGA SINGH
293	6867068	HAV	GHOORI SHANKER
294	6867029	HAV	PARTAP SINGH

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

295	7027407	CHM	AMIR SINGH
296	1138333	CHM	GURMUKH SINGH
297	7029424	CHM	LILA DHAR BIST
298	7025027	CHM	K SIVA PRAKASAM
299	6862605	CHM	MANHAR LAL RISHI
300	7027081	CHM	RAM RAO CHAUAN
301	7020488	CHM	SOM RAJ
302	7027048	CHM	V RAMASAMY
303	7030285	HAV	A RAJA VINCENT
304	7032172	HAV	A SEBASTAN
305	7025871	HAV	ANAND SINGH RAWAT
306	7027431	HAV	ARJUN SINGH PURTY
307	7034426	HAV	ASHARFI LAL MAHTO
308	7023822	HAV	ATAM PARKASH
309	7034066	HAV	BAKHSHISH SINGH
310	7025652	HAV	BHOPENDRA SINGH
311	7024796	HAV	BIHARILAL AGARWAL
312	7008712	HAV	DIWAKAR SHARMA
313	7032265	HAV	GOPAL DATT
314	7031548	HAV	GOVIND SINGH NEGI
315	7026027	HAV	HARBANS LAL
316	7033215	HAV	HARI RAM
317	7010834	HAV	HARI SHANKAR GUPTA
318	7025257	HAV	HARI SINGH
319	7027064	HAV	INDRAJ SINGH YADAV
320	6583420	HAV	JAGAN NATH CHAUAN
321	7027604	HAV	JAGAN NATH SINGH
322	7030363	HAV	JAGAT SINGH BHANDARI
323	7023948	HAV	KK KUMARAN
324	7021914	HAV	KARAM SINGH
325	7008819	HAV	KASHMIR CHAND
326	7017574	HAV	KESHAB LAL CHATTERJEE
327	7030067	HAV	KRISHAN BHAGAT BALIHARI
328	7028410	HAV	LACHMAN SINGH
329	7027087	HAV	LAKHI RAM
330	7027697	HAV	LAXMAN RAO
331	7026939	HAV	M SHANKARAN
332	7029203	HAV	MADAN MOHAN CHOWDHURY
333	7031515	HAV	NANAK CHAND
334	7027883	HAV	MANI GOPAL CHAKRABORTY
335	7011764	HAV	NARAYAN SINGH
336	7025608	HAV	OM PRAKASH SINGH
337	7025001	HAV	P DHANA KOTTY
338	7026889	HAV	PC SUNNY
339	7027117	HAV	PP BHAGAVATH SINGH
340	7027873	HAV	PRASENJIT CHAKRAVARTY
341	7019518	HAV	RAGHAVAN NAIR
342	7025119	HAV	RAGHUNATHA RAO CHAVAN
343	11141800	HAV	RAJA RAM ADSUL
344	7025080	HAV	RAJINDER SINGH
345	7025375	HAV	RAM BILASH SINGH
346	7031903	HAV	SAHEBANNA TELGI
347	7024966	HAV	SAMY PILLAI DEVRAJ
348	7030060	HAV	SANTAN SINGH RAWAT
349	7032090	HAV	SARBJIT MISHRA
350	7033864	HAV	SHASHI NATH TEWARI
351	7033123	HAV	SITAHIN DAS
352	7024829	HAV	SULEMAN EKKA
353	7026318	HAV	TR NATARAJAN
354	7034234	HAV	VATTIPOLU SUBBA RAO

MOUNT AND VETERINARY CORPS

355 7330451

DFR

RAM NIWAS

THE ARMY EDUCATIONAL CORPS

356	2843727	HAV	BISHAMBER SINGH
357	3946186	HAV	JAIWANT SINGH
358	1024042	HAV	RAM LAGAN DUBE
359	4142472	HAV	SALUK PRASAD SINGH

THE INTELLIGENCE CORPS

360	2548736	HAV	A NARAYANAN NAIR
361	2549126	HAV	I YOHANNAN

CORPS OF MILITARY POLICE

362	4035847	HAV	ANSUYA PARSAD
363	2944336	HAV	BALDEV KRISHAN
364	2544158	HAV	CV JOSEPH
365	7762571	HAV	DEVI SINGH
			VISHWAKARMA
366	2944320	HAV	GUJAR MAL
367	2640215	HAV	VIJAYBIR SINGH

THE PIONEER CORPS

368	7994123	HAV	GOVINDAN P
369	5431825	HAV	HARICHARAN NEPALI

DEFENCE SECURITY CORPS

370	8812333	HAV	BABU LAL SINGH
371	8798155	HAV	BAGH SINGH KAINATURA
372	8799880	HAV	BHAGWATI PRASHAD
373	8793053	HAV	CHATTAR SINGH
374	8794152	HAV	DAYA RAM
375	8806647	HAV	JODH SINGH
376	8805612	HAV	LAWRENCE
377	8793507	HAV	P ARUMUGHAM
378	8796181	HAV	RAGHU RAM

B. B. SAHAY,
Jt. Secy. (P & W).

सं० 13-ई, तारीख 5 अगस्त, 1977.—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं —

भारतीय नौसेना

स्थायी संवर्ग

स्पेशल ड्यूटीज लिस्ट

निम्नलिखित मास्टर शीफ पेटी अफसरों को भारतीय नौसेना में सक्रिय सूची पर 15 अगस्त, 1977 से आनरेरी कमीशन प्रदान किया जाता है —

आनरेरी सब लेफ्टिनेंट 'स्पेशल ड्यूटीज' के पद पर

क्रम सं०	नाम	रैंक	सं०
1.	स्वर्ण सिंह	एम सी पी ओ ।	36270
2.	हनवन्त सिंह	एम सी पी ओ ।	36405

अ० ल० वेन्कटेश्वरन, संयुक्त सचिव ।

No. 13-E, dated 5th August, 1977 The President is pleased to make the following appointments —

(INDIAN NAVY)

PERMANENT CADRE

SPECIAL DUTIES LIST

The following Master Chief Petty Officers are granted Honorary Commission on the Active List in the Indian Navy with effect from 15th August, 1977 —

To be Honorary Sub-Lieutenants "Special Duties"

Sl. No.	Name	Rank	No.
1.	Swaran Singh	MCPO I	36270
2	Hanwant Singh	MCPO I	36405

A. L. VENKATESWARAN, Jt. Secy

(वायु शाखा)

सं० 14-ई, दिनांक 9 अगस्त, 1977.—वायुसेना विनियमावली के पैरा 344 के अधीन निम्नलिखित आनरेरी फ्लाइट अफसरों को 15 अगस्त, 1977 से आनरेरी फ्लाइट लैफ्टिनेंट के रैंक में पदोन्नत किया जाता है —

11001	मास्टर वारंट अफसर (आनरेरी फ्लाइट अफसर)	तिवारी बी पी इंजन फिटर
18718	वारंट अफसर (आनरेरी फ्लाइट अफसर)	ओलीवर एम एम, ए एफ/फिटर
14522	मास्टर वारंट अफसर (आनरेरी फ्लाइट अफसर)	पिल्ले जी एम रेडार/फिटर
39185	मास्टर वारंट अफसर (आनरेरी फ्लाइट अफसर)	दूबे पी एन मेड असिस्टेंट
48237	मास्टर वारंट अफसर (आनरेरी फ्लाइट अफसर)	नायर पी एस आर रेडियो फिटर
28700	मास्टर वारंट अफसर (आनरेरी फ्लाइट अफसर)	जान सी पी एम टी डी

(AIR BRANCH)

No. 14-E, dated 9th August, 1977.—The undermentioned Honorary Flying Officers are promoted to Honorary Flight Lieutenants with effect from 15th August, 1977 under para 344 of Regulations for the Air Force.

11001	MWO	(Hony Fg Offr)	TEWARI VP	ENG/FIT
18718	WO	(Hony Fg Offr)	OLIVER MM	AF/FIT
14522	MWO	(Hony Fg Offr)	PILLAI GM	RAD/FIT
39185	MWO	(Hony Fg Offr)	DUBE PN	MED/ASST
48237	MWO	(Hony Fg Offr)	NAIR PSR	RDO/FIT
28700	MWO	(Hony Fg Offr)	JOHN CP	M T D

सं० 15-ई, दिनांक 9 अगस्त, 1977.—वायुसेना विनियमावली के पैरा 344 के अधीन निम्न-लिखित मास्टर वारन्ट अफसरों/वारन्ट अफसरों को 15 अगस्त, 1977 से फ्लाइटिंग अफसर के रैंक में मानरेरी कमीशन प्रदान किया जाता है :—

25015	मास्टर वारन्ट अफसर कुरुप एम एन	इक्विपमेन्ट असिस्टेंट
12924	मास्टर वारन्ट अफसर नन्द किशोर	क्लर्क एकाउंट्स
19258	मास्टर वारन्ट अफसर चन्द्र एस आर	इंजन फिटर
15905	मास्टर वारन्ट अफसर श्री कृष्ण सिंह	रेडियो फिटर
12557	मास्टर वारन्ट अफसर अरविन्दन सी एम	इक्विपमेन्ट असिस्टेंट
46868	वारन्ट अफसर रेड्डी सी आर	भा वा से पुलिस
28195	मास्टर वारन्ट अफसर बाजपेयी जे एल	क्लर्क जी डी
20123	मास्टर वारन्ट अफसर नानजुवन एन सी	रेडियो फिटर
15735	मास्टर वारन्ट अफसर देसाई बी के	एम टी फिटर
10778	मास्टर वारन्ट अफसर गुप्ता आर डी	फोटो मैकेनिक
15583	मास्टर वारन्ट अफसर धर्म राजन	इंजन फिटर
18501	मास्टर वारन्ट अफसर पद्मनाभन टी के	ए सी एच/जी डी
14511	मास्टर वारन्ट अफसर बालन आर	इलेक्ट्रिकल फिटर
16262	मास्टर वारन्ट अफसर शर्मा एन एम	भा वा से पुलिस
15491	मास्टर वारन्ट अफसर रामपाल आई सी	डब्ल्यू/एस फिटर (बी एण्ड डब्ल्यू)
22414	मास्टर वारन्ट अफसर मधुज पी एम	क्लर्क जी डी
22414	मास्टर वारन्ट अफसर अलगप्पन के	जी टी आई
21092	वारन्ट अफसर सेल्वरज आर	इन्स्ट्रूमेंट रिपेयरर I
18507	मास्टर वारन्ट अफसर गोपाल कृष्णन्	एम टी डी
26591	मास्टर वारन्ट अफसर अमर सिंह	ए एफ/फिटर
43902	मास्टर वारन्ट अफसर नायर टी के	रेडार फिटर
25734	मास्टर वारन्ट अफसर कुमार एम एल	केट/असिस्टेंट
11280	मास्टर वारन्ट अफसर कृष्णन् ए एस	मैथिकल असिस्टेंट
15221	मास्टर वारन्ट अफसर सेन एच एल	डब्ल्यू पी एन/फिटर
23338	मास्टर वारन्ट अफसर सिंह आर पी	वर्कशाप फिटर (सी एण्ड एस एम डब्ल्यू)
300148	मास्टर वारन्ट अफसर नायर पी वी जी	फ्लाइट सिग्नलर
25301	मास्टर वारन्ट अफसर कवलूर एम	ए डी एस ओ
37263	मास्टर वारन्ट अफसर बेकल पी एल	ए एफ एस ओ

24895	मास्टर वारन्ट अफसर दास बी भी	टेली, आर/टी/आपरेटर
36603	मास्टर वारन्ट अफसर रंगैयाजी बी	क्रिटो
40678	मास्टर वारन्ट अफसर मुखर्जी एन के	मेट असिस्टेंट

No. 15-E, dated 9th August, 1977.—The undermentioned MWOs/WOs are granted Honorary Commission in the rank of Flying Officer with effect from 15th August, 1977 under para 344 of Regulations for the Air Force.


25015	MWO	KURUP MN	EQ/ASST
12924	MWO	NAND KISHORE	CLK/ACCTS
19258	MWO	CHANDRA SR	ENG/FIT
15905	MWO	SHRI KRISHNA SINGH	RDO/FIT
12557	MWO	ARAVINDAN CM	EQ/ASST
46368	WO	REDDY CR	IAF/P
28195	MWO	BAJPAI JL	CLK/GD
20123	MWO	NANJUNDAN NC	RDO/FIT
15735	MWO	DESAI BK	MT/FIT
10778	MWO	GUPTA RD	PHOTO/MECH
15583	MWO	DHARMA RAJAN	ENG/FIT
18501	MWO	PADMANABHAN TK	ACH/GD
14511	MWO	BALAN R	ELECT/FIT
16262	MWO	SHARMA NN	IAF/P
15491	MWO	RAMPAL IC	W/S FIT (B&W)
27516	MWO	MATHEWS PM	CLK/GD
22414	MWO	ALAGAPPAN K	G T I
21092	WO	SELVARAJ R	INST/REP I
18507	MWO	GOPAL KRISHNAN	M T D
26591	MWO	AMAR SINGH	AF/FIT
43902	MWO	NAIR TK	RAD/FIT
25734	MWO	KUMAR ML	CAT/ASST
11280	MWO	KRISHNAN AS	MED/ASST
15221	MWO	SEN HL	WPN/FIT
23338	MWO	SINGH RP	W/S FIT (C&SMW)
300148	MWO	NAIR PV	FLT/SIG
25301	MWO	KAVALUR M	ADS O
37263	MWO	BEKAL PL	AFSO
24895	MWO	DAS BC	TEL/RT/OPR
36603	MWO	RANGIAH B	CRYPTO
40678	MWO	MUKHERJEE N K	MET/ASST

सं० 16-ई, दिनांक 9 अगस्त, 1977.—वायुसेना विनियमावली के परा 345 के अधीन 21280 मास्टर वारन्ट अफसर उपाध्याय एस एन क्लर्क जी डी (सेवा निवृत्त) को 15 अगस्त 1977 से सेवा-निवृत्त सूची पर पलाइंग अफसर का आनरेरी रैंक प्रदान किया जाता है।

स० ना० राय, संयुक्त सचिव।

No. 16-E, dated 9th August, 1977.—21280 MWO UPADHAYAY SN CLK/GD (Retd) is granted the Honorary Rank of Flying Officer with effect from 15th August, 1977 on the retired list under para 345 of Regulations for the Air Force.

S. N RAO, Jt. Secy.



महा प्रबन्धक, भारत सरकार मंत्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा निबंधक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977